



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2011 (चैत्र 12, 1933)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2011 (CHAITRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2011

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2010

सं. 14-प्रेज/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मॅडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. आईसी-23375 लेफ्टि जनरल कपिलेश्वर प्रसाद ढल सामन्ता, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
2. आईसी-24652 लेफ्टि जनरल राज कुमार करवल, अविसेमे, सेमे-बार, विसेमे, इन्फैंट्री/महानिदेशक राष्ट्रीय कैंडेट कोर
3. आईसी-24656 लेफ्टि जनरल प्रदिप खन्ना, अविसेमे, विसेमे, एडीसी, कवचित कोर/मुख्यालय दक्षिणी कमान
4. आईसी-24718 लेफ्टि जनरल प्रेम कृष्ण गोयल, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
5. आईसी-25066 लेफ्टि जनरल अरविन्द्र सिंह लाम्बा, अविसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
6. आईसी-25135 लेफ्टि जनरल विष्णु काँत चतुर्वेदी, अविसेमे, सेमे, तोपखाना रेजिमेंट
7. आईसी-25156 लेफ्टि जनरल जसविन्द्र पाल सिंह, अविसेमे, कवचित कोर
8. आईसी-25189 लेफ्टि जनरल गौतम बनर्जी, अविसेमे, युसेमे, इंजीनियर्स कोर/अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई
9. आईसी-25408 लेफ्टि जनरल महेश चन्द्र बधानी, विसेमे, इंजीनियर्स कोर
10. आईसी-25442 लेफ्टि जनरल स्वतन्त्रा नन्द हाण्डा, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
11. आईसी-25562 लेफ्टि जनरल पार्थ महापात्र, अविसेमे, एडीसी, सिग्नल कोर
12. आईसी-25646 लेफ्टि जनरल विरेन्द्र सिंह टोंक, अविसेमे, इन्फैंट्री
13. आईसी-27026 लेफ्टि जनरल प्रकाश मेनन, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
14. आईसी-27034 लेफ्टि जनरल जसबीर सिंह, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तरी कमान

15. आईसी-32782 लेफ्टि.जनरल बालाचन्द्रा कुट्टप्पा चेन्नाप्पा, अविसेमे, इन्फैंट्री (सेवानिवृत्त)
16. आईसी-32844 लेफ्टि.जनरल राम प्रताप, अविसेमे, विसेमे, सेना वायु रक्षा कोर
17. एमआर-03434 लेफ्टि.जनरल हीरा लाल ककरिया, अविसेमे, विसेमे-बार, सेना चिकित्सा कोर
18. एमआर-03831 लेफ्टि.जनरल देवेन्द्र पौल वत्स, सेमे, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे
19. डीआर-10270 लेफ्टि.जनरल सुरेन्द्र भूषण सहजपाल, अविसेमे, विसेमे, सेना दंत चिकित्सा कोर
20. वाइस एडमिरल अनूप सिंह, अविसेमे, नौमे (01424-के)
21. वाइस एडमिरल डी के दीवान, अविसेमे, (01396-वाई)
22. वाइस एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी, अविसेमे, युसेमे, नौमे, विसेमे (01507-जेड)
23. एयर मार्शल निर्दोष वात्स्यायन त्यागी, अविसेमे, वामे, विसेमे (12765) उड़ान (पायलट)
24. एयर मार्शल सुमित मुकर्जी, शौर्य चक्र, विसेमे (12925) उड़ान (पायलट)
25. एयर मार्शल परमजीत सिंह भंगु, अविसेमे, वामे (12932) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)
26. एयर मार्शल किशन कुमार नौहवार, वामे (13132) उड़ान (पायलट)
27. एयर मार्शल गुरदीप सिंह कोचर, एवीएसएम, वामे (13149) उड़ान (पायलट)
28. एयर मार्शल पुत्थियाविट्टिल मधुसूदन, अविसेमे, विसेमे (29428) चिकित्सा (सेवानिवृत्त)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 15-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-27203 लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्णा सिंह, अविसेमे, इन्फैंट्री/ मुख्यालय 14 कोर
2. आईसी-27215 लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर सिंह, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 3 कोर
3. आईसी-27645 लेफ्टि.जनरल रामेश्वर राय, अविसेमे, युसेमे, इन्फैंट्री/ मुख्यालय 16 कोर
4. आईसी-27972 लेफ्टि.जनरल ज्ञान भूषण, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 कोर

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 16-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-25833 लेफ्टि.जनरल गोविन्द मोहन नायर, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
2. आईसी-25836 लेफ्टि.जनरल हरिन्द्र पाल सिंह कलौर, सेमे, इन्फैंट्री/रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
3. आईसी-25909 लेफ्टि.जनरल विनोद कुमार शर्मा, सिगनल कोर/टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सैन्य कॉलेज
4. आईसी-27616 लेफ्टि.जनरल कोनारा सुरेन्द्र नाथ, विसेमे, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 10 कोर
5. आईसी-27667 लेफ्टि.जनरल कमल मोहे, सेना सेवा कोर/सेना सेवा कोर केंद्र एवं कॉलेज
6. आईसी-27701 लेफ्टि.जनरल दलबीर सिंह सिदु, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 33 कोर
7. आईसी-27967 लेफ्टि.जनरल सुरेन्द्र पाल सिंह, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
8. आईसी-30010 लेफ्टि.जनरल दिग्विजय सिंह ठाकुर, इन्फैंट्री/मुख्यालय 15 कोर
9. आईसी-30068 लेफ्टि.जनरल सुरेन्द्र प्रताप तंवर, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय उत्तर भारत एरिया
10. आईसी-30516 लेफ्टि.जनरल कुलदीप सिंह, सेना वायु रक्षा/सेना वायु रक्षा कॉलेज
11. एमआर-03435 लेफ्टि.जनरल भागीरथ सिंह राठौर, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर (सेवानिवृत्त)
12. आईसी-25511 मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, विसेमे, इंजीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
13. आईसी-27978 मेजर जनरल अरूण सिंह चन्द, इंजीनियर्स कोर
14. आईसी-30710 मेजर जनरल अनिल कुमार मिश्रा, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय पूर्वी कमान
15. आईसी-30723 मेजर जनरल अशोक सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 12 इन्फैंट्री डिवीजन
16. आईसी-30892 मेजर जनरल यशपाल सिंह रावत, सेमे, इन्फैंट्री
17. आईसी-31011 मेजर जनरल विनोद कुमार नायक, कीर्ति चक्र, इन्फैंट्री/मुख्यालय 6 पर्वतीय डिवीजन
18. आईसी-31052 मेजर जनरल शक्ति गुरुंग, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 57 पर्वतीय डिवीजन

19. आईसी-31324 मेजर जनरल कोतेनत सुरेन्द्रनाथ, सेमे, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 26 इन्फैंट्री डिवीजन
20. आईसी-31351 मेजर जनरल राज नंदन सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 56 इन्फैंट्री डिवीजन
21. आईसी-31705 मेजर जनरल संदीप सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/आईजीएआर (उत्तर)
22. आईसी-31739 मेजर जनरल चण्गाली अनंताकृष्णन, इन्फैंट्री/आईजीएआर (दक्षिण)
23. आईसी-31962 मेजर जनरल विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सिगनल कोर
24. आईसी-33235 मेजर जनरल दीपिन्द्र सिंह, सेमे, विसेमे, कवचित कोर (सेवानिवृत्त)
25. आईसी-34003 मेजर जनरल मनमोहन सिंह राय, विसेमे, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय सीआईएफ (यू)
26. आईसी-34019 मेजर जनरल दिपेन्द्रा सिंह हूडा, विसेमे-बार, इन्फैंट्री/मुख्यालय 57 पर्वतीय डिवीजन
27. आईसी-36119 मेजर जनरल सुरेश कुमार खजूरिया, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 8 पर्वतीय डिवीजन
28. आईसी-36269 मेजर जनरल अनिल सिंह नान्दल, सेमे, इन्फैंट्री, मुख्यालय सीआईएफ (वी)
29. आईसी-36294 मेजर जनरल नवतेज सिंह बाबा, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय सीआईएफ (डी)
30. एमआर-04133 मेजर जनरल भूषण कुमार चोपड़ा, सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
31. डीआर-10309 मेजर जनरल सुशांत कारकून, सेना दंत चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
32. एमआर-03856 ब्रिगेडियर वेलू नायर, विसेमे-बार, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
33. रियर एडमिरल रविन्द्र खन्ना, विसेमे (50514-बी) (सेवानिवृत्त)
34. रियर एडमिरल सुनील लांबा, (01823-टी)
35. रियर एडमिरल राहुल कुमार श्रावत, (50570-एफ)
36. रियर एडमिरल रमाकांत पटनायक, युसेमे (01860-ए)
37. रियर एडमिरल माइकल टैटस मोरायस (01888-आर)
38. रियर एडमिरल परसुराम नायडू मुरुगेसन, विसेमे (01958-जेड)
39. रियर एडमिरल विजय कुमार नम्बाल्ला, नौमे, (40689-जेड)
40. एयर मार्शल दलजीत सिंह, वामे (14553) उड़ान (पायलट)
41. एयर मार्शल जगदीश चन्द्रा, विसेमे (14613) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)

42. एयर वाइस मार्शल रवी कान्त शर्मा, वामे (14088) उड़ान (पायलट)
43. एयर वाइस मार्शल नवीन रतन, विसेमे (14242) चिकित्सा
44. एयर वाइस मार्शल अजीज जावेद, विसेमे (14386) प्रशासन
45. एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा, वामे, विसेमे (14668) उड़ान (पायलट)
46. एयर वाइस मार्शल नगेन्द्र मोहन वैष्णवी, विसेमे (14822) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
47. एयर वाइस मार्शल सुभाष चन्द्र लुथरा, विसेमे (15105) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
48. एयर वाइस मार्शल शिरीष बबन देव, वामे, विसेमे (15681) उड़ान (पायलट)
49. एयर कमोडोर श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा, वामे (16053) उड़ान (पायलट)
50. एयर कमोडोर हरजीत सिंह अरोरा (16557) उड़ान (पायलट)
51. एयर कमोडोर अर्जुन सुब्रमण्यम (16592) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 17-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थिति के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-40364 ब्रिगेडियर गजेन्द्र प्रसाद, विसेमे, डोगरा रेजिमेंट/ मुख्यालय 9 सेक्टर असम राइफल
2. आईसी-40421 ब्रिगेडियर संजय कुमार भनोट, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 26 सेक्टर असम राइफल
3. आईसी-46832 कर्नल अमर रामदसानी, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-50275 कर्नल विक्रम सिंह चौहान, पैराच्यूट रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 18-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-31118 मेजर जनरल बलविंदर सिंह सचर,सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 2 पर्वतीय डिवीजन
2. आईसी-34385 मेजर जनरल अनिल कुमार आहूजा, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय उत्तरी कमान

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 19-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-25839 लेफ्टि. जनरल बलजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट
2. आईसी-30702 लेफ्टि. जनरल फिलिप कैम्पोस, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय एसएफसी
3. आईसी-27945 मेजर जनरल तजुदीन मौलाली मैसाले, ईएमई/मुख्यालय तकनीकी ग्रुप इलै. एंड मैके. इंजीनियरिंग
4. आईसी-30143 मेजर जनरल अरुण कुमार चढ्ढा, सेमे, सिगनल कोर/मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
5. आईसी 30327 मेजर जनरल इन्दर पाल सिंह, कवचित कोर/मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान
6. आईसी-31012 मेजर जनरल योहन्नान चाको तरकन, सिगनल कोर/मुख्यालय दक्षिणी कमान
7. आईसी-31087 मेजर जनरल रसक्यून्हा नेविले मार्क, इन्फैंट्री
8. आईसी-31131 मेजर जनरल पोल्लत वाकयिल कृष्णा कुमार मेनोन, सेना आयुध कोर
9. आईसी-31134 मेजर जनरल गौतम मूर्थी, सेना आयुध कोर
10. आईसी-31323 मेजर जनरल संजीव मढोक, इन्फैंट्री/मुख्यालय 18 इन्फैंट्री डिवीजन
11. आईसी-31341 मेजर जनरल संजीव आनन्द, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 5 पर्वतीय डिवीजन
12. आईसी-31505 मेजर जनरल सुब्रतो मित्रा, सेमे, इन्फैंट्री/चयन केंद्र दक्षिण
13. आईसी-31653 मेजर जनरल अनिल कुमार भल्ला, कवचित कोर/मुख्यालय 31 कवचित डिवीजन
14. आईसी-35036 मेजर जनरल नितिन कुमार कोहली, सिगनल कोर/मुख्यालय आंध्र, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक एरिया
15. आईसी-35874 मेजर जनरल चिन्नन श्रीकुमार नायर, जज एडवोकेट जनरल विभाग
16. एमआर-03954 मेजर जनरल मोहन प्रहलादराव मुत्तगीकर, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
17. डीआर-10288 मेजर जनरल महेश चन्द्र, सेना दंत चिकित्सा कोर

18. आईसी-34605 मेजर जनरल राकेश शर्मा, 11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 10 कोर
19. आईसी-34971 ब्रिगेडियर आर सुब्रमन्यम, सिगनल कोर/एमसीटीई
20. आईसी-35171 ब्रिगेडियर राजबीर सिंह, 3 गोरखा राइफल/मुख्यालय पुणे सब एरिया
21. आईसी-35210 ब्रिगेडियर बसंत कुमार धिंगड़ा, सेमे, सेना वायु रक्षा रेजिमेंट/सेना वायु रक्षा केंद्र
22. आईसी-35789 ब्रिगेडियर रणजीत सिंह, सेना शिक्षा कोर/सैनिक स्कूल सोसायटी
23. आईसी-37793 ब्रिगेडियर नवनीत खन्ना, जज एडवाकेट जनरल डिपार्टमेंट/मुख्यालय पूर्वी कमान
24. आईसी-38673 ब्रिगेडियर मनजीत मेहता, सेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 82 पर्वतीय ब्रिगेड
25. आईसी-39437 ब्रिगेडियर शशांक ताराकांत उपासनी, सेमे, जाट रेजिमेंट/मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल
26. आईसी-39441 ब्रिगेडियर राजबीर सिंह, पैराचूट रेजिमेंट/मुख्यालय 15 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-39465 ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बेदी, गढ़वाल राइफल/मुख्यालय 5 पर्वतीय ब्रिगेड
28. आईसी-39492 ब्रिगेडियर अनिल चौहान, 11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 59 पर्वतीय ब्रिगेड
29. आईसी-39930 ब्रिगेडियर विनोद प्रकाश सिंह भकुनी, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-40948 ब्रिगेडियर कलिसिपुडी रवि प्रसाद, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 21 पर्वतीय तोपखाना ब्रिगेड
31. आईसी-41753 ब्रिगेडियर मंगल मूर्ती मसूर, तोपखाना रेजिमेंट/नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी
32. एमआर-03915 ब्रिगेडियर वेंकटरमन रविशंकर, सेना चिकित्सा कोर, सेना अस्पताल (सीटीसी) पुणे
33. एमआर-03994 ब्रिगेडियर अनुपम साहा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
34. एमआर-03998 ब्रिगेडियर गौरी शंकर रमेश, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
35. एमआर-04767 ब्रिगेडियर कृष्णा वेंकटेश बालिगा, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, दक्षिणी कमान
36. एमआर-05230 ब्रिगेडियर योगेन्द्र कुमार अरोड़ा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)

37. एनआर-15556 ब्रिगेडियर हरजिंदर भुल्लर, सेना नर्सिंग सेवा/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
38. आईसी-41224 ब्रिगेडियर गुरिन्द्र पाल सिंह सन्धु, महार रेजिमेंट/मुख्यालय घनड एरिया
39. आईसी-37648 कर्नल सुधीर कुमार तिवारी, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
40. आईसी-37865 कर्नल सनाल सुरेश कुमार, मद्रास रेजिमेंट/15 कोर बैटल स्कूल
41. आईसी-42771 कर्नल संजय सिंह, सेमे, पैराच्यूट रेजिमेंट
42. आईसी-43266 कर्नल रोमेश चन्द्र खजुरिया, असम रेजिमेंट/असम रेजिमेंटल केंद्र
43. आईसी-43285 कर्नल देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय, सिख लाइट इन्फैंट्री
44. आईसी-45556 कर्नल राजीव पंवार, 1 गोरखा राइफल/12 असम राइफल
45. आईसी-45963 कर्नल विनीत सेठ, पैराच्यूट रेजिमेंट/पैराच्यूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र
46. आईसी-46761 कर्नल दीपक शर्मा, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
47. आईसी-46798 कर्नल राजेन्द्र कुमार, सेमे, 5वीं बटालियन द राजपूताना राइफल
48. आईसी-46889 कर्नल सुखमीत सिंह, शौर्य चक्र-बार, तोपखाना रेजिमेंट/3 असम राइफल
49. आईसी-49082 कर्नल अमीर सिंह, 12वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट
50. आईसी-49117 कर्नल एस एस भोगल, कुमाऊं रेजिमेंट/23 असम राइफल
51. आईसी-50009 कर्नल सरताज ढिल्लों, 15 डोगरा रेजिमेंट
52. आईसी-50099 कर्नल इंदरदीप सिंह भल्ला, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
53. आईसी-50104 कर्नल दिनेश सिंह बिष्ट, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय दक्षिणी कमान
54. आईसी-50556 कर्नल अजित कुमार बोराह, तोपखाना रेजिमेंट, 65 फील्ड रेजिमेंट
55. आईसी-50864 कर्नल सर्वेश शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट/46 असम राइफल
56. आईसी-50880 कर्नल अजोय मुखर्जी, सेमे-बार, पैराच्यूट रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल
57. आईसी-51395 कर्नल आर शान्मुगा सुन्दरम, सेमे, 601 ईएमई बटालियन
58. आईसी-51706 कर्नल विनोद एस, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
59. आईसी-51948 कर्नल प्रणवीर सिंह पुनिया, सेमे, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
60. आईसी-51949 कर्नल मनीश सिन्हा, सिख लाइट इन्फैंट्री/21 असम राइफल



61. आईसी-52349 कर्नल सी कार्तिक सेशाद्री, 4/8 गोरखा राइफल
62. एमआर-04427 कर्नल राकेश कुमार, सेना चिकित्सा कोर/92 बेस अस्पताल
63. एमआर-05143 कर्नल अनुराग खन्ना, सेना चिकित्सा कोर/153 जनरल अस्पताल
64. एमआर-05515 कर्नल भूपेश कुमार गोयल, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
65. एमआर-05531 कर्नल संदीप थरेजा, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, पश्चिमी कमान
66. एसएल-02742 कर्नल पुथिया कोविलाकठ मुरलीधरन राजा, सेमे, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर
67. आईसी-48812 लेफ्टिनेंट कर्नल भावीक कौल, 202 सेना विमानन स्क्वाड्रन (यूएच)
68. आईसी-55450 लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार, 9वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
69. एमआर-06262 लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज तलवार, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
70. एमआर-06517 लेफ्टिनेंट कर्नल रविन्द्र कुमार अणदुरे, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
71. एमआर-06551 लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज कुमार शर्मा, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
72. एमआर-08541 कैप्टन अमित पाण्डेय, सेना चिकित्सा कोर/कुमाऊं स्काउट
73. जेसी-588171 सूबेदार छेवांग मूटुप, 3 लद्दाख स्काउट्स
74. 9923885 हवलदार सोनम पल्जोर, 3 लद्दाख स्काउट्स
75. सर्जन रियर एडमिरल मनीषा जयप्रकाश, (75986-डब्ल्यू)
76. कमोडोर विपन कुमार वाधवा, (40739-एन)
77. कमोडोर जसविन्द्र सिंह मान, नौमे (50701-बी)
78. कमोडोर हरफूल सिंह, (50743-जेड)
79. कमोडोर महीतोष मिश्रा, (70201-वाई) (सेवानिवृत्त)
80. कमोडोर जी अशोक कुमार, (02470-एन)
81. कमोडोर अजेन्द्र बहादुर सिंह, (02619-ए)

82. कमोडोर एम एस चन्द्र शेखर, (02625-आर)
83. कमोडोर सत्यानारायणा अलमण्डा, (41192-टी)
84. कैप्टन अजय विनय भावे, (03030-के)
85. सर्जन कैप्टन खलील ऐसॅक मथाई, (75298-एफ)
86. सर्जन कैप्टन चन्दु सुदीप नाइडू, (75343-एच)
87. कैप्टन एन्टोनी जार्ज, नौमे, (03182-एफ)
88. कैप्टन पवन चौहान, (03378-ए)
89. कमांडर ए एन सतीश, (03955-एन)
90. यशवंत राय, एमसीएमई II, (163455-आर)
91. एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार गगनेजा (14544) लेखा
92. एयर कमोडोर हेरीकुट्टु बाबू राजाराम (14939) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
93. एयर कमोडोर प्रदीप मल्लप्पा कट्टी (15005) उड़ान (पायलट)
94. एयर कमोडोर मिलन रामलालजी अहिर (15267) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
95. एयर कमोडोर रोहित भल्ला (15591) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
96. एयर कमोडोर जाईल्स गोमेज़ (16527) चिकित्सा
97. एयर कमोडोर माईकल फर्नांडिज़, वामे (16967) उड़ान (पायलट)
98. एयर कमोडोर संजय निमेष (17862) उड़ान (पायलट)
99. ग्रुप कैप्टन इडवन पुलियाच्चरत पदमाराज नम्बियार (16886) लेखा
100. ग्रुप कैप्टन लवमीत सिंह बच्छेर (16995) उड़ान (पायलट)
101. ग्रुप कैप्टन नितिन शंकर वैद्या (17208) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
102. ग्रुप कैप्टन विनोद कुमार (17430) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
103. ग्रुप कैप्टन मुसुनुरी दुर्गा नागेश्वरा प्रसाद (17741) प्रशासन
104. ग्रुप कैप्टन पुष्पेन्द्र कुमार (18002) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

105. ग्रुप कैप्टन शिव रतन सिंह, वामे (18083) उड़ान (पायलट)
106. ग्रुप कैप्टन विवेक पिल्लई (18217) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
107. ग्रुप कैप्टन संजय कुमार पाण्डेय (18477) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
108. ग्रुप कैप्टन आशुतोष दीक्षित, वामे (18558) उड़ान (पायलट)
109. ग्रुप कैप्टन सूरत सिंह, वामे (18563) उड़ान (पायलट)
110. ग्रुप कैप्टन लाली जोसफ (18643) परिभारिकी
111. ग्रुप कैप्टन गेब्रियल रेमंड रूबेन (18814) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन आशीष दुरेहा (19074) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
113. ग्रुप कैप्टन सुशान्त दत्ता (19243) परिभारिकी
114. विंग कमांडर दीपक बाना (18742) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
115. विंग कमांडर चेल्लप्पन पिल्लई रत्नम्मा श्रीजी (20286) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
116. विंग कमांडर प्रकाश आंगाडी (24126) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
117. 659970 मास्टर वारंट अफसर दलजीत खोखर, वेपन फिटर
118. 695575 जूनियर वारंट अफसर राजेन्द्र कुमार यादव, एयर फ्रेम फिटर

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 20-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-55907 मेजर के यू करूमबिया, सेमे, 4 गोरखा राइफल/29 असम राइफल
2. आईसी-56123 मेजर सौरभ शाह, सेना मेडल, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
3. आईसी-59171 मेजर राजीव शंकर, सेमे, सेना सेवा कोर/55 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-67187 कैप्टन संदीप श्रीधरन, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री/39 असम राइफल
5. आईसी-69120 कैप्टन ईश्वर सिंह रावत, सेना मेडल, 16वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 21-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए " सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-52415 कर्नल गुरपाल सिंह, 1 लद्दाख स्काउट्स
2. आईसी-51499 लेफ्टि.कर्नल अमित शर्मा, सेना विमानन कोर/23 (स्वतंत्र) आर एंड ओ फ्लाइट
3. आईसी-52922 लेफ्टि.कर्नल सिद्धार्थ खन्ना, सेना विमानन कोर/22 (स्वतंत्र) आर एंड ओ फ्लाइट
4. आईसी-54001 लेफ्टि.कर्नल सुमित मोहन गर्ग, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-56084 मेजर आर एस राजीव, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
6. आईसी-56156 मेजर कुलदीप सिरोही, गढ़वाल राइफल/15 असम राइफल
7. आईसी-59056 मेजर क्षितिज बलहारा, ब्रिगेड ऑफ द गाड्स/42 असम राइफल
8. आईसी-59145 मेजर पंकज रावत, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
9. आईसी-59385 मेजर गौरव भाटिया, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
10. आईसी-59510 मेजर जयवीर सिंह, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-59516 मेजर संजय नायर, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
12. आईसी-60538 मेजर मृदुल कमल गौड़, 9 सिख लाइट इन्फैंट्री बटालियन
13. आईसी-60543 मेजर रंजीत सिंह, इलैक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स/53 राष्ट्रीय राइफल
14. आईसी-60968 मेजर प्रशांत मिश्रा, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/31 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-61137 मेजर अजय सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/34 असम राइफल
16. आईसी-61720 मेजर अनिल कुमार शर्मा, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-61825 मेजर सौरभ तिवारी, तोपखाना रेजिमेंट/34 असम राइफल

18. आईसी-62973 मेजर करण भाटिया, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
19. आईसी-63398 मेजर राज अभिनव, राजपूताना राइफल/21 असम राइफल
20. आईसी-63527 मेजर अनिल सिंह चौहान, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-63997 मेजर कौशलेन्द्र सिंह, राजपूताना राइफल/23 असम राइफल
22. आईसी-64102 मेजर मृणाल कुमार शेखर, मराठा लाइट इन्फैंट्री/28 असम राइफल
23. आईसी-64460 मेजर आशीष स्वरूप, कवचित कोर/8 असम राइफल
24. आईसी-64573 मेजर सुनील कुमार नौटियाल, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
25. आईसी-64691 मेजर शिव कुमार शर्मा, इंजीनियर्स कोर/44 राष्ट्रीय राइफल
26. आईसी-65745 मेजर हमीर सिंह, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/24 असम राइफल
27. आईसी-66234 मेजर निखील वाघ, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
28. आईसी-66241 मेजर जयवर्धन सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
29. आईसी-66862 मेजर मुनीष शर्मा, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-67290 मेजर त्रिवेदी जिगर भरतकुमार, इंजीनियर्स कोर/31 असम राइफल
31. आईसी-67360 मेजर विनीत डी कालोखे, इंजीनियर्स कोर/10 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-69559 मेजर अमित कुमार थेंगे, सिगनल्स कोर/37 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
33. एसएस-40279 मेजर अमित कंवर, पंजाब रेजिमेंट/26 असम राइफल
34. एसएस-41028 मेजर आदित्य पाटिल, कवचित कोर/12 असम राइफल
35. एसएस-41156 मेजर मुनीश ठाकूर, प्रथम बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
36. एसएस-41798 मेजर नवरतना जयमन, सिगनल्स/16 राष्ट्रीय राइफल
37. एससी-00356 मेजर गुलाम मुहम्मद खान, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
38. आईसी-64583 कैप्टन सि नरेन बाबु, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
39. आईसी-64638 कैप्टन अभय चन्दन चौधरी, तोपखाना रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल
40. आईसी-67813 कैप्टन सचिन सिन्हा, इंजीनियर्स कोर/44 राष्ट्रीय राइफल

41. आईसी-67943 कैप्टन संदीप सिंह, राजपूत रेजिमेंट/34 असम राइफल
42. आईसी-68103 कैप्टन प्रशांत ठाकुर, सेना वायु रक्षा/63 राष्ट्रीय राइफल
43. आईसी-68313 कैप्टन मरिनाल शर्मा, सिगनल्स/22 राष्ट्रीय राइफल
44. आईसी-68881 कैप्टन पवन कुमार सचान, सिगनल्स/8 असम राइफल
45. आईसी-69166 कैप्टन केलशीकर शमशेर किरण, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
46. आईसी-69967 कैप्टन मनोज कुमार पाण्डे, तृतीय बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
47. एसएस-41529 कैप्टन मधुसूदन बी एस, तोपखाना रेजिमेंट/28 असम राइफल
48. एसएस-41563 कैप्टन तरनदीप सिंह गिल, सिख रेजिमेंट/45 असम राइफल
49. एसएस-42798 कैप्टन अभिषेक भारद्वाज, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
50. एआर-182 सेकेंड-इन-कमांड भाग सिंह डोगरा, 12 असम राइफल
51. आईसी-70184 लेफ्टिनेंट अजीव राजीव, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
52. आईसी-70428 लेफ्टिनेंट वरूण खजुरिया, 16वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स
53. आईसी-70787 लेफ्टिनेंट ललित मोहन पलारिया, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
54. आईसी-70802 लेफ्टिनेंट लक्ष्य, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
55. आईसी-71477 लेफ्टिनेंट दीपक कुमार प्राधर, 9वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
56. आईसी-71977 लेफ्टिनेंट सागर देशपाण्डे, 5/1 गोरखा राइफल
57. एसएस-43380 लेफ्टिनेंट दीपक चंदर गनोला, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
58. एसएस-43646 लेफ्टिनेंट भगवती सिंह राठौर, सेना आयुध कोर/15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
59. जेसी-412905 सूबेदार रघबीर सिंह, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
60. जेसी-499219 सूबेदार लखविन्दर सिंह, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
61. जेसी-590197 सूबेदार श्री प्रसाद थापा, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
62. जेसी-634721 सूबेदार तोपगे भुटीया, विसेमे, गोरखा राइफल/11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर
63. जेसी-122982 नायब सूबेदार गंगा सिंह, 12 असम राइफल

64. जेसी-273537 नायब सूबेदार बीरबल राम, तोपखाना रेजिमेंट/315 फील्ड रेजिमेंट
65. जेसी-413273 नायब सूबेदार लालमन पलसरा, 9वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
66. जेसी-जी/2600636 नायब सूबेदार पाऊखोलेन कुकी, 26 असम राइफल
67. 3393099 हवलदार सुरजीत सिंह, 157 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) सिख/54 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
68. 2598370 हवलदार लोगनाथन एस, 19 मद्रास रेजिमेंट
69. 2792851 हवलदार अन्वरसाब अगासिबागिल, 12वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
70. 2888398 हवलदार नरेश पाल, द्वितीय बटालियन द राजपूताना राइफल
71. 3392345 हवलदार जरनैल सिंह, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
72. 3395086 हवलदार करन सिंह, डोगरा रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल
73. 4473390 हवलदार बलजिन्दर सिंह, 9वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
74. 4564889 हवलदार बोदले धर्मशील सूर्यकान्त, 8वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
75. 9096612 हवलदार मोहम्मद फारूख, 162 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/47 राष्ट्रीय राइफल
76. 13619305 हवलदार रंजित कुमार, 15वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट (मरणोपरांत)
77. जी/123955 हवलदार अली हुसैन, 12 असम राइफल
78. जी/2900484 हवलदार विजय सिंह कालुरा, 29 असम राइफल
79. जी/2900924 हवलदार के मनी चन्द्रा सिंहा, 29 असम राइफल
80. जी/3400678 हवलदार देव राम, 34 असम राइफल
81. 13756706 लांस हवलदार रविंद्र सिंह, 12वीं बटालियन द जम्मू-कश्मीर राइफल
82. 2601288 नायक आर नंदा कुमार, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
83. 2602081 नायक यशवंत खन्नुकर, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
84. 2996580 नायक राजेन्द्र सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
85. 3996163 नायक राकेश कुमार, डोगरा रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल

86. 4571151 नायक हुसन लाल, पैराच्यूट रेजिमेंट/19 कुमाऊं रेजिमेंट (मरणोपरांत)
87. 5045349 नायक भक्ता बहादुर गुरूंग, 5/1 गोरखा राइफल
88. 5045437 नायक रन बहादुर काउचा, 5/1 गोरखा राइफल
89. 13623869 नायक हरेन्द्र कुमार पांडे, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (मरणोपरांत)
90. 13696417 नायक अनिरूद्धा कुन्डू, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/59 राष्ट्रीय राइफल
91. 13759846 नायक सुरिन्दर सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/3 राष्ट्रीय राइफल
92. 14703305 नायक चन्द्र शेखर उप्रेती, प्रथम बटालियन द नागा रेजिमेंट
93. 14703419 नायक साहेनी लोहरी, नागा रेजिमेंट/60 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
94. 2798833 लांस नायक सुरेन्द्र सिंह, 8वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
95. 2893475 लांस नायक पवन, 5वीं बटालियन द राजपूताना राइफल
96. 3997868 लांस नायक प्रीतम सिंह, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
97. 3998854 लांस नायक जैमोन पी के, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
98. 4365794 लांस नायक सुरेश कुमार, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 राष्ट्रीय राइफल
99. 12984108 लांस नायक तनवीर अहमद, 163 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) सिख लाइट इन्फैंट्री/58 राष्ट्रीय राइफल
100. 13622152 लांस नायक विजय सिंह, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
101. 15143917 लांस नायक राजेन्द्र कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
102. 2611892 सिपाही पनीर सेल्वम राजेन्द्रन, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
103. 2613731 सिपाही नागालिंगम पचवर्णम, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
104. 2613951 सिपाही सरवनन उदय कुमार, 8वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट (मरणोपरांत)
105. 2804168 सिपाही भोसले विक्रान्त हिंदूराव, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल
106. 3001635 सिपाही जय कुमार, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
107. 3999904 सिपाही जसबीर सिंह, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल



108. 4003665 सिपाही सुनील कुमार, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
109. 4197636 सिपाही राजेन्द्र सिंह बिष्ट, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
110. 4573544 सिपाही चन्द्र शेखर नट, 8वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
111. 4577408 सिपाही वीरेंदर, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
112. 12944488 सिपाही अजाज अहमद, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
113. 14830124 सिपाही राकेश कुमार गुप्ता, 5031 सेना सेवा कोर बटालियन (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट) (मरणोपरांत)
114. 14934162 सिपाही दलजित सिंह, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/42 राष्ट्रीय राइफल
115. 57582 राइफलमैन शीजूमौन अब्राहम, 5 असम राइफल
116. 57760 राइफलमैन सी एच लोविंगसन, 5 असम राइफल
117. 4087013 राइफलमैन राम प्रसाद, गढ़वाल राइफल/48 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
118. 4089094 राइफलमैन सूरज कुमार, गढ़वाल राइफल/48 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
119. 9103770 राइफलमैन कुलदीप सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
120. जी/193586 राइफलमैन नर बहादुर थापा, 45 असम राइफल
121. जी/2851169 राइफलमैन बिरेन्द्र सिंह, 28 राष्ट्रीय राइफल
122. जी/2851534 राइफलमैन एस यॉरिशांग, 28 असम राइफल
123. जी/2851603 राइफलमैन रण बहादुर भण्डारी, 28 असम राइफल
124. जी/2901665 राइफलमैन सुखन ओरन, 29 असम राइफल
125. जी/2901698 राइफलमैन लाभ सिंह, 29 असम राइफल
126. जी/2901883 राइफलमैन प्रदीप मेधी, 29 असम राइफल
127. जी/5004716 राइफलमैन योगेश कुमार, 28 असम राइफल
128. जी/5009236 राइफलमैन बेन्जामिन, 28 असम राइफल
129. जी/5009920 राइफलमैन कुलजीत सिंह, 8 असम राइफल

130. 15576686 सैपर हरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स कोर/48 राष्ट्रीय राइफल
131. 13627026 पैराट्रूपर जुगराज सिंह, 9वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
132. 15173085 गनर सत्यवीर, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
133. 15618801 गाइर्समैन प्रिन्स आर, ब्रिगेड ऑफ द गाइर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
134. 15485730 सवार मस्तान खान, कवचित कोर/60 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
135. 15489651 सवार देबा यादव, कवचित कोर/22 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 22-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. कमांडर नवीन थापा, (03644-एफ)
2. बिजेन्द्र, पी ओ ए (एएच), (174619-एन)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 23-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. विंग कमांडर सुशील चतुर्वेदी (21720) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर मनजीत सिंह सिद्धू (22334) उड़ान (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर विकास भूषण (27450) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 24-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-34086 मेजर जनरल बाल क्रिशन शर्मा, सेमे, इन्फैंट्री/ मुख्यालय 27 पर्वतीय डिवीजन
2. आईसी-54627 कर्नल निरंजन राजकुमार जाखड़, सेमे, ग्रेनेडियर्स/55 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 25-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-31062 मेजर जनरल शिशिर हरी महाजन, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तरी कमान
2. आईसी-31336 मेजर जनरल सुनील सदानन्द जोग, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 21 पर्वतीय डिवीजन
3. आईसी-31729 ब्रिगेडियर कल्याण कुमार रॉय चौधरी, विसेमे, महार रेजिमेंट, मुख्यालय 21 सब एरिया
4. आईसी-34066 ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन, विसेमे, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 111 सब एरिया
5. आईसी-35204 ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा, वीर चक्र, जाट रेजिमेंट/मुख्यालय एसएफसी
6. आईसी-35376 ब्रिगेडियर गौतम देब, विसेमे, इंटेलिजेंस कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
7. आईसी-35480 ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह, विसेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/भारतीय दूतावास, काबुल
8. आईसी-35486 ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र रांगी, विसेमे, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
9. आईसी-38028 ब्रिगेडियर सुनील भण्डारी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय सामरिक बल कमान
10. आईसी-38886 ब्रिगेडियर राजीव पन्त, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 27 सेक्टर असम राइफल
11. आईसी-39676 ब्रिगेडियर धर्मवीर सिंह राणा, विसेमे, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 पर्वतीय ब्रिगेड
12. एमआर-04155 ब्रिगेडियर अमितावा दत्ता, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय 14 कोर
13. एमआर-04556 ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र गोदारा, सेना चिकित्सा कोर/सेना बल चिकित्सा स्टोर डिपो, दिल्ली छावनी
14. एमआर-05294 ब्रिगेडियर अरूण त्यागी, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, उत्तरी कमान
15. आईसी-43307 कर्नल एन राजकुमार, 154 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) बिहार
16. आईसी-48516 कर्नल विनोद नाम्बियार, 670 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)

17. आईसी-49086 कर्नल शान्तनु कश्यप, 663 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
18. आईसी-49115 कर्नल भास्कर सिंह बिष्ट, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-49469 कर्नल प्रशांत श्रीवास्तवा, द्वितीय बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
20. आईसी-49680 कर्नल विकास लखेड़ा, चौथी बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
21. आईसी-49926 कर्नल विजय कुमार पुरोहित, पंजाब रेजिमेंट/53 राष्ट्रीय राइफल
22. आईसी-49992 कर्नल जोहैर इब्न सलमा यज़दानी, तोपखाना रेजिमेंट, 44 फील्ड रेजिमेंट
23. आईसी-50189 कर्नल राजेश्वर सिंह, शौर्य चक्र, मद्रास रेजिमेंट/29 असम राइफल
24. आईसी-50369 कर्नल साईश सुधाकर शेते, तृतीय बटालियन द सिख रेजिमेंट
25. आईसी-50772 कर्नल राजेश कुमार शिवरैन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)/39 असम राइफल
26. आईसी-50895 कर्नल पीयूष खुराना, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-50996 कर्नल बबरू भान यादव, शौर्य चक्र, सिख लाइट इन्फैंट्री/45 असम राइफल
28. आईसी-51135 कर्नल अनिल कुमार पुंडिर, जम्मू-कश्मीर राइफल, 52 विशेष कार्रवाई दल
29. आईसी-51261 कर्नल समीर शरण कार्तिकेय, जम्मू-कश्मीर राइफल/34 असम राइफल
30. आईसी-51568 कर्नल रवरूप सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 असम राइफल
31. आईसी-51709 कर्नल मनजीत सिंह कालरा, द्वितीय बटालियन द बिहार रेजिमेंट
32. आईसी-51964 कर्नल अमरदीप सिंह, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
33. एमआर-04868 कर्नल कनकपुरा सूर्यनारायण कुमार, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, पश्चिमी कमान
34. एमआर-05050 कर्नल काडलूर सत्यानन्द, सेना चिकित्सा कोर, सेना अस्पताल, जयपुर
35. आईसी-50222 लेफ्टिनेंट कर्नल के सी अयप्पा, कवचित कोर, सी वी आर डी ई
36. आईसी-52391 लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह सेखों, इन्टेलिजेंस कोर/21 सीआईआईयू
37. आईसी-55258 लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश कुमार शर्मा, 8 गोरखा राइफल/51 विशेष कार्रवाई दल
38. आईसी-55484 लेफ्टिनेंट कर्नल एन श्री रमेश, ई एम ई/सी वी आर डी ई

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 26-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. कमोडोर सुनील जेटली (02054-टी)
2. कमोडोर अनील कुमार सक्सेना (40974-वाई)
3. कमोडोर उदय चन्द्रकान्त तलवेलकर (41023-एच)
4. कमोडोर विजय कुमार पिशारोड़ी (02604-टी)
5. कैप्टन हम्पीहोली मकरन्द अरविन्द (02859-वाई)
6. कैप्टन फिलिपोस जार्ज पायनुमुट्टिल (02973-एफ)
7. कमांडर सुदीप सेन (51046-एन)
8. कमालुद्दीन फिरोज, मैक (एआर) 3, (121855-डब्ल्यू)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 27-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. एयर वाइस मार्शल चन्द्रशेखरन हरी कुमार, विसेमे (15881) उड़ान (पायलट)
2. एयर कमोडोर दीपतेन्दु चौधरी, विसेमे (17335) उड़ान (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन महिताब सिंह देसवाल (20131) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन सिरूवूरि श्रीधर (20138) उड़ान (पायलट)
5. विंग कमांडर रावूरी शीतल (20490) उड़ान (पायलट)
6. विंग कमांडर तेजपाल सिंह (20724) उड़ान (पायलट)
7. विंग कमांडर अनन्त माथुर (20727) उड़ान (पायलट)
8. विंग कमांडर फिलिप थॉमस (20743) उड़ान (पायलट)
9. विंग कमांडर राहुल भसीन (20745) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर विकास शर्मा (20757) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर जॉय थोमस कुरियन (20782) उड़ान (पायलट)
12. विंग कमांडर गणपतिराजु श्रीनिवास (21505) उड़ान (पायलट)
13. विंग कमांडर आशीष सिंह (21517) उड़ान (पायलट)
14. विंग कमांडर नोंगथोमबम लोकेन्द्रो (22714) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 28-प्रेज़/2011 - राष्ट्रपति रक्षा मंत्री द्वारा "सेनाध्यक्ष" की ओर से प्राप्त "मेशन-इन-डिस्पैचिज" हेतु निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए सहर्ष आदेश देती है :-

### ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-59752 मेजर अतुल चव्हाण, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
2. आईसी-62535 मेजर राहुल शंकर भारद्वाज, महार, 30 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-68949 मेजर अभिषेक जगन्नाथ भापकर, सिगनल्स, 30 राष्ट्रीय राइफल
4. जेसी-593547 सूबेदार शेर सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, 26 राष्ट्रीय राइफल
5. 9925507 नायक टुंडुप पलजोर, 5 लद्दाख स्काउट्स

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 29-प्रेज़/2011- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. आईसी-67257 मेजर राहुल गुरुंग, इंजीनियर्स कोर/12 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 17 फरवरी, 2010)

मणिपुर के उखरूल जिला में आतंकवादियों की हरकत के बारे में स्पष्ट सूचना के आधार पर मेजर राहुल गुरुंग ने बड़ी सतर्कता से घाटी के दक्षिणी सामान्य क्षेत्र में अनेक घात टुकड़ियां लगाने की योजना बनाई। 11 फरवरी, 2010 को 0330 बजे मेजर राहुल गुरुंग ने गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध हरकत देखी। उन्होंने अपनी घात टुकड़ी को सावधान किया तथा संदिग्धों को पहचान बताने के लिए ललकारा। संदिग्धों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर राहुल गुरुंग निडर बने रहे तथा ऊबड़-खाबड़ रास्ते से रेंगते हुए एक चट्टान की तरफ आगे बढ़े और अचूक गोलीबारी करके दो आतंकवादियों को मार गिराया।

17 फरवरी, 2010 को मणिपुर के अखरूल जिला में कोरिडोर के जरिए भूमिगत आतंकवादियों के आवाजाही के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। मेजर राहुल गुरुंग ने नदी और घाटी के क्षेत्रों में अनेक घात टुकड़ियां लगाने की योजना बनाई। 2250 बजे आतंकवादियों की घुसपैठ पार्टी को मेजर गुरुंग की घात टुकड़ी द्वारा रोका गया तथा गोलीबारी की लड़ाई में मेजर गुरुंग ने एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने वृक्ष के पीछे आड़ ले ली और वह घात टुकड़ी पर गोलीबारी करने लगा। मेजर गुरुंग ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बहादुरी का प्रदर्शन किया और प्रेरणादायक साहस के साथ रेंग कर छिपे हुए आतंकवादी के पास गए तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना नजदीक से आतंकवादी पर गोली चलाई। आतंकवादी आगे निकल गया परंतु मेजर राहुल गुरुंग ने अपने दल-बल के साथ आतंकवादी दल का पीछा किया और बाद में तीन और आतंकवादियों को मार गिराया गया।

मेजर राहुल गुरुंग ने शत्रु की भयानक गोलीबारी के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उत्कृष्ट नेतृत्व और अचूक योजना प्रबंधन का प्रदर्शन किया।

2. एसएस-42132 कैप्टन दीपक शर्मा, सिगनल कोर/42 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 04 मार्च, 2010)

04 मार्च, 2010 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी एक कमरे में छुपे हुए थे जिसे एक बड़ी जामा मस्जिद के निकटस्थ होने की वजह से खाली करने के लिए इसमें दखल देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 0815 बजे कैप्टन दीपक शर्मा अपने साथियों के साथ आगे बढ़े और हथगोला फेंकते हुए खिड़की के रास्ते से घर में प्रवेश किया। बिल्कुल नजदीक से उन्होंने एक आतंकवादी को पहले कमरे में मार गिराया। फिर वह गोलियों की भारी बौछार में रेंगकर अगले कमरे तक पहुंचे और एक और हथगोला फेंका। सीढ़ियों के नीचे दो आतंकवादियों को देखकर वह उन पर टूट पड़े तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन दोनों आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया। गोलीबारी के दौरान उनकी गर्दन में गोली का गहरा घाव लगा और वह घावों की वजह से वीरगति को प्राप्त हो गए।

कैप्टन दीपक शर्मा ने शत्रु के समक्ष अडिगता से कर्तव्य का निर्वहन किया और अदम्य साहस के साथ राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

3. आईसी-70971 लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख, 8वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 27 जून, 2010)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह के उपस्थित होने की सूचना पाकर एक तलाशी दल को तलाशी के लिए भेजा गया। तलाशी के दौरान, 27 जून, 2010 को पार्टी पर 1840 बजे आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कर दी गई। गोलीबारी के दौरान तलाशी दल के सदस्य लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख के पेट में गोली लगने की वजह से घाव हो गया जिसके बावजूद उन्होंने गोलीबारी करके दो आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों ने उन पर हथगोले भी फेंके और वह अपने अन्य चार रैंकों के सैनिकों के साथ बिना हथियार के चट्टान की खड़ी चढ़ाई से फिसल गए और इस दौरान बाकियों से अलग हो गए। वह चुपचाप तीन घण्टे तीस मिनट तक अपने स्थिति संभाले रहे इसके बाद उनकी पार्टी उनके पास पहुंची।

लेफ्टिनेंट विक्रान्त अजीत देशमुख ने विकट परिस्थितियों में रणनीतिक कुशाग्रता, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया।

4. आईसी-70886 लेफ्टिनेंट विकास शर्मा, 6वीं बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 11 अगस्त, 2010)

जम्मू-कश्मीर के बांदीपुर जिले में आतंकवादी गतिविधि की अपनी आसूचना के आधार पर लेफ्टिनेंट विकास शर्मा के अधीन 10 अगस्त, 2010 को एक ऑपरेशन शुरू किया गया था।

अगले दिन 1630 बजे अफसर ने पर्वत शृंखला पर एक हरकत देखी। उन्होंने अपने दल को दो भागों में बांटा और दो भिन्न दिशाओं से शिखर पर तरफ चढ़ने लगे। तीन सौ मीटर की ऊंचाई पर आतंकवादियों के होने की पुष्टि हो गई। उन्होंने आतंकवादियों को तुरंत उलझाया और स्नाइपर गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। दो आतंकवादियों ने आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी की। लेफ्टिनेंट विकास ने अपने स्नाइपर को दूसरे आतंकवादी को उलझाने के लिए निर्देश दिया और स्वयं एक साथी के साथ दूसरी तरफ से आतंकवादी को घेरने लगे। वह 20 मीटर आगे बढ़े और अचूक गोलीबारी से आतंकवादी को मार गिराया। तीसरा आतंकी दो चट्टानों के बीच में छुप गया और गोलीबारी की जद में नहीं आ रहा था। उसकी हरकत को कवर करने के लिए लेफ्टिनेंट विकास शर्मा ने अपनी एलएमजी को पुनः तैनात किया तथा जमीन का उत्कृष्ट इस्तेमाल करके उसके और निकट आया। उनकी गतिविधि का आतंकवादी को पता लग गया और उसने गोलीबारी कर दी। लेफ्टिनेंट विकास शर्मा अडिग रहे और निर्भीकता से आगे बढ़ कर 15 मीटर की दूरी से उसको गोली मार दी।

लेफ्टिनेंट विकास शर्मा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय अदम्य साहस और अचूक कार्य निष्पादन का प्रदर्शन किया।

#### 5. 2894796 नायक राजेन्द्र सिंह, दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 29 अगस्त, 2010)

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के एक गांव में तलाशी के दौरान 29 अगस्त, 2010 को 1430 बजे स्काउटों पर गोलीबारी हो गई। अन्य स्काउटों के साथ नायक राजेन्द्र सिंह ने कारगर जवाबी गोलीबारी की जिससे आतंकवादी घिर गए और उनके बच निकलने का रास्ता काट दिया गया। गोलीबारी के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी का सफाया कर दिया।

रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही और सैन्य टुकड़ियों को निकट आने से रोकने के लिए आतंकवादी गुफा के अंदर से हथगोला फेंक रहे थे। नायक राजेन्द्र सिंह रेंगकर गुफा की तरफ आगे बढ़े और अपने हथियार से पूरी मैग्जीन की गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने अंदर से उन पर हथगोले फेंके। विदग्ध बौद्धिक कुशाग्रता का परिचय देते हुए उन्होंने हथगोलों के छरों से बचाव हेतु चट्टान का प्रयोग किया।

चूंकि 30 अगस्त, 2010 की सुबह फिर से रुक-रुक कर गोलीबारी शुरू हो गई थी इसलिए वह फिर से स्वेच्छा से आतंकवादियों को उलझाने के लिए रेंगकर गुफा की तरफ आगे बढ़े। वह रेंगकर गुफा के मुहाने पर पहुंचे और कारगर गोलीबारी करके आतंकवादियों का सफाया कर दिया जिसके बाद गुफा के अंदर से गोलीबारी थम गई।

नायक राजेन्द्र सिंह ने कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर अदम्य साहस, अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव



संख्या 30 -प्रेज़/2011-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. 12914550 लांस नायक मूहम्मद शफी, 156 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) पंजाब/58 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 21 अक्टूबर, 2009)

20 अक्टूबर 2009 को 2200 बजे एक विशिष्ट सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सैनिकों ने लक्ष्यगत ढोकों को घेर लिया तथा समर्पण हेतु ललकारे जाने पर आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी कर दी गई।

अपनी तरफ से पहल करते हुए लांस नायक मूहम्मद शफी ने 21 अक्टूबर, 2009 को 0230 बजे ढोक के प्रवेश द्वार की ओर अपने साथी के साथ बढ़ना शुरू किया जब साथी सैनिक ने एक आतंकवादी को मार गिराया तो अन्य दो आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने लगे और समीपवर्ती नाले में आड़ ले ली। शत्रु की गोलीबारी के बावजूद व्यक्तिगत सुरक्षा से बेपरवाह लांस नायक शफी बगल से नाले में रेंग कर गए और हथगोला फेंककर दोनों आतंकवादियों को मार गिराया।

लांस नायक मूहम्मद शफी ने दो आतंकवादियों का सफाया करने में साहस, निस्वार्थ समर्पण और बौद्धिक सजगता का प्रदर्शन किया।

2. जी/3101841 राइफलमैन मिलाप सिंह, 31 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 नवंबर, 2009)

मणिपुर के टिगनोपॉल जिला के सामान्य क्षेत्र में एक ऑपरेशन विशिष्ट सूचना के आधार पर शुरू किया गया था। 14 नवंबर, 2009 को 0430 बजे आतंकवादियों से सम्पर्क साधा गया था। अपने साथ सैनिक की गोलीबारी की आड़ लेकर राइफलमैन मिलाप सिंह ने भयंकर गोलीबारी के बीच अत्यधिक पहलशक्ति और अडिग साहस का प्रदर्शन करते हुए युक्तिचालन से बगल से आतंकवादी को घेरने का प्रयास किया। राइफलमैन मिलाप सिंह आतंकवादियों के निकट आया और निजी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया। राइफलमैन मिलाप सिंह आतंकवादियों से बराबर लड़ते रहे तथा रेंगते हुए आगे बढ़कर निकट से दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। मृतक आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए।

राइफलमैन मिलाप सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अत्यधिक साहस और वीरता पहलशक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया।

### 3. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा (28462) उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 04 फरवरी, 2010)

04 फरवरी, 2010 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा को मिग-27 एमएल विमान में एयर टेस्ट प्रोफाइल उड़ान के लिए तैनात किया गया था। 10.5 कि.मी. की ऊंचाई पर तथा 0.9 मैक से अधिक की गति से उड़ रहे विमान की कनोपी के टुकड़े-टुकड़े हो गए जिससे केबिन का विस्फोटक विसंपीड़न हो गया तथा कनोपी के टुकड़े पायलट के चेहरे पर लगे। अग्र उपस्कर पेनल तथा वातरोध खून से लथपथ हो गए। कॉकपिट के अत्यधिक प्रतिकूल परिवेश, हवाई चिकित्सा विकटताओं तथा शारीरिक घावों के बावजूद पायलट ने शीघ्रता से वापसी करने हेतु अचूक तथा समयबद्ध कार्य निपुणता से शुरू किए। वायु विस्फोट की वजह से गत्यात्मकता बुरी तरह से प्रभावित हुई और पायलट के दाएं कान में बहुत पीड़ा होने लगी तथा उसका मुखौटा खून से लथपथ हो गया। सामने की महत्वपूर्ण दृश्यता खून के धब्बों से बाधित हो गई। बेहोशी और कमजोरी के बावजूद पायलट ने साहस, धैर्य और व्यवसायिकता का प्रदर्शन किया और अत्यधिक चुनौतीभरी दशाओं में विमान को बिना गलती के उतार दिया। वापसी में किसी विलंब अथवा पायलट की तरफ से किसी इच्छाशक्ति की कमी होने की वजह से भयानक परिणाम हो सकते थे।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष अरोड़ा ने विकृत विमान को बेस पर उतारने के लिए हवाई चिकित्सा विकटता तथा घाव की वजह से और अधिक खराब हुई दबावयुक्त स्थिति के चलते भी अत्यधिक साहस और पेशेवर गुण का प्रदर्शन किया।

### 4. 4076512 हवलदार दयाल सिंह, 8वीं बटालियन गढ़वाल राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 जनवरी, 2010)

13 जनवरी, 2010 की रात को बटालियन आसूचना टीम के सदस्य हवलदार दयाल सिंह को असम के तिनसुकिया जिले के एक गांव में आतंकवादियों के होने की सूचना के बारे में उसके सूत्रों द्वारा सावधान किया गया था। एनसीओ ने संदिग्ध घर तक दल का नेतृत्व करके मार्गदर्शन किया।

उस क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी पार्टी को घर का घेरा डालने का कार्य सौंप दिया गया था। 2330 बजे जब पार्टियां अभी स्थिति संभाल रही थी कि पिछले दरवाजे से तीन आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागे। हवलदार दयाल सिंह तुरंत उनसे भिड़ गया तथा बच निकलने के रास्ते को रोक दिया जिससे मजबूर होकर उन्हें अड़ोस-पड़ोस में आड़ लेनी पड़ी। भारी स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की लड़ाई शुरू हो गई। भारी जोखिम उठाकर हवलदार दयाल सिंह ने हताहत होने से बचने अथवा सम्पार्श्विक नुकसान से बचने के लिए चयनात्मक जवाबी गोली की। उसकी समझादारीपूर्ण गोलीबारी की वजह से वहां घिरे हुए सिविलियनों का सुरक्षित बच निकलना सुनिश्चित हुआ तथा आतंकवादी दबोचे जा सके। आखिरकार अधिसंख्यक आतंकवादियों को भागते देखकर व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए एनसीओ आतंकवादियों पर टूट पड़ा तथा नजदीक से एक आतंकवादी को मार गिराया। लड़ाई के दौरान उसकी बाईं आंख में गोली लगी। लहुलुहान होकर भी बेहोश होने तक वह अन्य दो आतंकवादियों के साथ भिड़े रहे तथा बाद में घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

हवलदार दयाल सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अडिग साहस, अनुकरणीय सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

### 5. 2607215 सिपाही चन्नल्लि बसवराज, 19वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 जनवरी, 2010)

मणिपुर के उखरूल जिला के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में पक्की आसूचना के आधार पर संदिग्ध घर के चारों तरफ घेरा डालने के लिए 13 जनवरी, 2010 को 0200 बजे एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था।

लगभग 0900 बजे तलाशी टुकड़ी के हिस्से स्काउट सं.1 सिपाही चन्नल्लि बसवराज ने एक घर के सामने दो व्यक्तियों की संदिग्ध हरकत देखी। स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने व्यक्तियों को रुकने के लिए चुनौती दी। दोनों आतंकवादियों ने तुरंत अपनी पार्टी पर गोलीबारी की तथा जंगल में भाग गए। इस शोर को सुनकर उस क्षेत्र के कुछ सिविलियन भी डर कर भागने लगे। सिपाही बसवराज ने अपनी प्रतिभासंपन्न युद्धक कुशाग्रता का इस्तेमाल किया तथा अदम्य वीरता के साथ 100 मीटर की दूरी तक भाग रहे आतंकवादी का पीछा किया तथा उसे मार गिराया। तथापि, दूसरा आतंकवादी बिछुड़ कर भागने में कामयाब हो गया और घने जंगल में छिप गया। तदनुसार, तलाशी दलों को बच निकलने के रास्ते को रोकने के लिए पुनः तैनात किया गया था। टुकड़ी पर गोलियों की अचानक बौछार हो गई। मौके पर खरे उतरते हुए सिपाही चन्नल्लि बसवराज फिर से रेंगकर आगे क्षेत्र की ओर बढ़े तथा अत्यधिक साहसिक कार्रवाई करते हुए आतंकवादी पर टूट पड़े तथा भयंकर लड़ाई में उसे उड़ा दिया। उनसे बड़ी मात्रा में हथियारों, गोलाबारूद तथा अन्य आपराधिक दस्तावेजों की बरामदी की गई थी।

सिपाही चन्नल्लि बसवराज ने अकेले ही दोनों आतंकवादियों का सफाया करने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट प्रवीणता का प्रदर्शन किया।

### 6. आईसी-64696 मेजर राकेश रावत, जम्मू-कश्मीर राइफल/52 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 फरवरी, 2010)

17 फरवरी 2010 को मेजर राकेश रावत उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसको उस संदिग्ध घर को घेरने का कार्य सौंपा गया था जिसे जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में हथियारों से लैस दो कट्टर आतंकवादियों ने कब्जे में कर रखा था।

ज्योंहि मेजर राकेश रावत और उनका साथी सैनिक घर की तरफ रेंगकर पहुंचे, घिरे हुए आतंकवादियों ने खिड़की से दो हथगोले फेंके तथा उन पर गोलियों की बौछार की। अडिग रहते हुए मेजर राकेश रावत और उसका साथी रेंगकर कमरे की खिड़की के पास पहुंचे तथा अफसर ने दो हथगोले अंदर फेंके। फिर रेंगते हुए आगे बढ़कर अफसर ने दो में से एक आतंकवादी को नजदीक से मार गिराया।

दूसरा आतंकवादी समीपवर्ती स्नानघर में भाग गया जिसमें उस दिशा से साथी सैनिक नहीं पहुंच सकते थे। अत्यधिक खतरे और भारी गोलीबारी के बावजूद अफसर रेंगकर स्नानघर की खिड़की के पास पहुंचा तथा आतंकवादी को ध्वस्त करने के लिए हथगोला फेंका और दूसरे आतंकवादी को गोली मार दी।

मेजर राकेश रावत ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उत्कृष्ट वीरता, अदम्य लड़ाकू भावना तथा प्रेरणादायक युद्धक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

## 7. आईसी-56111 मेजर संजीव हरयाल, तोपखाना रेजिमेंट/315 फील्ड रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 मार्च, 2010)

नए कैडरों की भर्ती तथा संगठन को फिर से संगठित करने के लिए असम के उदलगुड़ी के एक गांव में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में आसूचना मिलने के आधार पर मेजर संजीव हरयाल ने अपने दल को एकजुट किया। उन्हें संक्षेप में समझाया, घात लगाने की योजना बनाई तथा 17 मार्च, 2010 को 0230 बजे तक उन्हें तैनात कर दिया।

एक मोटरसाइकिल पर दो सवार मौके पर पहुंचे। ललकारे जाने पर सवार व्यक्तियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों की स्वचालित हथियारों से गोलीबारी के बावजूद, अफसर ने आगे रहकर नेतृत्व प्रदान किया और कार्य की पहल करते हुए अपनी पार्टी पर कमान और नियंत्रण संभाला। उन्होंने तीव्रता के साथ जवाबी कार्रवाई की और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए नजदीक से आतंकवादियों से भिड़ गए। गोलीबारी की लड़ाई में उन्होंने उस आतंकवादी को मार गिराया।

दिसंबर, 2009 के एक पूर्व सफल घात-चौकी में भी अफसर ने अग्रणी नेतृत्व प्रदान किया तथा और दो आतंकवादी मार गिराए। उन्होंने आज की तारीख तक 12 कैडरों/सम्पर्क सूत्र व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा छह हथियार बरामद किए। इस प्रकार उन्होंने उदलगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में आतंकवादी संगठन की रीढ़ तोड़ दी।

मेजर संजीव हरियाल ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अदम्य साहस, सम्पूर्ण व्यवसायिकता और निडर नेतृत्व प्रदान किया।

## 8. 13762552 लांस नायक प्रवीन ठाकुर, 12वीं बटालियन/जम्मू-कश्मीर राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 मार्च, 2010)

23/24 मार्च 2010 की रात को लांस नायक प्रवीन ठाकुर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर अंबुश कमाण्डर थे। 0130 बजे उन्होंने चार आतंकवादियों की आवाजाही को देखा। गजब की लचक और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों के आ जाने की प्रतीक्षा की फिर कारगर गोलीबारी में उलझा लिया। अपने को बुरी तरह फंसा देख कर आतंकवादियों ने घात चौकी पर आत्मघाती हमला बोल दिया तथा भारी गोलीबारी और हथगोलों से आक्रमण कर दिया। गंभीर खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने सैनिक साथी को दूसरी तरफ से लगाया और सारी गोलीबारी को स्वयं की तरफ आकर्षित कर लिया जिसमें उसका जीवन बच गया। एक आतंकवादी मारा गया परंतु दूसरा बगल की तरफ से घात चौकी पर पहुंचा। लांस नायक प्रवीन ठाकुर ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा निजो जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करके खुले में आ गया तथा आमने-सामने की लड़ाई में दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

लांस नायक प्रवीन ठाकुर ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अनुकरणीय बहादुरी, उच्च दर्जे की प्रेरणा शक्ति का प्रदर्शन किया।

9. 3190786 नायक विजय पाल, 16वीं बटालियन जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में 27 मार्च, 2010 को तलाशी कार्य के दौरान नायक विजय पाल ने रिज के पश्चिमी ढाल पर बर्फ में ताजा निशान देखे। उसने अन्य साथियों के साथ रिज के तीव्र ढालों में भारी बर्फबारी में सात घण्टे तक आतंकवादियों के पैरों के निशानों का पीछा किया। चुपके से आगे बढ़कर नायक विजय ने ददुआ झरने के पास सामान्य क्षेत्र में नजदीक की दूरी पर दो आतंकवादियों का पता लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को तैनात किया तथा अन्य दलों को आतंकवादियों के होने का संकेत किया। असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए वह आतंकवादियों के और निकट आए तथा उनको हैरत में डालकर उनसे भिड़ गए। नायक विजय की कार्रवाई से स्तब्ध होकर आतंकवादियों ने छिपने के ठिकाने से भारी स्वचालित हथियारों से अपने सैनिकों पर गोलीबारी कर दी। व्यक्तिगत जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वह आतंकवादियों पर टूट पड़े और बिल्कुल नजदीक से उनमें से दो को मार गिराया। उनकी बहादुरी भरी कार्रवाई और आतंकवादी समूह के साथ लड़ाई के परिणामस्वरूप बिना हताहत हुए पांच आतंकवादियों का सफाया हो गया।

नायक विजय पाल ने आतंकवादियों की कारगर गोलीबारी के बीच अदम्य साहस, धैर्य और वीरता का प्रदर्शन किया।

10. 3194985 सिपाही रविन्दर सिंह, 16वीं बटालियन जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

सिपाही रविन्दर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रिज पर अपनी टीम के साथ तलाशी अभियान में भाग ले रहे थे। वह अपनी टीम के साथ कठिन प्रदेश और भारी बर्फ के बीच आतंकवादियों की निशानदेही कर रहे थे। 27 मार्च को लगभग 1215 बजे उनकी टीम ने जनरल एरिया में दो आतंकवादी देखे। सिपाही रविन्दर ने अपने को रणनीतिक स्थिति में रखा और गोलीबारी के बीच उन्होंने देखा कि एक कवर की गई पोजीशन से दो आतंकवादी भारी गोलीबारी कर रहे हैं। अपनी टीम पर खतरे को भांपते हुए, वे बर्फ और पत्तों के सहारे रेंगते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और एक ग्रेनेड फेंका। एक आतंकवादी ने सम्पर्क को तोड़ना चाहा जिसे सिपाही रविन्दर ने बिल्कुल समीप से तुरंत मार गिराया। अत्यधिक व्यक्तिगत खतरे के बावजूद भी अनुकरणीय साहस दिखाते हुए वे दूसरे आतंकवादी के समीप पहुंचे और उसे भी मार गिराया। उनके साहसिक कार्य और आतंकवादी समूह के साथ उत्तरवर्ती झड़प से अपने सैनिकों को बिना नुकसान पहुंचाए पांच आतंकवादियों का सफाया हो गया।

सिपाही रविन्दर सिंह ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक साहस, धैर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया।

### 11. 14704137 सिपाही विजय सिंह बोहरा, नागा रेजिमेंट/60 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 मार्च, 2010)

27 मार्च, 2010 को 0707 बजे जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में घने जंगल में सैनिकों ने दो अत्यधिक हथियारों से लैस विदेशी आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी। सिपाही विजय सिंह बोहरा मुठभेड़ स्थल पर गए और आंतरिक घेरे को और सख्त कर दिया। आतंकवादियों ने एक नाले पर पोजीशन ले ली और सुरक्षा बलों की गोलीबारी का कारगर जवाब दे रहे थे। आतंकवादियों पर अपने छोटे हथियारों का प्रभाव न होते हुए देखकर टीम के कमांडर ने सिपाही विजय सिंह बोहरा को रॉकेट लांचर से फायर करने का निदेश दिया। जब सिपाही बाहरा रणनीतिक लाभदायक ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक आतंकवादी ने उन पर राइफल ग्रेनेड छोड़ दिया जो उनसे कुछ फीट की दूरी पर फट गया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना उन्होंने उस ओर बढ़ना जारी रखा और लक्षित रॉकेट लांचर ले आए और उन छिपे हुए दो आतंकवादियों पर रॉकेट लांचर से वार कर दिया और उनको मार गिराया।

सिपाही विजय सिंह बोहरा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने कर्तव्य से बढ़कर बेजोड़ साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

### 12. आईसी-70065 कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह, सेना सेवा कोर/8वीं बटालियन, महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 01 अप्रैल, 2010)

कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले के सामान्य क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन कर रही टीम के अग्रणी सदस्यों में से एक थे। 01 अप्रैल, 2010 को 1400 बजे आतंकवादियों के बारे में खबर मिली और देखते-देखते उनकी टीम पर आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। भारी गोलीबारी के बीच हिम्मत से काम लेते हुए उन्होंने आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगा लिया। कैप्टन सिंह ने तुरंत स्थिति संभाली और आगे बढ़कर अपने साथियों को अपने साथ चलने का आदेश दिया। आतंकवादी आत्मघातियों की तरह फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी के बीच अत्यधिक साहस दिखाते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वह घुटने के बल जाकर आतंकवादी के पास तक पहुंच गए और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया।

भारी गोलीबारी के बीच, नाले से होकर दो आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। खतरनाक भू-क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध कौशल अपनाते हुए वह और उनके साथियों ने तेजी से पीछा करते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया और भागते हुए आतंकवादी पर जबरदस्त निशाना साधा और इस प्रकार दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

कैप्टन मनैन्द्र प्रताप सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्तव्यभाव से ऊपर उठकर बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

13. 4282393 सिपाही शैलेश कुमार सिंह, बिहार रेजिमेंट/63 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 अप्रैल, 2010)

02 अप्रैल, 2010 को सिपाही शैलेश कुमार सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक घने जंगल में *खोजो और मार डालो* ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के ठिकाने से 50 मीटर की दूरी पर निशाना ले रखा था और मल्टी ग्रेनेड लांचर फायर से आतंकवादियों को एक-एक करके धराशायी कर रहे थे। बहुत देर तक चली गोलीबारी में दो आतंकवादियों में अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सुरक्षा बल के घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। चूंकि उपयुक्त सुरक्षा नहीं प्रदान की गई थी, अतः अपनी टुकड़ी को खतरे में भांप कर सिपाही शैलेश कुमार सिंह अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए गोलाबारी करने वाले एमजीएल की ओर तेजी से गए और दो आतंकवादियों को सटीक निशाना साधकर मार गिराया। इस प्रकार अपनी टुकड़ी के अनेक जवानों की कीमती जान बचाई। इस गोलाबारी में सिपाही शैलेश कुमार सिंह को नाक के पास गोली लग गई और उन्होंने इस प्रकार अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

सिपाही शैलेश कुमार सिंह ने खतरे को चुनौती देते हुए अपने सहयोगियों के प्रति प्रतिबद्धता और सखाभाव की महान भावना का प्रदर्शन करते हुए उच्च कोटि का साहस दर्शाया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

14. 14438439 लांस नायक अनूप कुमार शर्मा, तोपखाना रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 मई, 2010)

06/07 मई 2010 की रात को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में सूचना के आधार पर निगरानी एवं अनेकानेक घात लगाकर हमले किए गए। लांस नायक अनूप कुमार शर्मा इस तरह के खोजी दल का एक सदस्य थे। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। अपने साथियों की जान की सुरक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना लांस नायक शर्मा ने जवाबी गोलाबारी की और बड़ी युक्ति के साथ आतंकवादियों का तेजी से पीछा किया। इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्रभावी और सटीक गोलाबारी करके मूर्छित होकर गिरने से पहले दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लांस नायक शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया और इस ऑपरेशन को एक जबरदस्त कामयाबी दिलाई जिसमें अंत में छः आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया था।

लांस नायक अनूप कुमार शर्मा ने अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

15. आईसी-67498 मेजर मनीष बराल, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 08 मई, 2010)

08 मई 2010 को मेजर मनीष बराल जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में तलाशी का काम कर रहे थे। गांव में आतंकवादियों के होने के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर आश्चर्यपूर्ण ढंग से उन्होंने निपुणता से कार्रवाई की। अफसर ने तेजी से कार्रवाई करते हुए निशानदेह घर के चारों ओर अपने दल के लोगों को तैनात कर दिया ताकि कोई भाग न सके। घातक प्लाटून कमांडर ने हाजिर जवाबी दिखाई और स्कूल के सभी बच्चों को निकाल कर निशानदेह घर के पास एक सुरक्षित जगह पर कर दिया। 1655 बजे के करीब आतंकवादियों ने घेराबंदी को तोड़ा और बड़े करीब से उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अफसर ने दिन-दहाड़े सभी दलों को रास्ता दिखाया और अकेले ही बहादुरी के साथ दो दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया कर दिया। उन्होंने अपने सभी साथियों की सुरक्षा का ख्याल रखा और संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होने दिया।

मेजर मनीष बराल ने पेशेवर तरीके से उच्च कोटि के साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के गोलाबारी का जवाब देते हुए अपने दल का बिल्कुल सामने से नेतृत्व किया।

16. 4579271 सिपाही संगत सिंह, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 मई, 2010)

11 मई 2010 को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर निशानदेह घर पर एक गहन घेरा डाला गया। लगभग 1355 बजे आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की और बहुत कम दूरी से आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकवादियों के भाग निकलने और अपने साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सिपाही संगत सिंह ने सुरक्षा की परवाह किए बिना ही अंधाधुंध गोलियों से होकर घुटने के बल गए और लक्षित घर के पास के नाले के पास उन्हें घेर लिया। यद्यपि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने उचित पोजीशन लेकर बिल्कुल करीब से जवाबी गोलीबारी करने लगे और एक हथगोला फेंक दिया। इस प्रकार मूर्छित होकर गिरने से पहले दो दुर्दांत आतंकवादियों को उन्होंने अकेले ही सफाया कर दिया किंतु बाद में वे अपनी चोट से बच नहीं सके।

सिपाही संगत सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अदम्य साहस, असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी।



### 17. 2497584 पैराटूपर कपिल देव, पहली बटालियन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 31 मई, 2010)

पैराटूपर कपिल देव उस आक्रामक दस्ते का सदस्य थे जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले के सामान्य क्षेत्र में खोजो और मार डालो संक्रिया को अंजाम देने के लिए हेलिकॉप्टर से नीचे उतारा गया था।

31 मई, 2010 को 0630 बजे पैराटूपर कपिल देव संपर्क स्थल को खोजने के लिए खुद आगे आए। खोज संक्रिया को भलीभांति जब वे अंजाम दे रहे थे तभी वे घनी झाड़ियों में छिपे आतंकवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलाबारी के चपेट में आ गए। तुरंत कार्रवाई करते हुए और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पैराटूपर कपिल देव घुटने के बल रेंगकर आगे तक गए और बड़े नजदीक से एक आतंकवादी को मार गिराया। उन पर दूसरे आतंकवादी की ओर से भारी आटोमेटिक गोलाबारी होने लगी और इस प्रकार उनके बाएं जांघ पर बंदूक से गोली लग गई। बिना विचलित हुए तथा अत्यधिक खून बह जाने के बावजूद भी वे आगे बढ़े और हथगोले डाल दिए। इस प्रकार आतंकवादियों को दावपेंच में डालकर गुत्थमगुत्था की लड़ाई में उसे मार गिराया।

पैराटूपर कपिल देव ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कर्तव्य भाव से ऊपर उठ कर बहादुरी से पहल की तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

### 18. आईसी-51655 कर्नल नीरज सूद, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 जून, 2010)

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर कर्नल नीरज सूद ने गहन आसूचना नेटवर्क तैयार किया जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में 22 जून, 2010 को 2105 बजे आतंकवादियों से संपर्क साधा जा सका। बड़ी चतुराई से यह भांपते हुए कि आतंकवादी घेरे से भाग निकल जाएगा, कमांडिंग अधिकारी ने बड़ी तेजी से युक्तिपूर्वक अपनी सैन्य टुकड़ी को सही स्थिति में तैनात कर दिया और सामने से मुकाबला करने लगा।

आपसी गोलीबारी के दौरान कर्नल सूद ने एक आतंकवादी को निशाना बनाते हुए घायल कर दिया। कर्नल सूद की इस जबरदस्त कार्रवाई को देखते हुए आतंकवादियों ने चारों ओर से उन पर गोलीबारी कर दी। इस प्रकार हुई बंदूक की भारी गोलीबारी में अफसर को प्राणघातक चोट लग गई।

कर्नल नीरज सूद ने बहादुरी और बहुआयामी नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस और गोलीबारी के बीच दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान किया।

### 19. 14703933 लांस नायक के एस खारवुंग, पहली बटालियन नागा रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 जुलाई, 2010)

02 जुलाई, 2010 को घातक प्लाटून ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक गांव में आतंकवादियों से सम्पर्क साधा। सही स्थिति भांपकर आतंकवादियों ने सैन्य टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। लांस नायक के.एस.खारवुंग, जो आक्रामक दल के सदस्य थे, ने आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए भारी गोलाबारी के बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना स्थिति संभाली और बड़े नजदीक से एक आतंकवादी को उलझाए रखा और उसे तुरंत मार गिराया।

दूसरे आतंकवादी ने चट्टान की आड़ लेकर भारी हथगोलाबारी कर दी। लांस नायक के.एस.खारवुंग ने अपनी टुकड़ी पर यूबीजीएल ग्रेनेड से खतरे को महसूस किया और असाधारण बहादुरी दिखाते हुए आड़ से बाहर निकल आए और भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी की ओर दौड़े। आतंकवादी ने उन पर दूसरा ग्रेनेड फेंका। हथगोलों के टुकड़ों से काफी करीब से बचाव करते हुए भारी गोलाबारी का मुकाबला करते हुए उन्होंने उसे घेर लिया और आतंकवादियों को बंदूक की भयंकर गोलाबारी में उलझा दिया। भयंकर गोलाबारी के पश्चात लांस नायक के एस खारवुंग ने बड़े पास से दूसरे आतंकवादी का भी सफाया कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों की जान बचा ली।

लांस नायक के. एस. खारवुंग ने आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और निस्वार्थता का परिचय दिया।

### 20. 16014589 राइफलमैन उदय सिंह, द्वितीय बटालियन राजपूताना राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 अगस्त, 2010)

राइफलमैन उदय सिंह जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले के एक गांव में तैनात एक छोटी सैन्य टुकड़ी के सदस्य थे। 29 अगस्त, 2010 को लगभग 0400 बजे पेड़ों की शाखाओं के टूटने और नाले के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते यह टुकड़ी उस क्षेत्र में घुस गई और नीचे की ओर उसने हलचल देखी। राइफलमैन उदय सिंह छोटी सी उस टुकड़ी की अगुआई कर रहे स्काउट थे। पीछा करते हुए उन्होंने अन्य स्काउटों के साथ चट्टान के नीचे एक जैकेट देखी और उसमें से एके 47 राइफलें बरामद किया।

खोज के दौरान स्काउट एक चट्टानी क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों की ओर से हो रही भारी गोलाबारी की चपेट में आ गए। नेता स्काउट होने के कारण उन्होंने अपने को सही जगह पर तैनात कर लिया और एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। ज्योंही गोलीबारी शुरू हुई, उसने सफलतापूर्वक एक और आतंकवादी को गोलाबारी में उलझा लिया जो गुफा में से गोलाबारी कर रहा था।

राइफलमैन उदय सिंह ने भारी आतंकवादी गोलीबारी करते हुए असाधारण सक्रियात्मक साहस और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया।

## 21. आईसी-72002 लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर सिंह, सेना सेवा कोर/तीसरी बटालियन मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 सितम्बर, 2010)

घुसपैठ के नए रास्ते के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर के बांदीपुर जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के घने जंगलों में एक “निगरानी-सह-घात” लगाकर हमला किया गया।

11 सितम्बर, 2010 को 1730 बजे लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर ने दो आतंकवादियों को देखा जो नाले के पास घूम रहे थे। अपनी स्थिति को तेजी से संभालते हुए उसने आतंकवादियों को प्रभावी रूप से उलझा लिया और शुरू में ही एक आतंकवादी को चोटिल कर दिया। आतंकवादियों ने बड़े पत्थरों की आड़ ले ली और भारी गोलाबारी करने लगा। यह भांप कर कि आतंकवादी मद्धिम पड़ रहे प्रकाश में भाग निकलेंगे, लेफ्टिनेंट विक्रम हो रही भारी गोलाबारी के बीच तेजी से आगे बढ़े और अपनी और हिम्मत दिखाते हुए एक आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। दूसरे आतंकवादी ने छिपने की एक जगह का सहारा ले कर सैन्य टुकड़ियों को उलझाए रखा और हथगोले फेंकता रहा ताकि सैनिक नजदीक न आ सके। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अद्वितीय युद्ध कौशल दिखाते हुए लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर घुटने के बल 30 मीटर चलकर आतंकवादी के पास पहुंचे और दो हथगोले फेंके। इस प्रकार उसे मौत की नींद सुला दिया।

लेफ्टिनेंट विक्रम बहादुर सिंह ने आतंकवादियों से लड़ने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस, पहल और दृढ़निश्चय का प्रदर्शन किया।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

(थल सेना विभाग)

थल सेना विभाग

सं. 115, दिनांक 10 फरवरी 2011--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

सं. 116, दिनांक 10 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति/पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेवा

भारत के राष्ट्रपति (निवृत्त) का आजीवन अवैतनिक एडीसी

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(जेसी-592113एच) सूबेदार मेजर और अवैतनिक कप्तान (सेवा निवृत्त) सुरिन्द्र सिंह को 08 जुलाई 2009 से भारत के राष्ट्रपति (सेवा निवृत्त) का आजीवन अवैतनिक एडीसी नियुक्त किया जाता है।

(अल्पकालीन कमीशन)

एस असरफ  
अवर सचिव

कैप्टन के पद पर (परख पर)

विनय सिंह परिहार (डीएस-12362एन), 26 अगस्त 2009

सेना शाखा

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 फरवरी 2009 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सं. 117, दिनांक 10 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

प्रादेशिक कमीशन

(एसएस-39949डब्ल्यू), पूर्व लै अमित शर्मा अब (टीए-42732), लै अमित शर्मा को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के

अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2009 से लै के पद पर इन्फैन्ट्री (टीए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 05 साल (दिनांक 07 सितम्बर 2002 से 06 सितम्बर 2007) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 01 अप्रैल 2004 से लैफ्टिनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(1)2006/डी (जीएस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के लिए सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 01 अप्रैल 2008 से कौन्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

जय राज  
उप सचिव

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 118, दिनांक 11 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

श्री एम आदिनारायण को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 03 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 6,500--200--10,500/- के वेतनमान पर।

वी पी सिंह  
उप निदेशक (कार्मिक एए-2)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 119, दिनांक 11 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 5,400/- ग्रेड पे के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है:--

पिन सं., नाम, स्थापना/प्रयोगशाला तथा नियुक्ति की तिथि

2010एबी1083 श्री आशीष अग्रवाल, एडीई, बैंगलोर, 19 मई 2010

2008एबी1002 श्री रामाधीन यादव, एडीई, बैंगलोर, 22 मई 2008

2009एबी1623 श्री अजिताभ तिवारी, एडीआरडीई, आगरा, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1182, सुश्री अन्नपूर्णा कामादि, अनुराग हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1193, श्री प्रशान्त रेड्डी जी, अनुराग हैदराबाद, 04 जून 2009

2008एबी1042, श्री श्रवण कुमार डान्थुला, अनुराग हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1531, श्री विजय कुमार, अनुराग हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1106, श्री जितेन्द्र कुमार, कैम्स, बैंगलोर, 03 जून 2009

2008एबी1141, श्री सुनील कुमार यादव, कैम्स, बैंगलोर, 21 मई 2008

2009एबी1038, सुश्री परणीथा बी एम, कैम्स, बैंगलोर, 03 जून 2009

2010एबी1179, श्री सन्यासी राव रूपिति, सेमिलेक, बैंगलोर, 27 अगस्त 2010

2009एबी1456, श्री ए कोटाके, सीएसई, ओ एंड एम (एडी राडार) यूनिट, भुवनेश्वर, 03 जून 2009

2010एबी1111, श्री सारथ के एम, डीएआरई, बैंगलोर, 19 मई 2010

2009एबी1107 सुश्री दीपिका पोरवाल, डील, देहरादून, 03 जून 2009

2008एबी1251, श्री यतीन्द्र सिंह, डील, देहरादून, 21 मई 2008

2009एबी1468, सुश्री सुजाता आर दामके, डिबेर, हल्द्वानी, 06 मई 2009

2009एबी1412, श्री मनोज कुमार ढाका, डीएल, जोधपुर, 03 जून 2009

2009एबी1149, श्री जे श्रीनिवास, डीएलआरएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1500 श्री शशि शेखर, डीएलआरएल, हैदराबाद, 24 अगस्त 2009

2009एबी1413, श्री अमित सिंह, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 03 जून 2009

2009एबी1233, श्री नावेद अली, डीआरडीएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1524, श्री एस नरेन्द्र, डीआरडीएल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2010एबी1146, श्री बी ए विरनाथ, डीआरडीएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1344, श्री एस रेड्डी डी, डीआरडीएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1035, श्री सचिन कुमार, जीटीआरई, बैंगलोर, 11 सितम्बर 2008

2009एबी1409, श्री एम एसएसएनएम सन्तोष, एचईएमआरएल, पुणे, 03 जून 2009

2008एबी1050, श्री पी संतोष कुमार, एचईएमआरएल, पुणे, 21 मई 2008

2009एबी1279, श्री लोहार साई नाग, एचईएमआरएल, पुणे, 09 जून 2009

2009एबी1511, श्री वी आर सेन्थिल, इनमास, दिल्ली, 30 मार्च 2009

2009एबी1196, श्री मनोज मलिक, आईएनएस शिवाजी, लोनावाला, 03 जून 2009

2010एबी1114, श्री मनीष पवार, आईआरडीई, देहरादून, 19 मई 2010

2008एबी1599 श्रीमती प्रज्ञाश्री गोगोई, एलआरडीई, बैंगलोर, 03 दिसम्बर 2008

2010एबी1069 श्री जे ए पद्माकर, एनएमआरएल, अम्बेरनाथ, 19 मई 2010

2007एबी1172 श्री सेन्थिल राजन एस, एनपीओएल, कोच्ची, 14 नवम्बर 2007

2010एबी1145 श्री माधवन नामपूथरी एस, एनपीओएल, कोच्ची, 19 मई 2010

2008एबी1542 श्री मनोज कुमार, एनपीओएल, कोच्ची, 03 दिसम्बर 2008

2009एबी1389 श्रीमती प्रेरणा प्रियदर्शिनी, एनएसटीएल, विशाखापटनम, 03 जून 2009

2009एबी1656 श्री सन्नी, एनएसटीएल, विशाखापटनम, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1187 श्री सुमित सरकार, पीएक्सई, बालासोर, 03 जून 2009

2009एबी1042 श्री निखिल कुमार पाली, आरसीआई, हैदराबाद, 05 जून 2009

2007एबी1124 श्री वी प्रदीप कुमार, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007

2008एबी1283 श्री रवि कांत, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1090 श्री एन नन्दीकुडा, आरसीआई, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1016 श्री वी विद्याकृष्णा, आरसीआई, हैदराबाद, 05 जून 2009

2010एबी1079 श्री रूपक कुंडु, आरसीआई, हैदराबाद, 19 मई 2010

2010एबी1175 श्री एस सोनार, आरसीआई, हैदराबाद, 25 अगस्त 2010

2010एबी1174 श्री के एम मोहन रेड्डी, आरसीआई, (प्रोजेक्ट-एडी), हैदराबाद, 21 मई 2010

2009एबी1478 श्री एस कुमार मावुरु, सासे, चंडीगढ़, 06 मई 2009

2009एबी1013 श्री संजय यादव, स्पिक, दिल्ली, 10 जून 2009

2009एबी1666, श्री नितिन कुमार, एसएफसी, जगदलपुर, 28 अक्टूबर 2009

2009एबी1393 श्री गौरव शर्मा, एसएफसी, जगदलपुर, 03 जून 2009

2009एबी1403 श्री पी राय, एसएफसी, जगदलपुर, 03 जून 2009

2010एबी1143 श्री सौरभ तमराकर, एसएफसी, जगदलपुर, 19 मई 2010

2010एबी1156 श्री खिलावन सिंह, एसएफसी, जगदलपुर, 19 मई 2010

2008एबी1367 सुश्री नवनीत कौर सैनी, एसएसपीएल, दिल्ली, 21 मई 2008

2010एबी1134 श्री हर्षल मारके, वीआरडीई, अहमदनगर, 21 मई 2010

वी पी पांडे  
सह निदेशक (कार्मिक)

थल सेना विभाग

सं. 120, दिनांक 11 फरवरी 2011--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर

एस मुरली मोहन (डीआर-10295पी), 18 मार्च 2010 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 31 दिसम्बर 2008 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

जे पी सिंह (डीआर-10315एक्स), 30 मार्च 2010 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

कर्नल से ब्रिगे के पद पर

रमेन सिन्हा (डीआर-10344एम), 23 मार्च 2010

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

सं. 121, दिनांक 14 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के रैंक में

कैप्टन एम एस राठौर (टीए-42230), इन्फैन्ट्री, 07 जून 2010

कैप्टन सिद्धार्थ शर्मा (टीए-42534), इन्फैन्ट्री, 29 अक्टूबर 2010

कैप्टन चुवोनन लॉगकुमेर (टीए-42545), इन्फैन्ट्री, 25 नवम्बर 2010

कैप्टन दिक्षित संजय गिरिशचंद (टीए-42547), इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2010

कैप्टन धर्म बहादुर (टीए-42548), इन्फैन्ट्री, 18 दिसम्बर 2010

## कैप्टन के रैंक में

लै जे एस भारद्वाज टीए (एनटी)-1215, (नॉन टैक टीए), 20 अक्टूबर 2010

लै वीडी भारद्वाज टीए (एनटी)-1216, (नॉन टैक टीए) 20 अक्टूबर 2010

जय राज  
उप सचिव

## सेना विभाग

सं. 122, दिनांक 14 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## सिख रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-498710वाई), 01 अगस्त 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499799एच), 15 अगस्त 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-499727वाई), 21 अगस्त 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

नायब सूबेदार भरपुर सिंह (जेसी-499709डब्ल्यू), 07 जुलाई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-499590एक्स), 03 अगस्त 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-499722ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-499754एच), 01 अगस्त 2010

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-498980एन), 01 मार्च 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-499836एल), 20 जुलाई 2010  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010)

नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-499719ए), 02 जून 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010)

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जेसी-499733एम), 06 जुलाई 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010)

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-498721एल), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-499021के), 01 अक्टूबर 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499652एम), 07 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2010)

नायब सूबेदार गुरसेवक सिंह (जेसी-499802एक्स), 14 सितम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-499695एफ), 06 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-499721एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-499764एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जेसी-499960एम), 13 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

## पंजाब रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) गुरचरन सिंह संधु (जेसी-429654ए), 01 जून 2010

सूबेदार (लिपिक) शसि कुमार (जेसी-429771एल), 01 अगस्त 2010

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) आजयब सिंह बैस (जेसी-430121के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) जय सिंह (जेसी-430134एफ), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अतमा सिंह चहल (जेसी-429010ए), 01 जून 2010

सूबेदार गुरदयाल सिंह (जेसी-429157डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-429485के), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-429866एल), 01 मई 2010

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-429979एन), 01 मई 2010

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-430042पी), 01 मई 2010

नायब सूबेदार चन्दर भाने सिंह (जेसी-430168पी), 01 मई 2010

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-430241एच), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-430311डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जनक राज (जेसी-430397ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-430287एल), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-430275एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-430316पी), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार भुंपीन्द्र सिंह (जेसी-430059एच), 01 मई 2010

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-430207एच), 01 मई 2010

नायब सूबेदार वतन सिंह (जेसी-430399एल), 01 मई 2010

नायब सूबेदार हेमराज सिंह (जेसी-429914ए), 01 जून 2010

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-430124एक्स), 01 जून 2010

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-429966डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार मदन लाल जगराल (जेसी-430424वाई), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सुरम सिंह (जेसी-429943पी), 27 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-430301एम), 25 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-430243एन), 20 मई 2010

नायब सूबेदार रवेल सिंह (जेसी-430312वाई), 01 जून 2010

नायब सूबेदार अमर चन्द (जेसी-430549डब्ल्यू), 01 जून 2010

नायब सूबेदार गुरभाग सिंह (जेसी-430329एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार नरवेल सिंह (जेसी-430113एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-430249पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार हरविन्दर सिंह (जेसी-430302पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार युदबीर सिंह (जेसी-430348एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार प्रेम लाल (जेसी-430364पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-430492एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-430553वाई), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-430035डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-430092ए), 01 जून 2010

नायब सूबेदार रविन्दर कुमार (जेसी-430212एन), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-430406डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-430269एच), 10 अगस्त 2010

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-429952डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-430144एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार इकबाल सिंह (जेसी-430197के), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बबिन कुमार (जेसी-430278के), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सुकवत सिंह (जेसी-430330एफ), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-430356डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार कृशन सिंह (जेसी-430447ए), 01 सितम्बर 2010

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रमोद कुमार चौहान (जेसी-519888एल), 01 मार्च 2010

सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-519903पी), 02 जून 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से)

सूबेदार राज मल ठाकुर (जेसी-519938एल), 01 अगस्त 2010

सूबेदार देश राज (जेसी-520000के), 01 अगस्त 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भरत राज (जेसी-520764एच), 02 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार सुभाष चंद ठाकुर (जेसी-520815एल), 05 जुलाई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार जोवन लाल (जेसी-520867एफ), 05 जुलाई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से)

नायब सूबेदार बलिन्द्र सिंह (जेसी-520772एफ), 07 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से)

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-520475एन), 30 जुलाई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से)

नायब सूबेदार जीत सिंह (जेसी-520576एफ), 03 जुलाई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से)

नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-520688एफ), 01 जुलाई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से)

नायब सूबेदार सुखदेव (जेसी-520741एफ), 13 जुलाई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार महिन्द्र सिंह राणा (जेसी-520717एल), 05 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-520756के), 26 जुलाई 2010+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2010 से)

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) गोपाल सिंह ठाकुर (जेसी-519919ए), 01 अगस्त 2010

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रभाती लाल (जेसी-520385एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेश चन्द्र (जेसी-520402एफ), 15 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) मंगला प्रसाद सिंह (जेसी-520386पी), 21 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से)

नायब सूबेदार (लिपिक) राम प्रसाद (जेसी-520403के), 03 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से)

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार राम सिंह गरिया (जेसी-539437एम), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार प्रकाश चन्द्रा जोशी (जेसी-539484के), 03 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी गई है)

सूबेदार बदारी दत्त (जेसी-539488ए), 20 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी गई है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-509038एन), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-508776एल), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार निर्मल सिंह, एसएम (जेसी-508690एम), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार जगराज सिंह (जेसी-508694एच), 01 जनवरी 2010

सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-508888एल), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार भगवन्त सिंह (जेसी-508748वाई), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-508336एक्स), 01 जून 2010

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार पिरथीपाल सिंह (जेसी-509283डब्ल्यू), 28 मई 2009

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-509500एफ), 01 जून 2009

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-509493डब्ल्यू), 01 जून 2009

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-509496के), 01 जून 2009

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-509497एम), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-509552एक्स), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार जगविन्दर सिंह (जेसी-509384के), 19 अगस्त 2009

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-509343ए), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-509349एफ), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-509448के), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार तिलकराज सिंह (जेसी-509387एक्स), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-509589वाई), 02 दिसम्बर 2009



नायब सूबेदार सुखराज सिंह (जेसी-509365वाई), 01 फरवरी 2010  
 नायब सूबेदार त्रलोक सिंह (जेसी-509374ए), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-509413एन), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार करमजीत सिंह (जेसी-509454एक्स), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार बाबू सिंह (जेसी-509456एच), 25 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-509488एल), 28 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-509516एम), 04 मई 2010  
 नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-509599एच), 04 मई 2010  
 नायब सूबेदार शिन्दरपाल सिंह (जेसी-509600एम), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-509607डब्ल्यू), 01 जून 2010  
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-509646पी), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह (जेसी-509641डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार तारा सिंह (जेसी-509687वाई), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-509688एफ), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-509704एन), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-509588डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010  
 नायब सूबेदार पिरथीपाल सिंह (जेसी-509450एफ), 01 फरवरी 2009  
 नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जेसी-509436पी), 01 मार्च 2009  
 नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-509291पी), 26 जून 2009  
 नायब सूबेदार क्रिशन सिंह (जेसी-509293ए), 26 जून 2009  
 नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-509359एल), 06 जुलाई 2009  
 नायब सूबेदार हरमेल सिंह (जेसी-509360ए), 02 सितम्बर 2009  
 नायब सूबेदार त्रलोक सिंह (जेसी-509524एल), 01 अक्टूबर 2009  
 नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-509568एच), 01 अक्टूबर 2009  
 नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-509437एक्स), 19 दिसम्बर 2009  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-509439एच), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-509440एक्स), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार जगमीत सिंह (जेसी-509458एन), 01 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार सुखराज सिंह (जेसी-509467पी), 11 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-509569एल), 19 मार्च 2010  
 नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-509501के), 01 अप्रैल 2010  
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-509598ए), 01 जून 2010

नायब सूबेदार माखन सिंह (जेसी-509502एम), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार निशान सिंह (जेसी-509590एन), 01 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-509584ए), 14 अगस्त 2010  
 नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-509594के), 01 सितम्बर 2010  
 नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-509601पी), 01 अक्टूबर 2010  
 नायब सूबेदार जग्गा सिंह (जेसी-509606एन), 01 अक्टूबर 2010  
 नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-509608वाई), 01 अक्टूबर 2010  
 नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-509660एफ), 01 अक्टूबर 2010  
 सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) बहादुर सिंह (जेसी-509229एच), 01 नवम्बर 2009

नायब सूबेदार (क्लर्क) विजय सिंह नेगी (जेसी-509220एन), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) रमेश चन्द्र यादव (जेसी-509266डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) कुमार शेन (जेसी-509244एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुरेश कुमार शर्मा (जेसी-509287एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) वीरेंद्र सिंह बबेल (जेसी-508903पी), 01 जून 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) माने पन्डुरंग नारायण (जेसी-509288पी), 01 जून 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) सतबीर सिंह (जेसी-509312ए), 01 अक्टूबर 2010

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पी महेश कुमार (जेसी-439923पी), 22 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुब्रामनियन ए (जेसी-439887पी), 15 जनवरी 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ससीधारन नायर पैनी (जेसी-439846एल), 20 मार्च 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

- नायब सूबेदार वोअसु रमनैया (जेसी-439785वाई), 27 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार जोशी ए (जेसी-439847एन), 10 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार पदाकंटी सत्यानारायना (जेसी-439784डब्ल्यू), 21 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार के संकरन (जेसी-439796एल), 25 जनवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार दोरा बाबू मुट्टि रेड्डी (जेसी-439771वाई), 05 फरवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार संतोश के पी (जेसी-439823के), 14 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार जे मेल्विन रोय (जेसी-439882डब्ल्यू), 11 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार बी मूर्थी (जेसी-439925ए), 30 जनवरी 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार एन रंगइया चारी (जेसी-439570ए), 16 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार सदाशिव लुगारी (जेसी-439750एच), 01 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार ससी डी (जेसी-439797एन), 09 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार टी गणपती (जेसी-439933वाई), 10 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार अडुसुमल्लि रामबाबू (जेसी-439671एन), 29 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार दिनेसन सी वी (जेसी-439879डब्ल्यू), 22 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार प्रदीपन चमाथयिल (जेसी-439903एफ), 16 मार्च 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार टी सेंथिल कुमार (जेसी-439795एच), 02 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार अशोक कुमार पी (जेसी-439645एम), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार सीनिवसाकप पेरुमाल वी (जेसी-439647एक्स), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार गंजिकुंटला च पुल्लैया (जेसी-439648ए), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार (लिपिक) निर्मल बाबू पी (जेसी-439659एम), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार कोरापट्टी सिवाकुमार (जेसी-439684एल), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार देवारेण एल होट्टेन्नवर (जेसी-439705डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार राघुथामन के एम (जेसी-439703एल), 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार कुसंगि मोगुलैया (जेसी-439751एल), 30 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार सुरेश पी के (जेसी-439716एच), 30 जून 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार राजू एन (जेसी-439817डब्ल्यू), 03 मई 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)
- नायब सूबेदार एन गुनासेकरन् (जेसी-439855एम), 16 अप्रैल 2010\*  
\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एस मुरुगन (जेसी-439856पी), 17 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के राजा (जेसी-439826एक्स), 12 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शाजी वी (जेसी-439857एक्स), 25 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजीवन वी के (जेसी-439895एन), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार ससी कुमार सी (जेसी-439896डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार मुनिया सामी वी (जेसी-440002एफ), 25 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार पी फ्रांसिस सेविएर (जेसी-440003के), 14 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ससीधरन टी पी (जेसी-440004एम), 21 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गेदला कृष्णा राव (जेसी-440041ए), 11 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार पदमाप्पा हुलामनि (जेसी-440049एम), 24 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शनमुगवेल के (जेसी-440059डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एल्सन थुम्बिपुरम (जेसी-440060एल), 24 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कमलाक्षन (जेसी-440139एन), 28 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एम चेंथामरै कृष्णन (जेसी-440140एच), 05 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) जेम्स जोन (जेसी-439660एफ), 16 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बिजुमोन के (जेसी-439781एच), 22 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एस रवी कुमार (जेसी-439813ए), 15 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मुरलीधरन के (जेसी-439883वाई), 10 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एम बाबू (जेसी-439870एफ), 02 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार उदया कुमार एस (जेसी-439934एफ), 01 मई 2010

नायब सूबेदार एम जगन्नाथ (जेसी-440160डब्ल्यू), 30 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार वेंकाटेशन एम (जेसी-439989एल), 07 जुलाई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बैजू के आर (जेसी-440027एन), 08 जुलाई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रसाद एम एस (जेसी-439828एच), 01 जून 2010

नायब सूबेदार संतोश जोन (जेसी-439991एच), 26 जून 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार इरा गौड़ा (जेसी-439904के), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार एम ए मज़ीद (जेसी-439905एम), 01 जुलाई 2010

नियमित सेना इन्फैन्ट्री  
जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री  
सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए  
सूबेदार इचपाल सिंह (जेसी-592776एन), 01 अगस्त 2010\*  
\*(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)  
सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए  
नायब सूबेदार (लिपिक) एम राजन (जेसी-593141एफ), 25 मार्च 2010\*  
\*[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 20 जनवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है]  
नायब सूबेदार (लिपिक) ए सुब्रमनियन (जेसी-593142के), 16 जुलाई 2010\*  
\*[सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है]  
जम्मू और कश्मीर राईफलस  
सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में  
सूबेदार बीर सिंह (जेसी-579834एन), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
सूबेदार यदु नाथ (जेसी-579919के), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
सूबेदार (जीडी) के रैंक में  
नायब सूबेदार सुरेश कुमार थापा (जेसी-580028एन), जैक राईफलस, 01 अप्रैल 2009  
नायब सूबेदार मुख राज (जेसी-580459ए), जैक राईफलस, 01 अप्रैल 2010  
नायब सूबेदार सुरजीत शर्मा, एस एम (जेसी-580475एक्स), जैक राईफलस, 26 जुलाई 2010  
नायब सूबेदार ब्रह्म राम (जेसी-580316ए), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2010  
नायब सूबेदार सुखदर्शन सिंह ठाकुर (जेसी-580317एच), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार बलदेव सिंह अत्रि (जेसी-580528एल), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-580548वाई), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार मोहन लाल शर्मा (जेसी-580590एक्स), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार रवि कुमार (जेसी-580599एम), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-580691एल), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार हरबंश सिंह (जेसी-580716एम), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार धन बहादुर थापा (जेसी-580739एन), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580753ए), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-580809एफ), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010  
नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-580805एल), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-580540एम), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-580559एल), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-580592एच), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-580595डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार सज्जन सिंह (जेसी-580603के), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-580635एम), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010  
सूबेदार म्यूजिशियन के रैंक में  
नायब सूबेदार पारस राम (जेसी-580642एच), जैक राईफलस, 01 जुलाई 2010  
सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में  
सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-579497के), जैक राईफलस, 04 जून 2010  
सूबेदार हंस राज (जेसी-579843पी), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2010  
सूबेदार सुरिन्द्र कुमार (जेसी-579971एम), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2010  
सूबेदार गेरे राम ठाकुर (जेसी-579877एच), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2010  
सूबेदार राम बहादुर खत्री (जेसी-579418के), जैक राईफलस, 01 अगस्त 2010  
सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-579756एफ), जैक राईफलस, 03 अगस्त 2010  
सूबेदार (जीडी) के रैंक में  
नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-580447एल), जैक राईफलस, 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार विस्वा गुरूंग (जेसी-580683एम), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-580693डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-580385डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 मई 2010

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-580566एफ), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार रोमेश सिंह (जेसी-580646वाई), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार जगदीश राज (जेसी-580421वाई), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-580452डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार मोहम्मद रशीद (जेसी-580738एल), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार अब्दुल आजाद (जेसी-580695एफ), जैक राईफल्स,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-580574ए), जैक राईफल्स,  
01 जून 2009

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580712डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार मलकियत सिंह (जेसी-580702एम), जैक राईफल्स,  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार रनबीर चन्द (जेसी-580763के), जैक राईफल्स,  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार देविन्द्र नारायण (जेसी-580733एम), जैक राईफल्स,  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-580627एन), जैक राईफल्स, 01 अगस्त  
2010

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580765पी), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-580638ए), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार स्वरण सिंह (जेसी-580746के), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-580783एक्स), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-580510पी), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-580422वाई), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

12—4 GI/2011

नायब सूबेदार बटन सिंह (जेसी-580467वाई), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार वरयाम सिंह (जेसी-580485एफ), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-580474पी), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार नरिन्द्र पाल (जेसी-580549एफ), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार परिक्षित भांगालिआ (जेसी-580651के), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार कपूर सिंह राणा (जेसी-580518एफ), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बाबु सिंह (जेसी-580774एन), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-580756एम), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार दिनेश बहादुर गुरूंग (जेसी-580515एन), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-580764एम), जैक राईफल्स,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-580368डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार भाग सिंह (जेसी-580694ए), जैक राईफल्स,  
01 सितम्बर 2010

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार जय सिंह (जेसी-579870वाई), जैक राईफल्स, 01 जून 2010

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार दोलत राम (जेसी-580450एल), जैक राईफल्स,  
11 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सागर सिंह चिब (जेसी-580629वाई), जैक राईफल्स,  
01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-580557ए), जैक राईफल्स,  
03 मई 2010

नायब सूबेदार जोगिंद्र पॉल (जेसी-580676डब्ल्यू), जैक राईफल्स,  
05 मई 2010

नायब सूबेदार प्रशोतम कुमार (जेसी-580727वाई); जैक राईफल्स,  
05 मई 2010

नायब सूबेदार भूप राम (जेसी-580607ए), जैक राईफल्स, 10 मई  
2010

नायब सूबेदार गणेश सिंह कनवर (जेसी-580854एन), जैक राईफल्स,  
12 मई 2010

नायब सूबेदार छज्जु सिंह (जेसी-580544एच), जैक राईफल्स,  
15 मई 2010

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-580456एम), जैक राईफलस,  
17 मई 2010

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार गुरुंग (जेसी-580878एक्स), जैक राईफलस,  
26 मई 2010

नायब सूबेदार रविंद्र पाल सिंह (जेसी-580659डब्ल्यू), जैक राईफलस,  
27 मई 2010

नायब सूबेदार टांका राणा (जेसी-580728एफ), जैक राईफलस,  
28 मई 2010

नायब सूबेदार विकास शर्मा (जेसी-580363एक्स), जैक राईफलस,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार जैमल सिंह (जेसी-580704एक्स), जैक राईफलस,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-580717पी), जैक राईफलस, 02 जून  
2010

नायब सूबेदार तीर्थ सिंह (जेसी-580723एच), जैक राईफलस, 02 जून  
2010

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-580472के), जैक राईफलस,  
09 जून 2010

नायब सूबेदार सुशील कुमार थापा (जेसी-580616एफ), जैक राईफलस,  
12 जून 2010

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-580703पी), जैक राईफलस,  
21 जून 2010

नायब सूबेदार राज कुमार धीमान (जेसी-580555एच), जैक राईफलस,  
30 जून 2010

नायब सूबेदार मिलाल चन्द (जेसी-580605पी), जैक राईफलस,  
30 जून 2010

नायब सूबेदार विजय लाल (जेसी-580626एल), जैक राईफलस,  
01 जुलाई 2010

#### 4 जीआर

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पदम बहादुर पुन (जेसी-612465के), अब सूबेदार मेजर,  
01 जुलाई 2010

सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-612487एच), अब सूबेदार मेजर,  
01 जुलाई 2010

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शंकर गुरुंग (जेसी-612701ए), अब सूबेदार, 04 जून  
2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2010)

नायब सूबेदार ईन्द्र बहादुर थापा (जेसी-612779एल), अब सूबेदार,  
01 जून 2010

नायब सूबेदार लाल माने पुन (जेसी-612726एम), अब सूबेदार,  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) श्री कृष्णा राये (जेसी-612735एन), अब  
सूबेदार, 06 जुलाई 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) निशी कांत सिंहा (जेसी-612748एल), अब  
सूबेदार, 13 जुलाई 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) अखलेश कुमार सिंह (जेसी-612751एल),  
अब सूबेदार, 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) कंवर सिंह शाकिया (जेसी-612754वाई),  
अब सूबेदार, 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार ईक बहादुर गाहा (जेसी-612727पी), अब सूबेदार,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार दल बहादुर थापा (जेसी-612724एफ), अब सूबेदार,  
02 अगस्त 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2010)

नायब सूबेदार भीम बहादुर थापा (जेसी-612732ए), अब सूबेदार,  
01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सिंह बहादुर गुरुंग (जेसी-612728एक्स), अब सूबेदार,  
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार भीम बहादुर गुरुंग (जेसी-612736डब्ल्यू), अब सूबेदार,  
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार ज्ञानेन्द्रा थापा (जेसी-612745एक्स), अब सूबेदार,  
01 सितम्बर 2010

#### इन्फैन्ट्री

#### 11 जीआर

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार खडक चंद (जेसी-634333डब्ल्यू), 07 जनवरी 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से)

सूबेदार प्रवीन राई (जेसी-634428डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार शुभो कुमार राई (जेसी-634437एक्स), 05 अप्रैल 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से)

सूबेदार मिश्रा बहादुर लोकसोम (सुब्बा) (जेसी-634438ए), 01 अप्रैल  
2010

सूबेदार छत्रा बहादुर श्रेष्ठा (जेसी-634440एक्स), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार योग्या बिक्रम लिम्बु (जेसी-634442एच), 01 मई 2010

## सूबेदार के रैंक में

## मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार अशोक राई (जेसी-634758पी), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार महेंद्र कुमार राई (जेसी-634794ए), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार तिलक बहादुर राई (जेसी-634657एफ), 15 अगस्त 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2009 से)

नायब सूबेदार बिशनु कुमार लिम्बु (जेसी-634767डब्ल्यू), 09 सितम्बर 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से)

नायब सूबेदार देव राज राई (जेसी-634777ए), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार मनी राज राई (जेसी-634747एच), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार टेक बहादुर तामंग (जेसी-634748एल), 11 जनवरी 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से)

नायब सूबेदार दिल बिक्रम लिम्बु (जेसी-634789पी), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार डम्बर सुब्बा (जेसी-634796एल), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार बजा हंग लिम्बु (जेसी-634707एफ), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार सुरेश कुमार पोखरेल (जेसी-634708के), 09 जनवरी 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2010 से)

नायब सूबेदार धन बहादुर राई (जेसी-634773के), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार चंद्रा प्रसाद थलांग (जेसी-634757एम), 20 फरवरी 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 26 जनवरी 2010 से)

नायब सूबेदार चंद्रा बहादुर राई (जेसी-634770डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रत्ना बहादुर थापा (जेसी-634718एन), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार मोहन बहादुर थापा (जेसी-634781एच), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार रमेश राई (जेसी-634795एच), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार कुल बहादुर तामंग (जेसी-634719डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बीर बहादुर तामंग (जेसी-634784डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

## सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार शिंदे नवनाथ शिवाजी (जेसी-458527एन), 15 जनवरी 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

सूबेदार तुकाराम सिद्ध्या पाटील (जेसी-458588एल), 22 फरवरी 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2010 से दी जाती है)

सूबेदार महाडिक शैलंदर काशीराम (जेसी-458672एल), 23 फरवरी 2010

सूबेदार दिलीप ईश्वर गायकवाड़ (जेसी-458784एल), 25 फरवरी 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2010 से दी जाती है)

सूबेदार गोपीनाथ आर पी (जेसी-458556एच), 02 मार्च 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

सूबेदार मुर्लीधर बाबूराव बाधे (जेसी-458766एच), 03 मई 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

सूबेदार बालासो आनंदराव जमादार (जेसी-458644वाई), 01 मई 2010

सूबेदार वसंथा राय (जेसी-458686एल), 04 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

सूबेदार काम्बले विश्वनाथ मासाजी (जेसी-458845एक्स), 02 जून 2010+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक मालुचे (जेसी-459659एन), 21 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अईर उमेश सखाराम (जेसी-459651एफ), 13 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चव्हाण साइनाथ जगन्नाथ (जेसी-459678वाई),  
11 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-459618के), 11 फरवरी 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नजीब खान एम एस (जेसी-459511पी), 17 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शेक नन्हे साहेब (जेसी-459711एल), 24 फरवरी  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार उषेंदर सिंह ठाकुर (जेसी-459585के), 15 अप्रैल 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार थोरात चन्नभुज अच्युतराव (जेसी-459767एक्स),  
19 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भोसले गणेश आबाजीराव (जेसी-459761डब्ल्यू),  
27 मई 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार माने कुंदन नारायण (जेसी-459634एफ), 26 अप्रैल  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
24 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार घाडगे बालू सीताराम (जेसी-459724एच), 18 जून  
2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार फडतरे विजयकुमार तानाजी (जेसी-459723ए),  
19 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कापडनिस संजय निम्बा (जेसी-459772एच), 01 जून  
2010

नायब सूबेदार नारायण हराले (जेसी-459733के), 04 जून 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्य विजय पडवलकर (जेसी-459844एफ), 01 जून  
2010

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भरत बहादुर क्षेत्री (जेसी-629564एच), 06 नवम्बर 2009/  
01 नवम्बर 2009 \*

सूबेदार आरटी नारायण प्रसाद गौतम (जेसी-143090पी), 01 मई 2010

सूबेदार लिपिक राजेन्द्र सिंह (जेसी-629271एक्स), 05 जुलाई 2010/  
01 जुलाई 2010 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
ज्येष्ठता दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गम बहादुर मल्ला (जेसी-629784एम), 04 फरवरी  
2010/09 जून 2008 \*

नायब सूबेदार गोकर्णा राज गन्वाली (जेसी-629743एच), 04 जनवरी  
2009/01 नवम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार लिपिक विनोद कुमार पाठक (जेसी-629697वाई),  
01 दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार खेम बहादुर केसी (जेसी-629661एल), 22 जनवरी  
2010/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार राम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629674एच), 25 जनवरी  
2010/01 दिसम्बर 2009 \*

नायब सूबेदार संजीव कुमार उपाध्याय (जेसी-629675एल), 15 जनवरी  
2010/01 जनवरी 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी  
जाएगी)

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर मल्ला (जेसी-629776एन), 01 फरवरी  
2010

नायब सूबेदार लिपिक सुदेश कुमार क्षेत्री (जेसी-629611पी), 01 अप्रैल  
2010

नायब सूबेदार मीन बहादुर खाती (जेसी-629758एल), 01 मई 2010



नायब सूबेदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629779एन), 05 मई 2010/  
01 मई 2010\*

नायब सूबेदार बिनोद के सी (जेसी-629812एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार देव बहादुर मल्ला (जेसी-629814वाई), 01 जून 2010

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राज कुमार गुरुंग (जेसी-607458के), 06 सितम्बर 2009/  
01 मार्च 2009\*

सूबेदार खेम बहादुर भुजेल (जेसी-607534एल), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार यम बहादुर खॉड (जेसी-607480पी), 29 दिसम्बर 2009/  
01 दिसम्बर 2009\*

सूबेदार दिर्गा बहादुर राना (जेसी-607498एल), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार लिपिक सुतेश कुमार रावत (जेसी-607218एम), 14 मई  
2010/01 मई 2010\*

सूबेदार लेख नाथ तिवारी (जेसी-607544एन), 02 अगस्त 2010/  
01 जून 2010\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
ज्येष्ठता दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार यम प्रसाद गुरुंग (जेसी-607712एच), 15 अप्रैल  
2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार ध्वराज धिसिंग (जेसी-607713एल), 07 अप्रैल 2009/  
01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार ओम नारायण श्रेष्ठा (जेसी-607645एच), 22 मार्च  
2010/12 अगस्त 2009\*

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-607671के), 22 मार्च 2010/  
01 नवम्बर 2009\*

नायब सूबेदार लिपिक बिनोद कुमार पाल (जेसी-607658ए), 01  
नवम्बर 2009

नायब सूबेदार खुम बहादुर कुवर मगर (जेसी-607718के), 01  
दिसम्बर 2009

नायब सूबेदार खेम बहादुर (जेसी-607677एल), 23 मार्च 2010/  
29 दिसम्बर 2009\*

नायब सूबेदार हरी बहादुर थापा (जेसी-607716वाई), 11 जनवरी  
2010/01 जनवरी 2010\*

नायब सूबेदार लिपिक प्रनोबेस राय (जेसी-607694एल), 15 फरवरी  
2010/ 01 फरवरी 2010\*

नायब सूबेदार खरका बहादुर गुरुंग (जेसी-607717एफ), 01 फरवरी  
2010

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी  
जाएगी)

नायब सूबेदार तुल बहादुर बूचा (जेसी-607663एल), 26 अप्रैल  
2010/01 अप्रैल 2010\*

नायब सूबेदार भीम बहादुर गुरुंग (जेसी-607669एम), 16 अप्रैल  
2010/01 अप्रैल 2010\*

नायब सूबेदार तेज बहादुर (जेसी-607687पी), 01 मई 2010

नायब सूबेदार पुरना बहादुर थापा (जेसी-607722एम), 06 मई 2010/  
01 मई 2010\*

नायब सूबेदार लिपिक ईश्वर सिंह (जेसी-607731एन), 01 मई 2010

नायब सूबेदार किसेन कुमार थापा (जेसी-607691एक्स), 02 जून  
2010/01 जून 2010\*

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर थापा (जेसी-607695एन), 07 जून 2010/  
01 जून 2010\*

नायब सूबेदार केस बहादुर थापा (जेसी-607724एक्स), 02 जून  
2010/01 जून 2010\*

नायब सूबेदार बम बहादुर आले (जेसी-607727एल), 12 जुलाई  
2010/01 जुलाई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी  
जाएगी)

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार वेसाख सिंह, सेना मैडल (जेसी-529587पी), 01 अगस्त 2010

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) कृष्ण कुमार, (जेसी-529666के), 21 जुलाई 2010\*

\*[सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है]

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-530313डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
21 मई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जय सिंह, सेना मैडल (जेसी-530384एक्स), 20 अप्रैल  
2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-530183वाई), 16 जुलाई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
24 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगदीप सिंह रावत (जेसी-530385ए), 05 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह खत्री (जेसी-530468एल), 08 मई 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)



## सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-528831एक्स), 10 मई 2010\*

\*[सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है]

## दि राजपूत रेजिमेंट

## सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर पूरन सिंह (जेसी-479307वाई), 01 जून 2010

सूबेदार मेजर सत्यवान (जेसी-479272एम), 01 जुलाई 2010

सूबेदार मेजर सबल सिंह (जेसी-479413डब्ल्यू), 12 अगस्त 2010

सूबेदार मेजर मातू सिंह (जेसी-479226एक्स), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार मेजर राम निवास (जेसी-479551एक्स), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार (धर्म गुरु के रूप में)

सूबेदार (धर्म गुरु) उमाशंकर त्रिपाठी (जेसी-478760एच), 01 जून 2010

सूबेदार (धर्म गुरु) सदानन्द मिश्रा (जेसी-478761एल), 01 अगस्त 2010

## सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार (लिपिक) एसयु गोविन्दाराजा शंकर (जेसी-479716एल), 08 जुलाई 2010/01 फरवरी 2010

सूबेदार (लिपिक) शिव शरन सिंह (जेसी-479894एन), 01 अगस्त 2010

सूबेदार (लिपिक) शिव नारायण ठाकुर (जेसी-479934के), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार के रूप में

सूबेदार शेर सिंह (जेसी-479944एम), 12 दिसम्बर 2009/01 मार्च 2009

सूबेदार अजीत कुमार (जेसी-480038एच), 04 मई 2010/01 मार्च 2009

सूबेदार राजेन्द्रा सिंह (जेसी-480072एच), 26 मार्च 2010/01 जुलाई 2009

सूबेदार सुभाष चन्द नागर (जेसी-480138एन), 12 सितम्बर 2009

सूबेदार देवेन्द्र सिंह सिकरवार (जेसी-479852एफ), 08 दिसम्बर 2009/25 अक्टूबर 2009

सूबेदार राम प्रताप सिंह (जेसी-480054ए), 20 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009

सूबेदार धीरेन्द्र सिंह (जेसी-479943एल), 01 मई 2010/01 नवम्बर 2009

सूबेदार सुरेश कुमार गुर्जर (जेसी-480235एल), 02 जून 2010/01 नवम्बर 2009

सूबेदार राज करण (जेसी-479580वाई), 01 दिसम्बर 2009

सूबेदार जमील अहमद (जेसी-480034एम), 07 मार्च 2010/04 दिसम्बर 2009

सूबेदार संग्राम सिंह (जेसी-480173डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010/15 दिसम्बर 2009

सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-480040ए), 01 जनवरी 2010

सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-480045एन), 01 जनवरी 2010

सूबेदार दया राम (जेसी-480099ए), 03 मई 2010/02 जनवरी 2010

सूबेदार विरेन्द्रा सिंह (जेसी-480066पी), 14 फरवरी 2010/09 जनवरी 2010

सूबेदार शोराम (जेसी-480165एक्स), 25 फरवरी 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार राम निवास सिंह तोमर (जेसी-480166ए), 17 मई 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार श्याम सिंह जोधा (जेसी-480167एच), 14 मई 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार यूनुस खान (जेसी-480192एफ), 01 मई 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार हरकेश सिंह (जेसी-480171एल), 11 मार्च 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार श्री चंद (जेसी-480177एल), 11 मार्च 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार दयाराम गुर्जर (जेसी-480215एक्स), 06 मार्च 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार धनश्याम सिंह (जेसी-480213एम), 22 फरवरी 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार मूल सिंह (जेसी-480214पी), 14 फरवरी 2010/13 जनवरी 2010

सूबेदार शीश राम गुर्जर (जेसी-479816डब्ल्यू), 22 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010

सूबेदार चतर सिंह गुर्जर (जेसी-480103एक्स), 01 फरवरी 2010

सूबेदार पूरन मल (जेसी-480132एम), 01 फरवरी 2010

सूबेदार विजय नारायण सिंह (जेसी-479992ए), 26 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010

सूबेदार भीम सिंह (जेसी-480047के), 12 मार्च 2010/07 फरवरी 2010

सूबेदार कुंवर बहादुर सिंह (जेसी-480226के), 22 फरवरी 2010/09 फरवरी 2010

सूबेदार कृष्णा कुमार सिंह (जेसी-480039), 25 मार्च 2010/10 फरवरी 2010

सूबेदार छोट्ट लाल गुर्जर (जेसी-480236एन), 02 जून 2010/18 फरवरी 2010

सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-480009एन), 01 मार्च 2010

सूबेदार देवी सिंह पतावत (जेसी-479967पी), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार आनन्द सिंह बीका (जेसी-479874ए), 09 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-480065एन), 13 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार शैलेन्द्रा सिंह (जेसी-480113एफ), 04 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार उज्जैन सिंह राघव (जेसी-480124एन), 22 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार अभिनन्दन सिंह (जेसी-480011एल), 09 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार ज्ञानेन्द्रा सिंह तनवर (जेसी-480020एम), 20 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार रोहतास (जेसी-480187डब्ल्यू), 14 मई 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार राम राज सिंह कुशवाह (जेसी-480131के), 21 मई 2010/01 अप्रैल 2010

सूबेदार भेरु सिंह सेना मेडल (जेसी-480004पी), 01 मई 2010

सूबेदार रामेश्वर सिंह गुर्जर (जेसी-479818एफ), 01 मई 2010

सूबेदार विनय कुमार चौहान (जेसी-479928डब्ल्यू), 01 मई 2010

सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-480147पी), 31 मई 2010/12 मई 2010

सूबेदार राम क्रिशन यादव (जेसी-480041एच), 01 जून 2010

सूबेदार शिव कुमार (जेसी-480144एफ), 08 जून 2010/01 जून 2010

सूबेदार रमेश सिंह तोमर (जेसी-480080एफ), 04 अगस्त 2010/01 जून 2010

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-480217एच), 01 जून 2010

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-480044डब्ल्यू), 30 जुलाई 2010/21 जून 2010

#### बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार केशव कुमार मिश्रा (सं. 4267328एच अब जेसी-560439एल), 27 सितम्बर 2010/01 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार सन्तिफलक्स मिन्ज (सं. 4268877एच अब जेसी-560440ए), 23 सितम्बर 2010/12 अप्रैल 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 12 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिरसा उराँव (सं. 4268238एफ अब जेसी-560441एच), 12 सितम्बर 2010/01 मई 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र मोहन झा (सं. 4267260ए अब जेसी-560442एल), 27 सितम्बर 2010/17 जुलाई 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 17 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार रबिन्द्र नाथ मुण्डा (सं. 4269553के अब जेसी-560443एन), 19 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार खेला राम हन्सदा (सं. 4268053ए अब जेसी-560444डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2010/23 अगस्त 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 23 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 4267201एन अब जेसी-560445वाई), 05 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अल्फर्ड तिकी (सं. 4266895एम अब जेसी-560446एफ), 29 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कौलेशवर यादव, सेना मेडल (सं. 4266904एच अब जेसी-560447के), 20 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 4266996ए अब जेसी-560448एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार बिश्वजीत प्रसाद सिंह (सं. 13619306पी अब जेसी-560449पी), 01 सितम्बर 2010

हवलदार रमेश सिंह (सं. 4267223एम अब जेसी-560450के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार सुरेश प्रसाद (सं. 4268293एक्स अब जेसी-560451एम), 01 अक्टूबर 2010/14 सितम्बर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 14 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार ज्योति कुमार पन्ना (सं. 4266470एन अब जेसी-560452पी), 28 सितम्बर 2010/15 सितम्बर 2010 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

एस. अशरफ  
अवर सचिव

## थल सेना मुख्यालय

सं. 123, दिनांक 14 फरवरी 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

## नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स  
मुम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार जीडी के रैंक में

हवलदार (जीडी) प्रताप सिंह (सं. 1577486पी अब जेसी-351601एम),  
27 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) तरसेम कुमार (सं. 1577743एफ अब जेसी-351602पी),  
21 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) निंबालकर राजकुमार सर्जेराव (सं. 1577827पी  
अब जेसी-351603एक्स), 20 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) अमरिक सिंह (सं. 1577867डब्ल्यू अब  
जेसी-351604ए), 24 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) संतोख सिंह (सं. 1578134के अब जेसी-351605एच),  
10 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) परमानंद सिंह (सं. 1578137एक्स अब  
जेसी-351606एल), 30 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) शिवराज सिंह (सं. 1578285एल अब  
जेसी-351607एन), 23 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) राम बहादुर प्रसाद (सं. 1578266के अब  
जेसी-351611डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) हरेंद्र मोहन राय (सं. 1578374एफ अब  
जेसी-351612वाई), 08 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) शेर अली (सं. 1578419डब्ल्यू अब जेसी-351613एफ),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) जाधव रोहिदास वंकट (सं. 1578429ए अब  
जेसी-351614के), 18 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) राज कुमार (सं. 1578461एक्स अब  
जेसी-351615एम), 04 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) सामंत भगवान सिंह (सं. 1578489पी अब  
जेसी-351616पी), 19 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मोहम्मद खुरशेद (सं. 1578490के अब  
जेसी-351617एक्स), 19 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) शर्मा चंद प्रकाश भजन लाल (सं. 1578510एम  
अब जेसी-351618ए), 18 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) राम शंकर (सं. 1578630एल अब जेसी-351619एच),  
09 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) अजित सिंह (सं. 1578702के अब जेसी-351620एक्स),  
22 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) कदम हनुमान भगवान राव (सं. 1578732एफ अब  
जेसी-351621ए), 25 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) कश्मिरा सिंह (सं. 1578172ए अब जेसी-351622एच),  
03 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) हंस राज (सं. 1578350के अब जेसी-351623एल),  
01 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) जसपाल सिंह (सं. 1578382ए अब जेसी-351624एन),  
03 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मोहम्मद जमीर खान (सं. 1578821ए अब  
जेसी-351625डब्ल्यू), 18 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सुभाष चंद्र (सं. 1578822एच अब जेसी-351628के),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मान सिंह (सं. 1578834एक्स अब  
जेसी-351629एम), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) करमजीत सिंह (सं. 1578977एक्स अब  
जेसी-351630एफ), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) श्री कृष्णा (सं. 1579004एन अब जेसी-351631के),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) ईदु खान मेवाती (सं. 1579068वाई अब  
जेसी-351632एम), 02 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) दिलबाग सिंह (सं. 1579148डब्ल्यू अब  
जेसी-351633पी), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (सं. 1579199के अब जेसी-351634एक्स),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) सालुंके सतीश सुदाम (सं. 1586777डब्ल्यू अब  
जेसी-351635ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) झाकिर हुसैन (सं. 1579366पी अब जेसी-351636एच),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मुखार सिंह (सं. 1579412वाई अब जेसी-351637एल),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) रावल सिंह (सं. 1579438एन अब जेसी-351638एन),  
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) नसरुल्लाह (सं. 1579507वाई अब जेसी-351639डब्ल्यू),  
06 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) गुरपाल सिंह (सं. 1575236पी अब जेसी-351573एल),  
05 जून 2010

हवलदार (जीडी) नांगरे संजय सीताराम (सं. 1576444डब्ल्यू अब  
जेसी-351574एन), 16 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) जाधव चंद्रकांत हनमंत (सं. 1577431एलअब  
जेसी-351575डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सतीश शिरस्त (सं. 15571286वाई अब  
जेसी-351576वाई), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) आशीष सिंह (सं. 15571287एफ अब  
जेसी-351577एफ), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) सरवन सिंह (सं. 1575013एक्स अब  
जेसी-351578के), 01 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) राजमल खान (सं. 1574062एन अब  
जेसी-351579एम), 08 सितम्बर 2010

हवलदार (जीडी) परमजीत सिंह (सं. 1572496पी अब  
जेसी-351580एफ), 03 सितम्बर 2010

हवलदार (जीडी) शिंदे दत्तु भाऊसाहेब (सं. 1576944एन अब  
जेसी-351581के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार (जीडी) इक्बाल मोहम्मद (सं. 1576976डब्ल्यू अब  
जेसी-351582एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मनजीत सिंह (सं. 1577270एन अब  
जेसी-351583पी), 08 सितम्बर 2010

हवलदार (जीडी) जसवंत सिंह (सं. 1577313एक्स अब  
जेसी-351584एक्स), 17 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) जसविंदर कुमार (सं. 1577748ए अब  
जेसी-351588एन), 24 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) नरहर सिंह (सं. 1577852एन अब जेसी-351589डब्ल्यू),  
16 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) राम अवतार (सं. 1577953एफ अब जेसी-351590एल),  
23 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) प्रेम दास (सं. 1578052एफ अब जेसी-351591एन),  
13 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) हसबे प्रकाश सुखदेव (सं. 1578803एक्स अब  
जेसी-351596एम), 02 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) भोसले महेंद्र मारुती (सं. 1578814के अब  
जेसी-351597पी), 03 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस डी) शिव कुमार सैनी (सं. 1582403एच अब  
जेसी-351598एक्स), 24 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) राजेंद्र सिंह (सं. 6389889एम अब  
जेसी-351599ए), 25 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) पवन सिंह (सं. 6389917एन अब  
जेसी-351600के), 18 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) देबेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 1581521के अब  
जेसी-351608डब्ल्यू), 20 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) डोकका अदरुसता राव (सं. 6931535डब्ल्यू  
अब जेसी-351626वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) विश्राम सिंह (सं. 6389918डब्ल्यू अब  
जेसी-351627एफ), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) कुम्भार बलवन्त दादु (सं. 1581381एच  
अब जेसी-351572एच), 15 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) करनैल सिंह (सं. 1582374वाई अब  
जेसी-351585ए), 07 अक्टूबर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) अयोध्या प्रसाद (सं. 6389883एल अब  
जेसी-351586एच), 07 अक्टूबर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) सुरिन्दर कुमार (सं. 6389884एन अब जेसी-351587एल), 21 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क एस डी) दिनेश कुमार (सं. 6931583डब्ल्यू अब जेसी-351592डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) बालचरित्र तिवारी (सं. 1582199पी अब जेसी-351593वाई), 01 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) राज बाहदुर सिंह (सं. 6389844एम अब जेसी-351594एफ), 06 नवम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क एस डी) जगदीश चन्द (सं. 1582635एफ अब जेसी-351595के), 01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हवलदार (एस के टी) पाटील लवहाजी शंकर (सं. 1587114एक्स अब जेसी-351609वाई), 12 नवम्बर 2010

हवलदार (एस के टी) ससीदरन के (सं. 1587262एच अब जेसी-351610एन), 15 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार छेनी राम बोरा (सं. 1479616डब्ल्यू अब जेसी-339248वाई), 13 सितम्बर 2010+

हवलदार महा सिंह (सं. 1480288ए अब जेसी-339249एफ), 05 अक्टूबर 2010++

हवलदार रनजीत कुमार सिंह (सं. 1481314एच अब जेसी-339250डब्ल्यू), 02 अगस्त 2010\$

हवलदार गुरशरणजीत सिंह (सं. 1481402वाई अब जेसी-339251वाई), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार ब्रिगेश सिंह (सं. 1481433वाई अब जेसी-339252एफ), 06 सितम्बर 2010%

हवलदार शाजी चाको (सं. 1578699पी अब जेसी-339253के), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार राकेश कुमार (सं. 1481608डब्ल्यू अब जेसी-339254एम), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार वलेंद्र कुमार सिंह (सं. 1481622एच अब जेसी-339255पी), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 1481625डब्ल्यू अब जेसी-339256एक्स), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार सुरेंद्र परिदा (सं. 1481668एल अब जेसी-339257ए), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार रंजय कुमार (सं. 1481703एच अब जेसी-339258एच), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार महिंदर सिंह (सं. 1481785डब्ल्यू अब जेसी-339259एल), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार अजब सिंह (सं. 1481792एम अब जेसी-339260ए), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार उदय भवन (सं. 1481803एन अब जेसी-339261एच), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार अंजनी कुमार सिंह (सं. 1481822वाई अब जेसी-339262एल), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार तजिंदर सिंह (सं. 1481830एक्स अब जेसी-339263एन), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार राम नरेश सिंह कुशवाह (सं. 1481895एल अब जेसी-339264डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार जोधा राम (सं. 1481898वाई अब जेसी-339265वाई), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार सुभासिस बेरा (सं. 1481920वाई अब जेसी-339266एफ), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार रमेश दत्त (सं. 1476829वाई अब जेसी-339267के), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार बलदेव सिंह संधु (सं. 1485437एम अब जेसी-339268एम), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 1491579ए अब जेसी-339269पी), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 1492998के अब जेसी-339270के), 01 सितम्बर 2010%

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार सुरज भान सिंह (सं. 1475802पी अब जेसी-339271एम), 18 सितम्बर 2010\*

हवलदार रमेश चंद (सं. 1484176एक्स अब जेसी-339272पी), 01 जुलाई 2010&

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 1483566एन अब जेसी-339273एक्स), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार प्रजापति महेंद्र कुमार (सं. 1483832एफ अब जेसी-339274ए), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार नवीन चंद्र पंडा (सं. 1483745एन अब जेसी-339275एच), 01 सितम्बर 2010%

हवलदार जनार्दन यादव (सं. 1483868ए अब जेसी-339276एल), 01 सितम्बर 2010%

- हवलदार अभमहेब मंगावति (सं. 1483561पी अब जेसी-339277एन),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार शैलेंद्र कुमार (सं. 1483965एक्स अब जेसी-339278डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार शिव परकाश ध्यानी (सं. 1483976के अब जेसी-339279वाई),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार राम निवास (सं. 1484112एम अब जेसी-339280एन),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार कल्याण राम लबाद (सं. 1484277एल अब जेसी-339281डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2010%
- नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में
- हवलदार सुफल तरपदार (सं. 1481452के अब जेसी-339282वाई),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार बलवान सिंह (सं. 1479352ए अब जेसी-339283एफ),  
01 सितम्बर 2010%
- हवलदार लक्षमण सिंह (सं. 1479268ए अब जेसी-339284के),  
04 सितम्बर 2010%
- हवलदार दिपुल बरूआ (सं. 1479348एक्स अब जेसी-339285एम),  
04 सितम्बर 2010%
- हवलदार निर्मल सिंह (सं. 1488034एक्स अब जेसी-339286पी),  
04 सितम्बर 2010%
- हवलदार हरीनारायण सिंह (सं. 1479389एफ अब जेसी-339287एक्स),  
06 सितम्बर 2010%
- \*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009)
- +(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)
- &(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)
- ++(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 जुलाई 2010)
- \$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010)
- %(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)
- हवलदार संतोषी पी सी (सं. 1491259एल अब जेसी-339196एन),  
07 जुलाई 2010%
- हवलदार विरेंद्र स्वरूप (सं. 1479223ए अब जेसी-339197डब्ल्यू),  
26 अगस्त 2010§
- हवलदार निर्मल मजुमदार (सं. 1493174एन अब जेसी-339198वाई),  
01 जुलाई 2010%
- हवलदार मोहन चंद्रा भट्ट (सं. 1475833पी अब जेसी-339199एफ),  
29 जून 2010\*
- हवलदार गोपाल चंद्रा दास (सं. 1478375पी अब जेसी-339200एल),  
28 मई 2010\*
- हवलदार शेषनाथ सिंह कुसवाहा (सं. 1479767पी अब जेसी-339201एन),  
06 जून 2010&
- हवलदार कुलविंदर राय (सं. 1480524डब्ल्यू अब जेसी-339202डब्ल्यू),  
03 जुलाई 2010^
- हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 1577112वाई अब जेसी-339203वाई),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार रजनीकांत सिंह (सं. 1480117एन अब जेसी-339204एफ),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार देवेंद्र सिंह (सं. 1480121डब्ल्यू अब जेसी-339205के),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 1480240एम अब जेसी-339206एम),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार महिपाल सिंह (सं. 1480306एक्स अब जेसी-339207पी),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार अनंत पाटिल (सं. 1480370पी अब जेसी-339208एक्स),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार शिव प्रसाद (सं. 1480546पी अब जेसी-339209ए),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार एम डी मुस्तफा अमनुल्ल्या (सं. 1480592के अब  
जेसी-339210पी), 06 जुलाई 2010#
- हवलदार रोमक सिंह हरिजन (सं. 1480650एच अब जेसी-339211एक्स),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार मथुरा प्रसाद कुशवाहा (सं. 1480689पी अब जेसी-339212ए),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार हरविंदर पाल सिंह (सं. 1480763एल अब जेसी-339213एच),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार मेखला विलास बाबू राव (सं. 1480968ए अब  
जेसी-339214एल), 01 जुलाई 2010#
- हवलदार पुंजारमण सिंह अमर सिंह (सं. 1480995के अब  
जेसी-339215एन), 01 जुलाई 2010#
- हवलदार खीम सिंह (सं. 1481014एफ अब जेसी-339216डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2010#
- हवलदार कमला प्रसाद (सं. 1481025एन अब जेसी-339217वाई),  
02 अगस्त 2010#
- हवलदार प्रमोद कुमार शर्मा (सं. 1481026डब्ल्यू अब जेसी-339218एफ),  
23 जुलाई 2010#



हवलदार अमरनाथ पाल (सं. 1481036ए अब जेसी-339219के),  
20 जुलाई 2010#

हवलदार नफीश अहमद (सं. 1481048पी अब जेसी-339220वाई),  
24 जुलाई 2010#

हवलदार योगेंद्र सिंह चौहान (सं. 1481070ए अब जेसी-339221एफ),  
01 अगस्त 2010#

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 1481125वाई अब जेसी-339222के),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार कमलजीत सिंह (सं. 1481135एच अब जेसी-339223एम),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार हुकम सिंह राजपुत (सं. 1481163पी अब जेसी-339224पी),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार शिव प्रकाश सिंह (सं. 1481201ए अब जेसी-339225एक्स),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार निर्मल चंद्र डकुआ (सं. 1481247एच अब जेसी-339226ए),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार मंगल बासुमतारी (सं. 1481249एन अब जेसी-339227एच),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार सुरेश चंद्र (सं. 1481307एम अब जेसी-339228एल),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार संतोष कुमार (सं. 1481345एच अब जेसी-339229एन),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 1481368के अब जेसी-339230एच),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार राम चंद्र यादव (सं. 1481388एक्स अब जेसी-339231एल),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार महिमन सिंह थापा (सं. 1481393एच अब जेसी-339232एन),  
12 अगस्त 2010@

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार शेख शमशीर हुसैन (सं. 1482857एफ अब  
जेसी-339233डब्ल्यू), 22 जून 2010++

हवलदार राम बचन सिंह यादव (सं. 1483865एम अब  
जेसी-339234वाई), 01 जुलाई 2010#

हवलदार सुबे सिंह (सं. 1484592एफ अब जेसी-339235एफ),  
04 जुलाई 2010#

हवलदार इंद्रजीत मंडल (सं. 1484571एल अब जेसी-339236के),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार तेज पाल सिंह (सं. 1484705वाई अब जेसी-339237एम),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार सुरेश कुमार केपी (सं. 1484808एक्स अब जेसी-339238पी),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार तेज राम (सं. 1483521एन अब जेसी-339239एक्स),  
07 जुलाई 2010#

हवलदार मुकुंदा नायक (सं. 1484568एल अब जेसी-339240एम),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार सुधीर कुमार (सं. 1484710के अब जेसी-339241पी),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार राजेश कुमार (सं. 1483390एन अब जेसी-339242एक्स),  
01 जुलाई 2010#

हवलदार तिलक राम (सं. 1484921एम अब जेसी-339243ए),  
02 अगस्त 2010@

हवलदार विधाता राम द्विवेदी (सं. 1477000के अब जेसी-339244एच),  
01 अगस्त 2010@

हवलदार करनल सिंह सिख (सं. 1483163एन अब जेसी-339245एल),  
02 अगस्त 2010@

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हवलदार सुभान अली (सं. 1483455डब्ल्यू अब जेसी-339246एन),  
02 अगस्त 2010@

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार नरेंद्र सिंह भण्डारी (सं. 1477709एम अब जेसी-339247डब्ल्यू),  
02 अगस्त 2010@

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 30 जनवरी 2010)

++(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 मार्च 2010)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2010)

^(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 18 जून 2010)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010)

अलका जोशी  
अवर सचिव

## वित्त प्रभाग

सं. 124, दिनांक 15 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अनुभाग अधिकारी, श्री दीपक भम्बानी के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2011 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

पी एल जलवा

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

## थल सेना विभाग

सं. 125, दिनांक 15 फरवरी 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

समयपूर्व निवृत्ति

(डीआर-10355वाई) कर्नल (टीएस) गीता अरोड़ा, 10 अप्रैल 2010 (सायं)

(डीआर-10361एम) कर्नल एस के ओझा, 31 अगस्त 2010 (सायं)

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

## सेना शाखा

सं. 126, दिनांक 15 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी काटे (क्लास X) अधीन एस ए आई 10/एस/63 यथा संशोधित में स्थानान्तरित करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आईसी-42426) ले कर्नल संजीव कलोटी, सिग्नल्स, 17 अक्टूबर 2009 (अप)

(आईसी-48894) ले कर्नल प्रतीक भार्गव, सिग्नल्स, 21 सितम्बर 2009 (अप)

(आईसी-46504) ले कर्नल संजय मेहरोत्रा, सिग्नल्स, 31 अक्टूबर 2009 (अप)

(आईसी-53256) ले कर्नल अब्दुल हुस्सैन कुमार, सिग्नल्स, 15 नवम्बर 2009 (अप)

(आईसी-46377) ले कर्नल विक्रमजीत सिंह गरेवाल, एसी, 21 सितम्बर 2009 (अप)

(आईसी-49101) ले कर्नल गौरव खन्ना, सिग्नल्स, 05 जून 2010 (अप)

(आईसी-49842) ले कर्नल चन्दन वत्स, इंजीनियर्स, 02 अगस्त 2010 (अप)

(आईसी-44108) ले कर्नल संजीव एस राठौर, ईएमई, 31 अगस्त 2010 (अप)

(आईसी-48826) ले कर्नल अनुज रावत, इन्फैन्ट्री, 26 अगस्त 2010 (अप)

(आईसी-49290) ले कर्नल रमन प्रसाद ईमानी, एसएम इन्फैन्ट्री, 31 जुलाई 2010 (अप)

(आईसी-49225) ले कर्नल शान्तोनु बनर्जी, एसी, 14 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-58564) मेजर एम वी सूरज, वी आर सी ई एम ई, 03 अप्रैल 2010 (अप)

(आईसी-46027) ले कर्नल चरन प्रीत सिंह बेदी, एएडी, 14 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-48859) ले कर्नल जितेन्द्र कुमार मिश्रा, आर्टी, 08 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-54832) ले कर्नल दानिएल वर्घीस, इन्फैन्ट्री, 14 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-43351) ले कर्नल अमिताभ नन्दी, आर्टी, 23 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-47244) ले कर्नल प्रकाश कुमार रूखियार, आर्टी, 14 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-49150) ले कर्नल दिसोज कुमार फरशवाल, आर्टी, 03 अक्टूबर 2010 (अप)

(आईसी-47649) ले कर्नल जसप्रीत सिंह बब्बर, आर्टी, 22 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-44715) ले कर्नल नरिन्दर बहल, मेक इन्फैन्ट्री, 18 सितम्बर 2010 (पूर्व)

(आईसी-49866) ले कर्नल गोर्धी एन वी आर एस हरनाथ, ईएमई, 30 सितम्बर 2010 (अप)

(आईसी-50669) ले कर्नल मलय संकर पाल, ईएमई, 10 अक्टूबर 2010 (अप)

(आईसी-48958) ले कर्नल अतुल गुप्ता, एसी, 08 सितम्बर 2010 (पूर्व)

(आईसी-44677) ले कर्नल भूपेश महेश पाठक, एएडी, 02 अक्टूबर 2010 (अप)

(आईसी-41990) ले कर्नल अजय सिंह रजावत, एसी, 01 नवम्बर 2010 (पूर्व)

(आईसी-46412) ले कर्नल विनीत प्रसाद, आर्टी, 12 अक्टूबर 2010 (अप)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

(डीएस-12167डब्ल्यू) मेजर राजकुमार एस, 09 जुलाई 2010 (सायं)

(डीएस-12144पी) मेजर के सैथिल कुमार, 09 जुलाई 2010 (सायं)

(डीएस-12171वाई) मेजर सैथिल कुमार आर, 06 अक्टूबर 2010 (सायं)

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल  
अपर डीजीडीएस

थल सेना विभाग

सं. 127, दिनांक 17 फरवरी 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

निवृत्ति

(डीएस-12135एन) मेजर गौरव गर्ग, 08 मार्च 2010 (सायं)

(डीएस-12014एम) मेजर विकास सहगल, 19 अप्रैल 2010 (सायं)

(डीएस-12151एल) मेजर रवि भट्ट, 17 मई 2010 (सायं)

(डीएस-12139के) मेजर एच एन राठौड़, 26 जून 2010 (सायं)

सं. 127, दिनांक 17 फरवरी 2011--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

बर्खास्त किया जाता है

मेजर एस डी शर्मा (टीए-42283), इन्फैन्ट्री, 23 नवम्बर 2008

मेजर जयंता लाल (टीए-42570), इन्फैन्ट्री, 09 जनवरी 2009

मेजर अखिल श्रीवास्तव (टीए-42498), इन्फैन्ट्री, 08 जून 2010

मेजर जे पी एस जडेजा, एस सी (टीए-42437), इन्फैन्ट्री, 24 जून 2010

ले अनिल कुंडू (टीए-42517), इन्फैन्ट्री, 29 जून 2010

मेजर अर्पण आनंद (टीए-42591), इन्फैन्ट्री, 16 अगस्त 2010

जय राज  
उप सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd April 2011

PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2011

No. 14—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Param Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-23375 LIEUTENANT GENERAL KAPILESWAR PRASAD DHAL SAMANTA, AVSM, VSM REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
2. IC-24652 LIEUTENANT GENERAL RAJ KUMAR KARWAL, AVSM, BAR TO SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER DIRECTORATE GENERAL NATIONAL CADET CORPS
3. IC-24656 LIEUTENANT GENERAL PRADEEP KHANNA, AVSM, VSM, AIDE-DE-CAMP, ARMoured CORPS / HEADQUARTER SOUTHERN COMMAND
4. IC-24718 LIEUTENANT GENERAL PREM KRISHAN GOEL, AVSM, VSM REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
5. IC-25066 LIEUTENANT GENERAL ARVINDER SINGH LAMBA, AVSM, REGIMENT OF ARTILLERY
6. IC-25135 LIEUTENANT GENERAL VISHNU KANT CHATURVEDI, AVSM, SM, REGIMENT OF ARTILLERY
7. IC-25156 LIEUTENANT GENERAL JASWINDER PAL SINGH, AVSM, ARMoured CORPS
8. IC-25189 LIEUTENANT GENERAL GAUTAM BANERJEE, AVSM, YSM, CORPS OF ENGINEERS / OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI
9. IC-25408 LIEUTENANT GENERAL MAHESH CHANDER BHADANI, VSM, CORPS OF ENGINEERS
10. IC-25442 LIEUTENANT GENERAL SWATANTARTA NAND HANDA, AVSM, VSM, INFANTRY

11. IC-25562 LIEUTENANT GENERAL PARTHA MOHAPATRA, AVSM, AIDE-DE-CAMP, CORPS OF SIGNALS
12. IC 25646 LIEUTENANT GENERAL VIRENDER SINGH TONK, AVSM, INFANTRY
13. IC-27026 LIEUTENANT GENERAL PRAKASH MENON, AVSM, VSM, INFANTRY / NATIONAL DEFENCE COLLEGE
14. IC-27034 LIEUTENANT GENERAL JASBIR SINGH, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND
15. IC-32782 LIEUTENANT GENERAL BALLACHANDA KUTTAPPA CHENGAPA, AVSM, INFANTRY (RETIRED)
16. IC-32844 LIEUTENANT GENERAL RAM PRATAP, AVSM, VSM, CORPS OF ARMY AIR DEFENCE
17. MR-03434 LIEUTENANT GENERAL HIRA LAL KAKRIA, AVSM, BAR TO VSM, ARMY MEDICAL CORPS
18. MR-03831 LIEUTENANT GENERAL DEVENDER PAUL VATS, SM, VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE, PUNE
19. DR-10270 LIEUTENANT GENERAL SURRENDER BHUSHAN SEHAJPAL, AVSM, VSM, ARMY DENTAL CORPS
20. VICE ADMIRAL ANUP SINGH, AVSM, NM (01424-K
21. VICE ADMIRAL D K DEWAN, AVSM, (01396-Y)
22. VICE ADMIRAL DEVENDRA KUMAR JOSHI, AVSM, YSM, NM, VSM (01507-Z)
23. AIR MARSHAL NIRDOSH VATSYAYAN TYAGI AVSM VM VSM (12765) FLYING (PILOT)
24. AIR MARSHAL SUMIT MUKERJI SC VSM (12925) FLYING (PILOT)
25. AIR MARSHAL PARAMJIT SINGH BHANGU AVSM-VM (12932) FLYING (PILOT) (RETIRED)

26. AIR MARSHAL KISHAN KUMAR NOHWAR VM (13132) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL GURDIP SINGH KOCHAR AVSM VM (13149) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL PUTHIYAVEETIL MADHUSOODANAN AVSM VSM (29428) MEDICAL (RETIRED)

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 15—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Uttam Yuddh Seva Medal**” to the undermentioned personnel for the distinguished service of an exceptional order during hostilities:

1. IC-27203 LIEUTENANT GENERAL SHRI KRISHNA SINGH, AVSM, INFANTRY / HEADQUARTER 14 CORPS
2. IC-27215 LIEUTENANT GENERAL NAND KISHORE SINGH, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 3 CORPS
3. IC-27645 LIEUTENANT GENERAL RAMESHWAR ROY, AVSM, YSM, INFANTRY / HEADQUARTER 16 CORPS
4. IC-27972 LIEUTENANT GENERAL GYAN BHUSHAN, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 4 CORPS

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 16—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Ati Vishisht Seva Medal” to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-25833 LIEUTENANT GENERAL GOVINDA MOHAN NAIR, SM, VSM, INFANTRY
2. IC-25836 LIEUTENANT GENERAL HARINDER PAL SINGH KLAIR, SM, INFANTRY / DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE
3. IC-25909 LIEUTENANT GENERAL VINOD KUMAR SHARMA  
CORPS OF SIGNALS / MILITARY COLLEGE OF  
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
4. IC-27616 LIEUTENANT GENERAL KONGARA SURENDRA NATH, VSM, MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTER 10 CORPS
5. IC-27667 LIEUTENANT GENERAL KAMAL MOHEY  
ARMY SERVICE CORPS / ARMY SERVICE CORPS CENTRE AND  
COLLEGE
6. IC-27701 LIEUTENANT GENERAL DALBIR SINGH SIDHU, VSM, ARMOURED CORPS / HEADQUARTER 33 CORPS
7. IC-27967 LIEUTENANT GENERAL SURINDER PAL SINGH, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY
8. IC-30010 LIEUTENANT GENERAL DIGVIJAY SINGH THAKUR, INFANTRY / HEADQUARTER 15 CORPS
9. IC-30068 LIEUTENANT GENERAL SURENDRA PRATAP TANWAR, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER UTTAR BHARAT AREA
10. IC-30516 LIEUTENANT GENERAL KULDIP SINGH  
ARMY AIR DEFENCE / ARMY AIR DEFENCE COLLEGE
11. MR-03435 LIEUTENANT GENERAL BHAGIRATH SINGH RATHORE, VSM ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)

12. IC-25511 MAJOR GENERAL BRAJESH KUMAR, VSM,  
CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
13. IC-27978 MAJOR GENERAL ARUN SINGH CHAND, CORPS OF  
ENGINEERS
14. IC-30710 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR MISRA REGIMENT OF  
ARTILLERY / HEADQUARTER EASTERN COMMAND
15. IC-30723 MAJOR GENERAL ASHOK SINGH, SM, VSM,  
INFANTRY / HEADQUARTER 12 INFANTRY DIVISION
16. IC-30892 MAJOR GENERAL YASHPAL SINGH RAWAT, SM,  
INFANTRY
17. IC-31011 MAJOR GENERAL VINOD KUMAR NAIK, KC,  
INFANTRY / HEADQUARTER 6 MOUNTAIN DIVISION
18. IC-31052 MAJOR GENERAL SHAKTI GURUNG, VSM, INFANTRY /  
HEADQUARTER 57 MOUNTAIN DIVISION
19. IC-31324 MAJOR GENERAL KOTHENETH SURENDRANATH, SM,  
VSM, ARMoured CORPS / HEADQUARTER 26 INFANTRY  
DIVISION
20. IC-31351 MAJOR GENERAL RAJ NANDAN SINGH, SM, VSM,  
INFANTRY / HEADQUARTER 56 INFANTRY DIVISION
21. IC-31705 MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, SM, VSM,  
INFANTRY / INSPECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
22. IC-31739 MAJOR GENERAL CHANGALI ANANDA KRISHNAN  
INFANTRY / INSPECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES (SOUTH)
23. IC-31962 MAJOR GENERAL VIJAI PRAKASH SHRIVASTAVA  
CORPS OF SIGNALS
24. IC-33235 MAJOR GENERAL DEEPINDER SINGH, SM, VSM,  
ARMoured CORPS (RETIRED)
25. IC-34003 MAJOR GENERAL MAN MOHAN SINGH RAI, VSM,  
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTER COUNTER  
INSURGENCY FORCE (UNIFORM)
26. IC-34019 MAJOR GENERAL DEEPENDRA SINGH HOODA, BAR TO  
VSM, INFANTRY/HEADQUARTER 57 MOUNTAIN DIVISION



27. IC-36119 MAJOR GENERAL SURESH KUMAR KHAJURIA, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 8 MOUNTAIN DIVISION
28. IC-36269 MAJOR GENERAL ANIL SINGH NANDAL, SM, INFANTRY / HEADQUARTER COUNTER INSURGENCY FORCE (VICTOR)
29. IC-36294 MAJOR GENERAL NAVTEJ SINGH BAWA, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER COUNTER INSURGENCY FORCE (DELTA)
30. MR-04133 MAJOR GENERAL BHUSHAN KUMAR CHOPRA ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
31. DR-10309 MAJOR GENERAL SUSHANTA KARKUN ARMY DENTAL CORPS / HEADQUARTER EASTERN COMMAND
32. MR-03856 BRIGADIER VELU NAIR, BAR TO VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
33. REAR ADMIRAL RAVINDER KHANNA, VSM, (50514-B) (RETIRED)
34. REAR ADMIRAL SUNIL LANBA, (01823-T)
35. REAR ADMIRAL RAHUL KUMAR SHRAWAT, (50570-F)
36. REAR ADMIRAL RAMA KANT PATTANAIK, YSM (01860-A)
37. REAR ADMIRAL MICHAEL TITUS MORAES, (01888-R)
38. REAR ADMIRAL PARASURAM NAIDU MURUGESAN, VSM, (01958-Z)
39. REAR ADMIRAL VIJAYA KUMAR NAMBALLA, NM, (40689-Z)
40. AIR MARSHAL DALJIT SINGH VM (14553) FLYING (PILOT)
41. AIR MARSHAL JAGDISH CHANDRA VSM (14613) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
42. AIR VICE MARSHAL RAVI KANT SHARMA VM (14088) FLYING (PILOT)
43. AIR VICE MARSHAL NAVIN RATTAN VSM (14242) MEDICAL
44. AIR VICE MARSHAL AZEEZ JAVEED VSM (14386) ADMINISTRATION

45. AIR VICE MARSHAL AMIT ANEJA VM VSM (14668) FLYING (PILOT)
46. AIR VICE MARSHAL NAGINDER MOHAN VAISHNAVI VSM (14822), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
47. AIR VICE MARSHAL SUBHASH CHANDER LUTHRA VSM (15105) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
48. AIR VICE MARSHAL SHIRISH BABAN DEO VM VSM (15681) FLYING (PILOT)
49. AIR COMMODORE SHYAM BIHARI PRASAD SINHA VM (16053) FLYING (PILOT)
50. AIR COMMODORE HARJIT SINGH ARORA (16557) FLYING (PILOT)
51. AIR COMMODORE ARJUN SUBRAMANIAM (16592) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 17—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Yuddh Seva Medal” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-40364 BRIGADIER GAJENDRA PRASAD, VSM, DOGRA REGIMENT/ HEADQUARTER 9 SECTOR ASSAM RIFLES
2. IC-40421 BRIGADIER SANJAY KUMAR BHANOT RAJPUT REGIMENT / HEADQUARTER 26 SECTOR ASSAM RIFLES
3. IC-46832 COLONEL AMAR RAMDASANI GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-50275 COLONEL VIKRAM SINGH CHAUHAN PARACHUTE REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 18—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-31118 MAJOR GENERAL BALVINDER SINGH SACHAR, SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER 2 MOUNTAIN DIVISION
2. IC-34385 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR AHUJA, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 19—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-25839 LIEUTENANT GENERAL BALJEET SINGH REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-30702 LIEUTENANT GENREAL PHILIP CAMPOSE MECHANISED INFANTRY/HEADQUARTER STRATEGIC FORCES COMMAND
3. IC-27945 MAJOR GENERAL TAJUDDIN MOULALI MHAISALE, ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING / HEADQUARTER TECHNICAL GROUP ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING
4. IC-30143 MAJOR GENERAL ARUN KUMAR CHADHA, SM, CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTER INTEGRATED DEFENCE STAFF
5. IC-30327 MAJOR GENERAL INDERPAL SINGH ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS ARMY TRAINING COMMAND
6. IC-31012 MAJOR GENERAL YOHANNAN CHACKO THARAKAN, CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
7. IC-31087 MAJOR GENERAL RASQUINHA NEVILLE MARK INFANTRY
8. IC-31131 MAJOR GENERAL POLLATH VAKAYIL KRISHNA KUMAR MENON, ARMY ORDNANCE CORPS
9. IC-31134 MAJOR GENERAL GAUTAM MOORTHY ARMY ORDNANCE CORPS

10. IC-31323 MAJOR GENERAL SANJEEV MADHOK  
INFANTRY / HEADQUARTER 18 INFANTRY DIVISION
11. IC-31341 MAJOR GENERAL SANJEEV ANAND  
MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTER 5 MOUNTAIN  
DIVISION
12. IC-31505 MAJOR GENERAL SUBROTO MITRA, SM  
INFANTRY/SELECTION CENTRE SOUTH
13. IC-31653 MAJOR GENERAL ANIL KUMAR BHALLA  
ARMoured CORPS / HEADQUARTER 31 ARMoured DIVISION
14. IC-35036 MAJOR GENERAL NITIN KUMAR KOHLI  
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTER ANDHRA, TAMIL NADU,  
KERALA AND KARNATAKA AREA
15. IC-35874 MAJOR GENERAL CHINNAN SREE KUMAR NAIR  
JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
16. MR-03954 MAJOR GENERAL MOHAN PRALHADRAO  
MUTTAGIKAR, ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTER  
EASTERN COMMAND
17. DR-10288 MAJOR GENERAL MAHESH CHANDER, ARMY  
DENTAL CORPS
18. IC-34605 MAJOR GENERAL RAKESH SHARMA, 11 GORKHA  
RIFLES / HEADQUARTER 10 CORPS
19. IC-34971 BRIGADIER R SUBRAMANIAM, CORPS OF SIGNALS /  
MILITARY COLLEGE OF TELECOMMUNICATION ENGINEERING
20. IC-35171 BRIGADIER RAJBIR SINGH, 3 GORKHA RIFLES /  
HEADQUARTER PUNE SUB AREA
21. IC-35210 BRIGADIER BASANT KUMAR DHINGRA, SM,  
REGIMENT OF ARMY AIR DEFENCE / ARMY AIR DEFENCE  
CENTRE
22. IC-35789 BRIGADIER RANJIT SINGH, ARMY EDUCATION CORPS  
/SAINIK SCHOOLS SOCIETY
23. IC-37793 BRIGADIER NAVNEET KHANNA, JUDGE ADVOCATE  
GENERAL DEPARTMENT / HEADQUARTER EASTERN  
COMMAND
24. IC-38673 BRIGADIER MANJEET MEHTA, SM, JAMMU AND  
KASHMIR RIFLES / HEADQUARTER 82 MOUNTAIN BRIGADE

25. IC-39437 BRIGADIER SHASHANK TARAKANT UPASANI, SM, JAT REGIMENT / HEADQUARTER 21 SECTOR ASSAM RIFLES
26. IC-39441 BRIGADIER RAJBIR SINGH, PARACHUTE REGIMENT / HEADQUARTER 15 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
27. IC-39465 BRIGADIER AMARJEET SINGH BEDI, GARHWAL RIFLES / HEADQUARTER 5 MOUNTAIN BRIGADE
28. IC-39492 BRIGADIER ANIL CHAUHAN, 11 GORKHA RIFLES / HEADQUARTER 59 MOUNTAIN BRIGADE
29. IC-39930 BRIGADIER VINOD PRAKASH SINGH BHAKUNI DOGRA REGIMENT / HEADQUARTERS 9 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
30. IC-40948 BRIGADIER KALISIPUDI RAVI PRASAD, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER 21 MOUNTAIN ARTILLETY BRIGADE
31. IC-41753 BRIGADIER MANGAL MURTI MASUR, REGIMENT OF ARTILLERY / NEHRU INSTITUTE OF MOUNTAINEERING, UTTARKASHI
32. MR-03915 BRIGADIER VENKATARAMAN RAVISHANKAR ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL (CTC) PUNE
33. MR-03994 BRIGADIER ANUPAM SAHA ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
34. MR-03998 BRIGADIER GOURI SHANKAR RAMESH ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
35. MR-04767 BRIGADIER KRISHNA VENKATESH BALIGA ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL, SOUTHERN COMMAND
36. MR-05230 BRIGADIER YOGENDRA KUMAR ARORA ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
37. NR-15556 BRIGADIER HARJINDER BHULLAR MILITARY NURSING SERVICE / HEADQUARTER SOUTH WESTERN COMMAND

38. IC-41224 BRIGADIER GURINDER PAL SINGH SANDHU,  
MAHAR REGIMENT / HEADQUARTER 'N' AREA
39. IC-37648 COLONEL SUDHIR KUMAR TIWARI, 162 INFANTRY  
BATTALION (TERRITORIAL ARMY), JAMMU AND KASHMIR  
LIGHT INFANTRY
40. IC-37865 COLONEL SANAL SURESH KUMAR  
MADRAS REGIMENT / 15 CORPS BATTLE SCHOOL
41. IC-42771 COLONEL SANJAY SINGH, SM  
PARACHUTE REGIMENT
42. IC-43266 COLONEL ROMESH CHANDER KHAJURIA  
ASSAM REGIMENT / ASSAM REGIMENTAL CENTRE
43. IC-43285 COLONEL DEVENDRA PRATAP PANDEY  
SIKH LIGHT INFANTRY
44. IC-45556 COLONEL RAJEEV PANWAR  
1 GORKHA RIFLES / 12 ASSAM RIFLES
45. IC-45963 COLONEL VINEET SETH, PARACHUTE REGIMENT /  
PARACHUTE REGIMENT TRAINING CENTRE
46. IC-46761 COLONEL DEEPAK SHARMA  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
47. IC-46798 COLONEL RAJENDRA KUMAR, SM  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
48. IC-46889 COLONEL SUKHMEET SINGH, BAR TO SHAURYA  
CHAKRA, REGIMENT OF ARTILLERY / 3 ASSAM RIFLES
49. IC-49082 COLONEL AMIR SINGH  
12<sup>TH</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
50. IC-49117 COLONEL SS BHOGAL  
KUMAON REGIMENT / 23 ASSAM RIFLES
51. IC-50009 COLONEL SARTAJ DHILLON  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
52. IC-50099 COLONEL INDERDEEP SINGH BHALLA  
MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES
53. IC-50104 COLONEL DINESH SINGH BISHT, SM, MARATHA  
LIGHT INFANTRY / HEADQUARTER SOUTHERN COMMAND

54. IC-50556 COLONEL AJIT KUMAR BORAH  
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
55. IC-50864 COLONEL SARVESH SHARMA  
KUMAON REGIMENT / 46 ASSAM RIFLES
56. IC-50880 COLONEL AJOY MUKHERJEE, BAR TO SM,  
PARACHUTE REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES
57. IC-51395 COLONEL R SHANMUGA SUNDARAM, SM, 601  
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING BATTALION
58. IC-51706 COLONEL VINOD S, SM  
MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES
59. IC-51948 COLONEL PARANVIR SINGH PUNIA, SM  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
60. IC-51949 COLONEL MANISH SINHA  
SIKH LIGHT INFANTRY / 21 ASSAM RIFLES
61. IC-52349 COLONEL C KARTIK SESHADRI  
4/8 GORKHA RIFLES
62. MR-04427 COLONEL RAKESH KUMAR  
ARMY MEDICAL CORPS / 92 BASE HOSPITAL
63. MR-05143 COLONEL ANURAG KHANNA  
ARMY MEDICAL CORPS / 153 GENERAL HOSPITAL
64. MR-05515 COLONEL BHUPESH KUMAR GOYAL, ARMY  
MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH AND  
REFERRAL)
65. MR-05531 COLONEL SANDEEP THAREJA, ARMY MEDICAL  
CORPS / COMMAND HOSPITAL, WESTERN COMMAND
66. SL-02742 COLONEL PUTHIYA KOVILAKATH MURALIDHARAN  
RAJA, SM, ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS
67. IC-48812 LIEUTENANT COLONEL BHAVIK KAUL  
202 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
68. IC-55450 LIEUTENANT COLONEL SANJAY KUMAR  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT

69. MR-06262 LIEUTENANT COLONEL PANKAJ TALWAR, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH AND REFERRAL)
70. MR-06517 LIEUTENANT COLONEL RAVINDRA KUMAR ANADURE, ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
71. MR-06551 LIEUTENANT COLONEL ANUJ KUMAR SHARMA ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
72. MR-08541 CAPTAIN AMIT PANDEY ARMY MEDICAL CORPS / KUMAON SCOUTS
73. JC-588171 SUBEDAR CHHEWANG MUTUP 3 LADAKH SCOUTS
74. 9923885 HAVILDAR SONAM PALJOR 3 LADAKH SCOUTS
75. SURGEON REAR ADMIRAL MANISHA JAIPRAKASH, (75986-W)
76. COMMODORE VIPAN KUMAR WADHWA, (40739-N)
77. COMMODORE JASVINDER SINGH MANN, NM, (50701-B)
78. COMMODORE HARPHOOL SINGH, (50743-Z)
79. COMMODORE MAHITOSH MISRA, (70201-Y) (RETIRED)
80. COMMODORE G ASHOK KUMAR, (02470-N)
81. COMMODORE AJENDRA BAHADUR SINGH, (02619-A)
82. COMMODORE MS CHANDRA SHEKHAR, (02625-R)
83. COMMODORE SATYANARAYANA ALAMANDA, (41192-T)
84. CAPTAIN AJAY VINAY BHAVE, (03030-K)
85. SURGEION CAPTAIN KHALIL ISAAC MATHAI, (75298-F)
86. SURGEON CAPTAIN CHANDU SUDEEP NAIDU, (75343-H)
87. CAPTAIN ANTONY GEORGE, NM, (03182-F)
88. CAPTAIN PAVAN CHAUHAN, (03378-A)
89. COMMANDER AN SATISH, (03955-N),
90. YASHWANT RAI, MCME II, (163455-R)



91. AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR GAGNEJA (14544)  
ACCOUNTS
92. AIR COMMODORE HERIKUDRU BABU RAJARAM (14939)  
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
93. AIR COMMODORE PRADEEP MALLAPPA KATTI (15005) FLYING  
(PILOT)
94. AIR COMMODORE MILAN RAMLALJI AHIR (15267)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
95. AIR COMMODORE ROHIT BHALLA (15591)  
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
96. AIR COMMODORE GILES GOMEZ (16527) MEDICAL
97. AIR COMMODORE MICHAEL FERNANDEZ VM (16967) FLYING  
(PILOT)
98. AIR COMMODORE SANJAY NIMESH (17862) FLYING (PILOT)
99. GROUP CAPTAIN EDAVAN PULIACHERETH PADMARAJ  
NAMBIAR (16886) ACCOUNTS
100. GROUP CAPTAIN LOVEMEET SINGH BACHHER (16995) FLYING  
(PILOT)
101. GROUP CAPTAIN NITIN SHANKAR  
VAIDYA(17208)ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
102. GROUP CAPTAIN VINOD KUMAR (17430)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
103. GROUP CAPTAIN MUSUNURI DURGA NAGESWARA PRASAD  
(17741) ADMINISTRATION
104. GROUP CAPTAIN PUSHPENDRA KUMAR (18002)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
105. GROUP CAPTAIN SHIV RATAN SINGH VM (18083) FLYING  
(PILOT)
106. GROUP CAPTAIN VIVEK PILLAI (18217)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
107. GROUP CAPTAIN SANJAY KUMAR PANDEY (18477)  
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

108. GROUP CAPTAIN ASHUTOSH DIXIT VM (18558) FLYING (PILOT)
109. GROUP CAPTAIN SURAT SINGH VM (18563) FLYING (PILOT)
110. GROUP CAPTAIN LALY JOSEPH (18643) LOGISTICS
111. GROUP CAPTAIN GABRIEL RAYMOND RUEBEN (18814) FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN ASHISH DUREHA (19074) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
113. GROUP CAPTAIN SUSHANT DUTTA (19243) LOGISTICS
114. WING COMMANDER DEEPAK BANA (18742) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
115. WING COMMANDER CHELLAPPAN PILLAI RATNAMMA SREEJI (20286) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
116. WING COMMANDER PRAKASH ANGADI (24126) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
117. 659970 MASTER WARRANT OFFICER DALJIT KHOKHAR WEAPON FITTER
118. 695575 JUNIOR WARRANT OFFICER RAJENDER KUMAR YADAV, AIR FRAME FITTER

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 20–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the **“Bar to Sena Medal/Army Medal”** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-55907 MAJOR KU KARUMBIAH, SM  
4 GORKHA RIFLES/29 ASSAM RIFLES
2. IC-56123 MAJOR SAURABH SHAH, SM  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
3. IC-59171 MAJOR RAJIV SHANKAR, SM  
ARMY SERVICE CORPS / 55 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-67187 CAPTAIN SANDEEP SREEDHARAN, SM  
MARATHA LIGHT INFANTRY / 39 ASSAM RIFLES

5. IC-69120 CAPTAIN ISHWAR SINGH RAWAT, SM  
16TH BATTALION THE JAT REGIMENT

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 21–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-52415 COLONEL GURPAL SINGH  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE LADAKH SCOUTS
2. IC-51499 LIEUTENANT COLONEL AMIT SHARMA, ARMY  
AVIATION / 23 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND  
OBSERVATION FLIGHT
3. IC-52922 LIEUTENANT COLONEL SIDDHARTH KHANNA  
ARMY AVIATION / 22 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND  
OBSERVATION FLIGHT
4. IC-54001 LIEUTENANT COLONEL SUMIT MOHAN GARG  
MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES
5. IC-56084 MAJOR RS RAJEEV  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
6. IC-56156 MAJOR KULDEEP SIROHI  
GARHWAL RIFLES / 15 ASSAM RIFLES
7. IC-59056 MAJOR KSHITIJ BALHARA  
BRIGADE OF THE GUARDS / 42 ASSAM RIFLES
8. IC-59145 MAJOR PANKAJ RAWAT, 666 ARMY AVIATION  
SQUADRON (RECONNAISSANCE AND OBSERVATION)
9. IC-59385 MAJOR GAURAV BHATIA  
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
10. IC-59510 MAJOR JAIVEER SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
11. IC-59516 MAJOR SANJAY NAIR  
ASSAM REGIMENT / 59 RASHTRIYA RIFLES

12. IC-60538 MAJOR MRIDUL KAMAL GAIND  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
13. IC-60543 MAJOR RANJEET SINGH, ELECTRICAL AND  
MECHANICAL ENGINEERS / 53 RASHTRIYA RIFLES
14. IC-60968 MAJOR PRASHANT MISHRA, JAMMU AND KASHMIR  
LIGHT INFANTRY / 31 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-61137 MAJOR AJAY SINGH  
MECHANISED INFANTRY / 34 ASSAM RIFLES
16. IC-61720 MAJOR ANIL KUMAR SHARMA  
GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
17. IC-61825 MAJOR SAURABH TIWARI  
REGIMENT OF ARTILLERY / 34 ASSAM RIFLES
18. IC-62973 MAJOR KARAN BHATIA  
6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
19. IC-63398 MAJOR RAJ ABHINAV  
RAJPUTANA RIFLES / 21 ASSAM RIFLES
20. IC-63527 MAJOR ANIL SINGH CHAUHAN  
MECHANISED INFANTRY / 26 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-63997 MAJOR KAUSHALENDRA SINGH  
RAJPUTANA RIFLES / 23 ASSAM RIFLES
22. IC-64102 MAJOR MRINAL KUMAR SHEKHAR  
MARATHA LIGHT INFANTRY / 28 ASSAM RIFLES
23. IC-64460 MAJOR ASHISH SWAROOP  
ARMOURED CORPS / 8 ASSAM RIFLES
24. IC-64573 MAJOR SUNIL KUMAR NAUTIYAL  
MECHANISED INFANTRY / 26 RASHTRIYA RIFLES
25. IC-64691 MAJOR SHIV KUMAR SHARMA  
CORPS OF ENGINEERS / 44 RASHTRIYA RIFLES
26. IC-65745 MAJOR HAMEER SINGH  
BRIGADE OF THE GUARDS / 24 ASSAM RIFLES
27. IC-66234 MAJOR NIKHIL WAGH  
GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES

28. IC-66241 MAJOR JAIVARDHAN SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
29. IC-66862 MAJOR MUNISH SHARMA  
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-67290 MAJOR TRIVEDI JIGAR BHARATKUMAR  
CORPS OF ENGINEERS / 31 ASSAM RIFLES
31. IC-67360 MAJOR VINEET D KALOKHE  
CORPS OF ENGINEERS / 10 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-69559 MAJOR AMIT KUMAR THENGE  
CORPS OF SIGNALS / 37 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
33. SS-40279 MAJOR AMIT KANWAR  
PUNJAB REGIMENT / 26 ASSAM RIFLES
34. SS-41028 MAJOR ADITYA PATIL  
ARMOURED CORPS / 12 ASSAM RIFLES
35. SS-41156 MAJOR MUNISH THAKUR, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE  
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
36. SS-41798 MAJOR NAVRATNA JAIMAN  
CORPS OF SIGNALS / 16 RASHTRIYA RIFLES
37. SC-00356 MAJOR GULAM MOHAMMAD KHAN  
6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
38. IC-64583 CAPTAIN C NAREN BABU  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
39. IC-64638 CAPTAIN ABHAY CHANDAN CHAUDHARY  
REGIMENT OF ARTILLERY / 11 RASHTRIYA RIFLES
40. IC-67813 CAPTAIN SACHIN SINHA  
CORPS OF ENGINEERS / 44 RASHTRIYA RIFLES
41. IC-67943 CAPTAIN SANDEEP SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 34 ASSAM RIFLES
42. IC-68103 CAPTAIN PRASHANT THAKUR  
ARMY AIR DEFENCE / 63 RASHTRIYA RIFLES
43. IC-68313 CAPTAIN MRINAL SHARMA  
CORPS OF SIGNALS / 22 RASHTRIYA RIFLES

44. IC-68881 CAPTAIN PAWAN KUMAR SACHAN  
CORPS OF SIGNALS / 8 ASSAM RIFLES
45. IC-69166 CAPTAIN KELSHIKAR SHAMSHER KIRAN  
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
46. IC-69967 CAPTAIN MANOJ KUMAR PANDEY  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
47. SS-41529 CAPTAIN MADHUSUDAN B S  
REGIMENT OF ARTILLERY / 28 ASSAM RIFLES
48. SS-41563 CAPTAIN TARANDEEP SINGH GILL  
SIKH REGIMENT / 45 ASSAM RIFLES
49. SS-42798 CAPTAIN ABHISHEK BHARDWAJ  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
50. AR-182 SECOND-IN-COMMAND BHAG SINGH DOGRA  
12 ASSAM RIFLES
51. IC-70184 LIEUTENANT AJEEV RAJEEV, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE  
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
52. IC-70428 LIEUTENANT VARUN KHAJURIA  
16<sup>TH</sup> BATTALION THE GRENADIERS
53. IC-70787 LIEUTENANT LALIT MOHAN PALARIYA  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
54. IC-70802 LIEUTENANT LAKSHAY  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE NAGA REGIMENT
55. IC-71477 LIEUTENANT DEEPAK KUMAR PRASHAR  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
56. IC-71977 LIEUTENANT SAGAR DESHPANDE, 5/1 GORKHA  
RIFLES
57. SS-43380 LIEUTENANT DEEPAK CHANDER GANOLA  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
58. SS-43646 LIEUTENANT BHAGWATI SINGH RATHORE  
ARMY ORDNANCE CORPS / 15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA  
REGIMENT
59. JC-412905 SUBEDAR RAGHBIR SINGH  
6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT

60. JC-499219 SUBEDAR LAKHWINDER SINGH  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE SIKH REGIMENT
61. JC-590197 SUBEDAR SHRI PRASAD THAPA  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE NAGA REGIMENT
62. JC-634721 SUBEDAR TOPGAY BHUTIA, VSM, GORKHA RIFLES /  
11 GORKHA RIFLES REGIMENTAL CENTRE
63. JC-122982 NAIB SUBEDAR GANGA SINGH, 12 ASSAM RIFLES
64. JC-273537 NAIB SUBEDAR BIRBAL RAM  
REGIMENT OF ARTILLERY / 315 FIELD REGIMENT
65. JC-413273 NAIB SUBEDAR LALMAN PALSRA, 9<sup>TH</sup> BATTALION  
THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
66. JC-G/2600636 NAIB SUBEDAR PAOKHOLEN KUKI, 26 ASSAM  
RIFLES
67. 3393099 HAVILDAR SURJIT SINGH  
157 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND  
HEARTH) SIKH / 54 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
68. 2598370 HAVILDAR LOGANATHAN S  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
69. 2792851 HAVILDAR ANWARASAB AGASIBAGIL  
12<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
70. 2888398 HAVILDAR NARESH PAL  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
71. 3392345 HAVILDAR JARNAIL SINGH  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE SIKH REGIMENT
72. 3395086 HAVILDAR KARAN SINGH  
DOGRA REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES
73. 4473390 HAVILDAR BALJINDER SINGH  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
74. 4564889 HAVILDAR BODELE DHARMSHEEL SURYAKANT  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
75. 9096612 HAVILDAR MOHAMMED FAROOQ  
162 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) JAMMU  
AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / 47 RASHTRIYA RIFLES

76. 13619305 HAVILDAR RANJIT KUMAR  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT(**POSTHUMOUS**)
77. G/123955 HAVILDAR ALI HUSSAIN, 12 ASSAM RIFLES
78. G/2900484 HAVILDAR VIJAY SINGH KALURA, 29 ASSAM RIFLES
79. G/2900924 HAVILDAR K MANI CHANDRA SINGHA, 29 ASSAM RIFLES
80. G/3400678 HAVILDAR DEV RAM, 34 ASSAM RIFLES
81. 13756706 LANCE HAVILDAR RAVINDER SINGH  
12<sup>TH</sup> BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
82. 2601288 NAIK R NANDA KUMAR  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
83. 2602081 NAIK YASHAVANT KHANNUKAR  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
84. 2996580 NAIK RAJENDRA SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
85. 3996163 NAIK RAKESH KUMAR  
DOGRA REGIMENT / 11 RASHTRIYA RIFLES
86. 4571151 NAIK HUSAN LAL, PARACHUTE REGIMENT / 19  
KUMAON REGIMENT (**POSTHUMOUS**)
87. 5045349 NAIK BHAKTA BAHADUR GURUNG, 5/1 GORKHA  
RIFLES
88. 5045437 NAIK RAN BAHADUR KAUCHA, 5/1 GORKHA RIFLES
89. 13623869 NAIK HARENDRA KUMAR PANDAY  
6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (**POSTHUMOUS**)
90. 13696417 NAIK ANIRUDDHA KUNDU  
BRIGADE OF THE GUARDS / 59 RASHTRIYA RIFLES
91. 13759846 NAIK SURINDER SINGH  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 3 RASHTRIYA RIFLES
92. 14703305 NAIK CHANDRA SHEKHAR UPRETI  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE NAGA REGIMENT
93. 14703419 NAIK SAHANI LOHRII  
NAGA REGIMENT / 60 RASHTRIYA RIFLES (**POSTHUMOUS**)



94. 2798833 LANCE NAIK SURENDER SINGH  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
95. 2893475 LANCE NAIK PAWAN  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
96. 3997868 LANCE NAIK PRITAM SINGH  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
97. 3998854 LANCE NAIK JAIMON PK,  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
98. 4365794 LANCE NAIK SURESH KUMAR  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 RASHTRIYA RIFLES
99. 12984108 LANCE NAIK TANVIR AHMED  
163 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND  
HEARTH) SIKH LIGHT INFANTRY/ 58 RASHTRIYA RIFLES
100. 13622152 LANCE NAIK VIJAY SINGH  
21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL  
FORCES)
101. 15143917 LANCE NAIK RAJENDRA KUMAR  
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
102. 2611892 SEPOY PANNEER SELVAM RAJENDRAN  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
103. 2613731 SEPOY NAGALINGAM PANCHAVARNAM  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
104. 2613951 SEPOY SARAVANAN UDAYA KUMAR  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT (POSTHUMOUS)
105. 2804168 SEPOY BHOSALE VIKRANT HINDURAO  
MARATHA LIGHT INFANTRY / 27 RASHTRIYA RIFLES
106. 3001635 SEPOY JAI KUMAR, RAJPUT REGIMENT / 44  
RASHTRIYA RIFLES
107. 3999904 SEPOY JASBIR SINGH,  
DOGRA REGIMENT / 62 RASHTRIYA RIFLES
108. 4003665 SEPOY SUNIL KUMAR, 15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA  
REGIMENT

109. 4197636 SEPOY RAJENDRA SINGH BISHT  
KUMAON REGIMENT / 26 RASHTRIYA RIFLES
110. 4573544 SEPOY CHANDRA SHEKHAR NUT  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
111. 4577408 SEPOY VIRENDER, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA  
RIFLES
112. 12944488 SEPOY AJAZ AHMED  
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME &  
HEARTH) DOGRA / 11 RASHTRIYA RIFLES
113. 14830124 SEPOY RAKESH KUMAR GUPTA  
5031 ARMY SERVICE CORPS BATTALION (MECHANICAL  
TRANSPORT) (POSTHUMOUS)
114. 14934162 SEPOY DILJIT SINGH,  
MECHANISED INFANTRY / 42 RASHTRIYA RIFLES
115. 57582 RIFLEMAN SHIJUMON ABRAHAM, 5 ASSAM RIFLES
116. 57760 RIFLEMAN CH LOVINGSON, 5 ASSAM RIFLES
117. 4087013 RIFLEMAN RAM PRASAD  
GARHWAL RIFLES / 48 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
118. 4089094 RIFLEMAN SURAJ KUMAR  
GARHWAL RIFLES / 48 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
119. 9103770 RIFLEMAN KULDEEP SINGH  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/26 RASHTRIYA  
RIFLES
120. G/193586 RIFLEMAN NAR BAHADUR THAPA, 45 ASSAM RIFLES
121. G/2851169 RIFLEMAN BIRENDRA SINGH, 28 ASSAM RIFLES
122. G/2851534 RIFLEMAN S YAOREISHANG, 28 ASSAM RIFLES
123. G/2851603 RIFLEMAN RAN BAHADUR BHANDARI, 28 ASSAM  
RIFLES
124. G/2901665 RIFLEMAN SUKHAN ORAON, 29 ASSAM RIFLES
125. G/2901698 RIFLEMAN LABH SINGH, 29 ASSAM RIFLES
126. G/2901883 RIFLEMAN PRADIP MEDHI, 29 ASSAM RIFLES
127. G/5004716 RIFLEMAN YOGESH KUMAR, 28 ASSAM RIFLES

128. G/5009236 RIFLEMAN B BENJAMIN, 28 ASSAM RIFLES
129. G/5009920 RIFLEMAN KULJIT SINGH, 8 ASSAM RIFLES
130. 15576686 SAPPER HARPREET SINGH  
CORPS OF ENGINEERS / 48 RASHTRIYA RIFLES
131. 13627026 PARATROOPER JUGRAJ SINGH  
9<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL  
FORCES)
132. 15173085 GUNNER SATYAVIR  
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT
133. 15618801 GUARDSMAN PRINCE R  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
134. 15485730 SOWAR MASTAN KHAN  
ARMoured CORPS / 60 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
135. 15489651 SOWAR DEBA YADAV  
ARMoured CORPS / 22 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 22—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. COMMANDER NAVEEN THAPA, (03644-F)
2. BIJENDER, POA (AH), (174619-N)

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 23—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. WING COMMANDER SUSHIL CHATURVEDI (21720) FLYING  
(PILOT)
2. WING COMMANDER MANJIT SINGH SIDHU (22334) FLYING  
(PILOT)
3. SQUADRON LEADER VIKAS BHUSHAN (27450) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 24—Pres/2011— The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-34086 MAJOR GENERAL BAL KRISHAN SHARMA, SM,  
INFANTRY / HEADQUARTER 27 MOUNTAIN DIVISION
2. IC-54627 COLONEL NIRANJAN RAJKUMAR JAKHAR, SM,  
GRENADIERS / 55 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 25—Pres/2011— The President is pleased to approve the award of the “**Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-31062 MAJOR GENERAL SHISHIR HARI MAHAJAN, VSM,  
INFANTRY / HEADQUARTER NORTHERN COMMAND
2. IC-31336 MAJOR GENERAL SUNIL SADANAND JOG, VSM  
INFANTRY / HEADQUARTER 21 MOUNTAIN DIVISION
3. IC-31729 BRIGADIER KALYAN KUMAR ROY CHOUDHURY,  
VSM, MAHAR REGIMENT / HEADQUARTER 21 SUB AREA
4. IC-34066 BRIGADIER AMULYA MOHAN, VSM, RAJPUT  
REGIMENT / HEADQUARTER 111 SUB AREA
5. IC-35204 BRIGADIER UMESH SINGH BAWA, VIR CHAKRA  
JAT REGIMENT / HEADQUARTER STRATEGIC FORCES  
COMMAND
6. IC-35376 BRIGADIER GAUTAM DEB, VSM,  
CORPS OF INTELLIGENCE / HEADQUARTER EASTERN  
COMMAND
7. IC-35480 BRIGADIER SURINDER SINGH, VSM  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / EMBASSY OF INDIA, KABUL
8. IC-35486 BRIGADIER SUBHASH CHANDER RANGI, VSM,  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS  
NATIONAL SECURITY GUARD
9. IC-38028 BRIGADIER SUNIL BHANDARI  
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTER STRATEGIC  
FORCES COMMAND

10. IC-38886 BRIGADIER RAJEEV PANT  
DOGRA REGIMENT / HEADQUARTER 27 SECTOR ASSAM  
RIFLES
11. IC-39676 BRIGADIER DHARAM VIR SINGH RANA, VSM  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTER 11  
MOUNTAIN BRIGADE
12. MR-04155 BRIGADIER AMITAVA DATTA  
ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTER 14 CORPS
13. MR-04556 BRIGADIER SUBHASH CHANDRA GODARA  
ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL STORE  
DEPOT, DELHI CANTONMENT
14. MR-05294 BRIGADIER ARUN TYAGI, ARMY MEDICAL CORPS /  
COMMAND HOSPITAL, NORTHERN COMMAND
15. IC-43307 COLONEL N RAJKUMAR  
154 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) BIHAR
16. IC-48516 COLONEL VINOD NAMBIAR  
670 ARMY AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND  
OBSERVATION)
17. IC-49086 COLONEL SHANTANU KASHYAP, 663 ARMY  
AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND  
OBSERVATION)
18. IC-49115 COLONEL BHASKAR SINGH BISHT  
RAJPUTANA RIFLES / 9 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-49469 COLONEL PRASHANT SRIVASTAVA, 2<sup>ND</sup> BATTALION  
THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
20. IC-49680 COLONEL VIKAS LAKHERA  
4<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
21. IC-49926 COLONEL VIJAY KUMAR PUROHIT  
PUNJAB REGIMENT / 53 RASHTRIYA RIFLES
22. IC-49992 COLONEL ZOHAIK IBN SALMA YAZDANI  
REGIMENT OF ARTILLERY / 44 FIELD REGIMENT
23. IC-50189 COLONEL RAJESHWAR SINGH, SHAURYA CHAKRA,  
MADRAS REGIMENT / 29 ASSAM RIFLES
24. IC-50369 COLONEL SAISH SUDHAKAR SHETE  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE SIKH REGIMENT

25. IC-50772 COLONEL RAJESH KUMAR SHIVRAIN  
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 39 ASSAM RIFLES
26. IC-50895 COLONEL PEEYUSH KHURANA  
GARHWAL RIFLES / 14 RASHTRIYA RIFLES
27. IC-50996 COLONEL BABRU BHAN YADAV, SHAURYA CHAKRA,  
SIKH LIGHT INFANTRY / 45 ASSAM RIFLES
28. IC-51135 COLONEL ANIL KUMAR PUNDIR  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 SPECIAL ACTION GROUP
29. IC-51261 COLONEL SAMEER SHARAN KARTIKEYA  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 34 ASSAM RIFLES
30. IC-51568 COLONEL RAVROOP SINGH  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 ASSAM RIFLES
31. IC-51709 COLONEL MANJEET SINGH KALRA  
2<sup>ND</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
32. IC-51964 COLONEL AMARDEEP SINGH  
12 MARATHA LIGHT INFANTRY
33. MR-04868 COLONEL KANAKAPURA SURYANARAYANA  
KUMAR, ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL,  
WESTERN COMMAND
34. MR-05050 COLONEL KADLOOR SATYANAND  
ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL, JAIPUR
35. IC-50222 LIEUTENANT COLONEL K C IYAPPA  
ARMOURED CORPS, COMBAT VEHICLES RESEARCH AND  
DEVELOPMENT ESTABLISHMENT
36. IC-52391 LIEUTENANT COLONEL AVTAR SINGH SEKHON  
INTELLIGENCE CORPS / 21 COUNTER INSURGENCY  
INTELLIGENCE UNIT
37. IC-55258 LIEUTENANT COLONEL RAMESH KUMAR SHARMA, 8  
GORKHA RIFLES / 51 SPECIAL ACTION GROUP
38. IC-55484 LIEUTENANT COLONEL N SRI RAMESH  
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING /  
COMBAT VEHICLES RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ESTABLISHMENT

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 26—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. COMMODORE SUNIL JETLY, (02054-T)
2. COMMODORE ANIL KUMAR SAXENA, (40974-Y)
3. COMMODORE UDAY CHANKRAKANT TALWELKAR, (41023-H)
4. COMMODORE VIJAY KUMAR PISHARODY, (02604-T)
5. CAPTAIN HAMPIHOLI MAKARAND ARVIND, (02859-Y)
6. CAPTAIN PHILIPOSE GEORGE PYNUMOOTIL, (02973-F)
7. COMMANDER SUDEEP SEN, (51046-N)
8. KAMALUDHEEN FIROSE, MECH (AR) 3 (121855-W)

BARUN MITRA

Joint Secy.

No. 27—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. AIR VICE MARSHAL CHANDRASHEKHARAN HARI KUMAR, VSM (15881) FLYING (PILOT)
2. AIR COMMODORE DEPTENDU CHOUDHURY, VSM (17335) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN MEHTAB SINGH DESWAL (20131) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN SIRUVURI SRIDHAR (20138) FLYING (PILOT)
5. WING COMMANDER RAVURI SHEETAL (20490) FLYING (PILOT)
6. WING COMMANDER TEJPAL SINGH (20724) FLYING (PILOT)
7. WING COMMANDER ANANT MATHUR (20727) FLYING (PILOT)
8. WING COMMANDER PHILIP THOMAS (20743) FLYING (PILOT)
9. WING COMMANDER RAHUL BHASIN (20745) FLYING (PILOT)
10. WING COMMANDER VIKAS SHARMA (20757) FLYING (PILOT)

11. WING COMMANDER JOY THOMAS KURIEN (20782) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER GANAPATHIRAJU SRINIVAS (21505) FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER ASHISH SINGH (21517) FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER NONGTHOMBAM LOKENDRO (22714) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA  
Joint Secy.

No. 28–Pres/2011 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “**Mention in Despatches**” received by the **Raksha Mantri** from the “**Chief of the Army Staff**”:-

**OPERATION RAKSHAK**

1. IC-59752 MAJOR ATUL CHAVAN, 666 ARMY AVN SQN (R&O)
2. IC-62535 MAJOR RAHUL SHANKAR BHARADWAJ, MAHAR, 30 RR
3. IC-68949 MAJOR ABHISHEK JAGANNATH BHAPKAR, SIGS, 30 RR
4. JC-593547 SUBEDAR SHER SINGH, JAK LI, 26 RR
5. 9925507 NAIK TUNDUP PALJOR, 5 LADAKH SCOUTS

BARUN MITRA  
Joint Secy.



No. 29—Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Kirti Chakra**” to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:-

1. **IC-67257 MAJOR RAHUL GURUNG, CORPS OF ENGINEERS / 12 ASSAM RIFLES**

[Effective date of the award: 17 February 2010]

Based on explicit intelligence regarding movement of terrorists in Ukhrul district of Manipur, Major Rahul Gurung meticulously planned multiple ambushes in General Areas South of the Valley. At 0330 hours on 11 February 2010, Major Rahul Gurung, maintaining high state of surprise and vigil, noticed suspicious movement on track leading to the village. He alerted his ambush party and challenged the suspects to prove their identity. On being challenged, the suspects opened indiscriminate fire. Major Rahul Gurung, who missed certain death by a whisker, remained unfazed and crawled on the rugged terrain towards a rock to take cover under the volley of bullets. From there he brought down accurate fire on terrorists. Major Gurung killed two terrorists and saved life of his men who were under direct fire of terrorists.

On 17 February 2010, inputs were received regarding movement of undergrounds through the Corridor in Ukhrul district of Manipur. Major Rahul Gurung, planned multiple ambushes in the areas of the River and the Valley. At 2250 hours the infiltrating party of terrorists was intercepted by Major Gurung's ambush and in the firefight Major Gurung shot dead one terrorist. Another terrorist took cover behind a tree and was firing on the ambush party. Major Gurung sensing the urgency of situation, displaying undaunted bravery and inspirational courage, crawled towards the hiding terrorist and with disregard to his life shot the terrorist from point blank range. The terrorists broke contact but Major Rahul Gurung with his party chased this group and subsequently three more terrorists were gunned down.

Major Rahul Gurung displayed outstanding leadership, immaculate planning and utter disregard to his personal safety under intimidating hostile fire.

2. **SS-42132 CAPTAIN DEEPAK SHARMA, CORPS OF SIGNALS / 42 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 04 March 2010]

On 04 March 2010, terrorists were hiding in a room which could not be cleared by any means other than room intervention due to the close proximity of a large Jamia Masjid in Pulwama district of Jammu & Kashmir. At 0815 hours Captain Deepak Sharma alongwith his buddy closed in and entered the house through a small window by lobbing hand grenades. At point blank range he fired and killed one terrorist in the first room. Then he crawled to the next room under heavy volume of fire from the terrorists and lobbed another grenade. On spotting two terrorists under stair case, he charged at them with steely grit and utter disregard to own safety killing them on the spot. During the fire fight, he sustained a gun shot wound on his neck and succumbed to his injuries.

Captain Deepak Sharma displayed unflinching devotion to duty, and indomitable courage in the face of enemy and made the supreme sacrifice in the service of the nation.

3. **IC-70971 LIEUTENANT VIKRANT AJIT DESHMUKH, 8<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 June 2010]

On receipt of Intelligence regarding presence of group of terrorists in general area of a village in Kupwara District of Jammu & Kashmir, a search party was set out for a specific search. During the search, the party was fired upon by terrorists at 1840 hours on 27 June 2010. In the ensuing firefight Lieutenant Vikrant Ajit Deshmukh who was part of the search party sustained gun shot wound on his abdomen and inspite of that he opened fire at a close range & killed two terrorists. Terrorists also hurled grenades at his team and he fell down the steep spurs of the ridge without his weapon along with 04 other ranks and got separated from the rest during the fall. He silently held on to his position alone for 03 hours 30 minutes till the search party reached him.

Lieutenant Vikrant Ajit Deshmukh displayed tactical acumen, tenacity, exemplary courage and leadership qualities in the face of heavy odds.

4. **IC-70886 LIEUTENANT VIKAS SHARMA, 6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT**

[Effective date of the award: 11 August 2010]

Based on own intelligence of terrorist movement in Bandipore district of Jammu & Kashmir, an operation was launched on 10 August 2010 under Lieutenant Vikas Sharma.

Next day, at 1630 hours, the officer noticed movement on a ridge. He divided his party and approached the top from two sides. At 300 meters terrorists presence was confirmed. He immediately engaged them with sniper shooting one terrorist. Two terrorists took cover and returned fire. Lieutenant Vikas directed his sniper to engage the second terrorist from a flank while he and his buddy encircled him from another side. He closed upto 20 meters to take accurate shots and killed him. The third terrorist was entrenched between two rocks and was not coming under effective fire. Lieutenant Vikas Sharma, redeployed his LMG to cover his movement and closed onto him making excellent use of the ground. His move was detected by the terrorist who fired at him. Lieutenant Vikas Sharma was undaunted and fearlessly kept closing onto him and shot him at a 15 meters.

Lieutenant Vikas Sharma displayed indomitable courage and flawless execution while fighting the terrorists.

5. **2894796 NAIK RAJINDER SINGH, 2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES**

[Effective date of the award: 29 August 2010]

At 1430 hours on 29 August 2010, during search of a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir scouts were fired upon. Naik Rajinder Singh alongwith other scouts returned effective fire, pinning down terrorists and cutting off their escape route. During firefight, he eliminated one terrorist who was trying to escape.

Intermittent firing continued and terrorist hiding inside cave kept lobbing grenades to prevent troops from closing in. Naik Rajinder Singh crawled towards the cave under intense fire and fired one complete magazine from his weapon. Terrorists from inside lobbed grenade towards him. Displaying astute presence of mind and sharp reflexes, he used a rock to protect himself from grenade splinters.

As intermittent firing commenced in the morning of 30 August 2010, he again volunteered to crawl towards the cave to engage the terrorists. He crawled to

the mouth of cave and brought effective fire on the terrorist eliminating them, after which intermittent fire stopped from inside the cave.

Naik Rajinder Singh displayed indomitable courage, exceptional valour under fire and selflessness beyond the call of duty.

BARUN MITRA

Joint Secy.

No. 30–Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Shaurya Chakra**” to the undermentioned persons for the acts of gallantry:-

1. **12914550 LANCE NAIK MOHAMMAD SHAFFI, 156 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND HEARTH) PUNJAB / 58 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 21 October 2009]

On 20 October 2009 at 2200 hours, based on specific information, an operation was launched in a village in Ramban district of Jammu & Kashmir. The troops cordoned the target dhoks and on challenging the terrorists to surrender, came under effective hostile fire.

Taking initiative, at around 0230 hours on 21 October 2009, Lance Naik Mohammad Shaffi alongwith his buddy closed towards the entrance of the dhok. While his buddy killed one terrorist two others ran out firing indiscriminately and took cover in the adjoining nallah. Despite hostile fire, unmindful of his personal safety, Lance Naik Shaffi crawled into the nallah from a flank and lobbed a grenade killing both the terrorists.

Lance Naik Mohammad Shaffi displayed courage, act of selfless devotion, presence of mind in decimating two terrorists.

2. **G/3101841 RIFLEMAN MILAP SINGH, 31 ASSAM RIFLES**

[Effective date of the award: 14 November 2009]

Based on specific intelligence, an operation was launched in general area in Tingnoupal district of Manipur. At approx 0430 hours on 14 November 2009, contact with the terrorists was established. Rifleman Milap Singh under the covering fire of his buddy, amidst fierce fire fight, showing immense initiative and cold courage, manoeuvred himself to engage the terrorist from a flank. Rifleman Milap Singh closed in with terrorists and with utter disregard to his personal safety eliminated one of the terrorists. Rifleman Milap Singh continuously engaged the terrorists with his personal weapons, crawled towards the second terrorist and eliminated him from a close range. A large quantity of arms and ammunition were recovered from slain terrorists.

Rifleman Milap Singh displayed great feat of valour, cold courage, initiative and firm resolve while fighting the terrorists.

3. **FLIGHT LIEUTENANT MANISH ARORA (28462) FLYING (PILOT)**

• [Effective date of the award: 04 February 2010]

On 04 February 2010; Flight Lieutenant Manish Arora was detailed to fly an Air Test profile sortie in a MiG-27 ML aircraft. At an altitude of 10.5 km and a speed of beyond 0.9 Mach, the canopy shattered causing explosive decompression of the cabin and pieces of the shattered canopy hit the pilot on the face. The front instrument panel and the windshield were splattered with blood. Despite a very hostile cockpit environment, aero medical adversities and physical injuries, the pilot meticulously commenced a series of accurate and precisely timed actions for an expeditious recovery. Wind blast severely restricted mobility and the pilot began to suffer from excruciating pain in the right ear and his mask was flooded with blood. The crucial cockpit visibility in front was affected by blood stains. Despite feeling faint and weak, the pilot displayed grit, fortitude and professionalism and landed the aircraft flawlessly under extremely challenging conditions. Any delay in the recovery, or lack of will power on the part of the pilot could have led to catastrophic consequences.

Flight Lieutenant Manish Arora displayed conspicuous courage and professionalism under an extremely demanding situation exacerbated by aero medical adversity and injury, to recover the crippled aircraft safely to base.

4. **4076512 HAVILDAR DAYAL SINGH, 8<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 13 January 2010]

On night of 13 January 2010, the Havildar Dayal Singh who was part of the Battalion Intelligence Team was alerted by his sources about presence of terrorists in a village in Tinsukia district of Assam. The NCO took the lead in guiding the teams to the suspected house.

On reaching the area, his party was tasked to cordon the house. At 2330 hours, while the parties were still getting into position, three terrorists rushed out of the rear door firing indiscriminately. Hav Dayal Singh immediately engaged them and blocked their escape route forcing them to take cover in the vicinity. A firefight ensued with heavy automatic fire. At grave risk to himself, Havildar Dayal Singh fired back very selectively preventing any casualties or collateral damage. Sensible response from him ensured safe evacuation of the trapped civilians while keeping the terrorists pinned down. Finally outnumbered and sensing the terrorists escaping, the NCO, with utter disregard to his own safety, dashed forward and shot dead one terrorist at close quarters. In the process he was struck by a bullet in the left eye. Bleeding profusely, he continued to engage the other two till he lost consciousness and later succumbed to his injury.

Havildar Dayal Singh displayed undaunted courage, exemplary presence of mind and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

5. **2607215 SEPOY CHANNALLI BASAVARAJ, 19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 13 January 2010]

Based on confirmed intelligence regarding movement of terrorists in general area in Ukhrul district of Manipur, a search operation was launched at 0200 hours on 13 January 2010 to establish cordon around the suspected house.

At about 0900 hours, Sepoy Channalli Basavaraj who was No.1 Scout of the search column observed suspicious move of two individuals towards front of the house. Swiftly reacting to the situation, he challenged the individuals to halt. Both the terrorists immediately fired towards own party and attempted to flee into the jungle. Hearing this sound, few civilians in the area also rushed out in panic. Sepoy Basavaraj using his ingenious combat skills and undaunted valour chased the fleeing terrorist for nearly 100 meters and eliminated him. The second terrorist however managed to break contact and hid into the thick jungle. The search columns were accordingly redeployed to cover the escape routes. Sudden burst of fire came on the column. Sepoy Channalli Basavaraj once again rising to the occasion, crawled towards the area and in an absolute daring act pounced on the terrorist and eliminated him in a fierce combat. Large quantity of arms, ammunition and other incriminating documents were recovered from them

Sepoy Channalli Basavaraj displayed extraordinary gallantry, raw courage and sterling combat proficiency in eliminating both the terrorists singlehandedly.

6. **IC-64696 MAJOR RAKESH RAWAT, JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 17 February 2010]

On 17 February 2010 Major Rakesh Rawat was commanding the team tasked to clear a cordoned house suspected to be occupied by two heavily armed, hardcore terrorists in district Baramulla, Jammu & Kashmir.

As Major Rakesh Rawat and his buddy crawled upto the house to clear it, the holed up terrorists lobbed two grenades and fired a heavy volume of fire onto them from a window. Undeterred, Major Rakesh Rawat and his buddy closed in with the room's window and the officer lobbed two grenades inside. The officer then crept up and shot one of the two terrorists at close range.

The second terrorist fled into the adjacent bathroom that could not be accessed by the buddies from this direction. Despite grave danger and sporadic and heavy firing from within, the officer now crept upto the bathroom window and lobbed a grenade to maim and later, shoot the second terrorist.

Major Rakesh Rawat displayed conspicuous gallantry, indomitable fighting spirit and inspirational combat leadership while fighting the terrorists.

**7. IC-56111 MAJOR SANJEEV HARYAL, REGIMENT OF ARTILLERY/ 315 FIELD REGIMENT**

[Effective date of the award: 17 March 2010]

On receipt of intelligence about movement of terrorist towards a village in Udalguri district of Assam to recruit fresh cadres and regroup the outfit. Maj Sanjeev Haryal mobilised his team, briefed them, planned the ambush and deployed them by 0230 hours on 17 March 2010.

A motorcycle with two riders approached the site. On being challenged, the riders opened indiscriminate fire on own party. Despite the automatic fire of terrorists, the officer led his team from front, retained initiative and held on the command and control of his party. He reacted with speed and with utter disregard to personal safety, he took on the terrorists at close range. In the ensuing fire fight, he shot dead the terrorist.

In another successful ambush earlier in December 2009, the officer led from the front and shot dead two more terrorists. He has till date apprehended 12 cadres/linkmen and recovered six weapons, thus breaking the backbone of the terrorist outfit in and around Udalguri.

Major Sanjeev Haryal displayed raw courage, thorough professionalism, leadership and fearless attitude in fighting the terrorists.

**8. 13762552 LANCE NAIK PRAVEEN THAKUR, 12<sup>TH</sup> BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

[Effective date of the award: 24 March 2010]

On the night of 23/24 March 2010, Lance Naik Praveen Thakur was ambush commander at the Line of Control in Kupwara district of Jammu & Kashmir. At 0130 hours he noticed movement of four terrorists. Showing resilience and tactical acumen he waited for the terrorists to approach and engaged with effective fire. The terrorists finding themselves trapped mounted a suicide attack on the ambush engaging it with heavy volume of fire and lobbying grenades. Sensing grave danger, he moved his buddy to an alternate position and drawing the entire fire of

the terrorists onto himself thereby saving his life. One terrorist was killed and another one in an outflanking move approached the ambush from the other side. Lance Naik Praveen Thakur showing raw courage and utter disregard to personal safety moved out into the open and killed the second terrorist face to face.

Lance Naik Praveen Thakur displayed exceptional bravery, high degree of motivation and utter disregard to personal safety while fighting the terrorists.

9. **3190786 NAIK VIJAY PAL, 16<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 March 2010]

On 27 March 2010, while carrying out search of a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir, Naik Vijay Pal spotted fresh tracks on the snow on western slopes of the Ridge. He alongwith other teams tracked the foot marks of the terrorists for seven hours in heavily snow laden and steep slopes of the ridge. Moving stealthily, Naik Vijay detected two terrorists at close distance in general area Dadua Spring. He immediately deployed his team and signalled the presence of the terrorists to other teams. Displaying extraordinary courage, he closed in with the terrorists, maintaining surprise and engaged them. Surprised by the action of Naik Vijay, the terrorists opened up with heavy automatic fire from concealed positions on own troops. Despite grave personal danger, he charged onto the terrorists and neutralised two of them at close quarters. His bold action and subsequent engagement of the terrorist group resulted in elimination of five terrorists without own casualties.

Naik Vijay Pal displayed raw courage, grit and bravery under effective terrorist fire.

10. **3194985 SEPOY RAVINDER SINGH, 16<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT**

[Effective date of the award: 27 March 2010]

Sepoy Ravinder Singh was carrying out search with his team on the Ridge in Kupwara district of Jammu & Kashmir. He along with his team followed the tracks of the terrorists through treacherous terrain and heavy snow. At about 1215 hours on 27 March, his team observed presence of two terrorists in general area. Sepoy Ravinder immediately deployed himself tactically and in the fire fight which ensued he observed two more terrorists bringing down heavy volume of fire from a covered position. Sensing danger to his team, he crawled through snow and thick foliage to a flank and lobbed a grenade. One of the terrorist who tried to break contact was immediately shot dead by Sep Ravinder at close quarters. With exemplary courage, despite grave personal danger, he closed in and neutralised the second terrorist also. His bold action and subsequent engagement of the terrorist group resulted in elimination of five terrorists without any casualty to own troops.



Sepoy Ravinder Singh displayed raw courage, grit and bravery in face of extreme adverse conditions.

**11. 14704137 SEPOY VIJAY SINGH BOHARA, NAGA REGIMENT / 60 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 27 March 2010]

On 27 March 2010 at 0707 hours two heavily armed foreign terrorists were trapped in the cordon of army columns in the dense jungle in Rajouri district of Jammu & Kashmir. Sepoy Vijay Singh Bohara rushed to the encounter site and further tightened the inner cordon. The terrorists had taken position in a nallah and were retaliating effectively against security forces fire. On observing the ineffectiveness of own small arm fire on terrorists, Commander of the team directed Sepoy Vijay Singh Bohara to fire Rocket Launcher. While Sepoy Bohara was crawling towards tactically advantageous position, one of the terrorist's fired a rifle grenade at him which exploded few feet away from him. With utter disregard to his personal safety he continued to move and brought down aimed Rocket Launcher fire on those two holed up terrorists and eliminated them.

Sepoy Vijay Singh Bohara displayed unparallel courage and gallantry much beyond the call of duty while fighting the terrorists.

**12. IC-70065 CAPTAIN MANENDRA PRATAP SINGH, ARMY SERVICE CORPS / 8<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT**

[Effective date of the award: 01 April 2010]

Captain Manendra Pratap Singh was one of the team leaders which were tasked to carryout a Search Operation in the general area in Rajouri district of Jammu and Kashmir. Contact with terrorists was established at 1400 hours on 01 April 2010 and his team had received the first volley of indiscriminate terrorist fire. Under heavy hostile fire, keeping the nerves of steel he quickly identified the location of terrorists. Captain Singh immediately took position and moved forward and ordered his buddy to cover his move. The terrorists were firing in a suicidal manner. Displaying tremendous courage under fire and complete disregard to personal safety, he kept crawling and closing on to the terrorist till he reached the point blank range and personally killed the first terrorist.

During the intense firefight, two terrorists attempted to escape along a nala. Following excellent battle craft in treacherous hostile terrain, he and his buddy rushed with speed and intercepted them intelligently and took a clean shot at the fleeing terrorist, thereby killing the second terrorist.

Captain Manendra Pratap Singh displayed raw courage, grit and bravery much beyond the call of duty while fighting the terrorists.

13. **4282393 SEPOY SHAILESH KUMAR SINGH, BIHAR REGIMENT/  
63 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 02 April 2010]

On 02 April 2010 during a seek and destroy operation in the forest in Rajouri district of Jammu & Kashmir, Sepoy Shailesh Kumar Singh had taken position fifty meters away from the location of terrorists and was bringing down effective Multi Grenade Launcher fire pinning them down. After a prolonged fire fight two terrorists attempted to break the security forces cordon by firing indiscriminately and charging at own troops. Realising the danger to own troops as they were under inadequate cover, Sepoy Shailesh Kumar Singh with utter disregard to own safety swiftly moved forward firing MGL accurately killing two terrorists thereby saving precious lives of own troops. In the fire fight Sepoy Shailesh Kumar Singh sustained gun shot wound near bridge of nose and made the supreme sacrifice.

Sepoy Shailesh Kumar Singh displayed outstanding courage, great sense of commitment, camaraderie, concern for the lives of peers in the face of danger and made the supreme sacrifice.

14. **14438439 LANCE NAIK ANOOP KUMAR SHARMA, REGIMENT  
OF ARTILLERY / 30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 07 May 2010]

On the night of 06/07 May 2010 surveillance cum multiple ambushes were launched based on input of presence of terrorists in general area in Baramulla district of Jammu & Kashmir. Lance Naik Anoop Kumar Sharma was the scout of one such party. On challenging, the terrorists opened indiscriminate fire. Realising the safety of his comrades at stake, Lance Naik Sharma with utter disregard to personal safety, retaliated with effective fire dashed towards the terrorists tactically. In spite of being grievously injured in the process he with his effective and accurate fire eliminated two terrorists before falling unconscious. Lance Naik Sharma made supreme sacrifice and made this operation a roaring success wherein ultimately six terrorists were eliminated.

Lance Naik Anoop Kumar Sharma displayed indomitable determination, exceptional bravery and made the supreme sacrifice for the Nation while fighting the terrorists.

**15. IC-67498 MAJOR MANISH BARAL, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 08 May 2010]

On 08 May 2010 Major Manish Baral was carrying out search in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir. On getting specific information regarding presence of terrorists in the village, he moved diligently maintaining surprise. The officer quickly appreciated and deployed parties in close cordon of the target house covering all escape routes. Ghatak Platoon Commander showed presence of mind and evacuated all school children to safety located adjacent to the target house. At about 1655 hours terrorists tried to break cordon, firing indiscriminately at close range. The officer in broad daylight with utter disregard to his safety led from the front, guided all parties and daringly eliminated two dreaded terrorists single handedly. He ensured safety of all his comrades and there was no property damage.

Major Manish Baral displayed thorough professionalism and bold courage of highest order by leading his party from the front in the face of terrorist's fire.

**16. 4579271 SEPOY SANGAT SINGH, MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 11 May 2010]

On 11 May 2010 based on information about presence of terrorists in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir, close cordon was laid on target house. At approximately 1355 hours the terrorists tried to break the cordon and troops came under indiscriminate fire of terrorists from close range. Realising chances of terrorists escaping and safety of his comrades, Sepoy Sangat Singh with utter disregard to his personal safety, crawled through indiscriminate fire and further closed in to the nala next to the target house. Though critically injured, he took suitable position, brought down effective fire from point blank range and lobbed grenade thereby eliminating two hardcore terrorists single handedly till he fell down unconscious and later succumbed to his injuries.

Sepoy Sangat Singh displayed raw courage, exceptional bravery and made the supreme sacrifice for the Nation while fighting the terrorists.

**17. 2497584 PARATROOPER KAPIL DEV, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

[Effective date of the award: 31 May 2010]

Paratrooper Kapil Dev was part of Assault Team which had been heli dropped to carry out search and destroy operation in general area in Baramulla district, Jammu and Kashmir.

At 0630 hours on 31 May 2010 Paratrooper Kapil Dev volunteered to search the contact site. While carrying out deliberate search, he came under indiscriminate fire from terrorists hiding in dense undergrowth. Exhibiting remarkable initiative and outstanding field craft Paratrooper Kapil Dev crawled forward and killed one terrorist at close range. He instantly drew heavy automatic fire from another terrorist and sustained gun shot wound in his left thigh. Profusely bleeding but undeterred, he changed his position, lobbed grenades, outmaneuvered the terrorist and killed him in a fierce hand-to-hand fight.

Paratrooper Kapil Dev displayed exceptional valour, unmindful of his personal safety and heroic initiative beyond call of duty while fighting the terrorists.

**18. IC-51655 COLONEL NEERAJ SOOD, RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 22 June 2010]

On receiving inputs of significant movement of terrorists in general area in Kupwara district of Jammu & Kashmir, Colonel Neeraj Sood generated incisive intelligence network, which resulted in contact with terrorists at 2105 hours on 22 June 2010 in the area. Astutely sensing that terrorist movement would evade the cordon, the Commanding Officer swiftly deployed his troops to tactically advantageous positions boldly leading from the front.

In the ensuing gunfight, Colonel Sood personally targeted and injured one terrorist. Identifying the key role of Colonel Sood, the terrorists concentrated their fire on him. In the fierce gun battle that ensued, the Officer sustained fatal gunshot injury.

Colonel Neeraj Sood displayed bold and dynamic leadership, raw courage, resoluteness under fire and made supreme sacrifice in the best traditions of the Army.

**19. 14703933 LANCE NAIK KS KHARWUNG, 1<sup>ST</sup> BATTALION THE NAGA REGIMENT**

[Effective date of the award: 02 July 2010]

On 02 July 2010, Ghatak Platoon established contact with terrorists in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir. Terrorists occupying advantageous position brought down indiscriminate fire on the column. Lance Naik KS Kharwung, part of the assault team, to prevent escape of terrorists, manoeuvred himself under heavy fire, utter disregard to personal safety, engaged the terrorist at close proximity and killed him instantly.

The second terrorist taking cover of a rock brought down intense grenade fire. Lance Naik KS Kharwung, realising the threat of UBGL grenade to the column, with exceptional bravery, moved out of cover and ran into the terrorist during the fierce fire fight. The terrorist fired another grenade at the individual. Closely escaping the splinters, undaunted by the hostile situation, closed in and engaged the terrorists in close gun battle. After fearsome exchange of fire, Lance Naik KS Kharwung eliminated the second terrorist at close quarter, thereby saving the lives of his comrades.

Lance Naik KS Kharwung displayed conspicuous gallantry, indomitable courage, selflessness in fighting the terrorists.

**20. 16014589 RIFLEMAN UDHAY SINGH, 2<sup>ND</sup> BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES**

[Effective date of the award: 29 August 2010]

Rifleman Udhay Singh was part of small team deployed at a village in Baramullah district of Jammu & Kashmir. On 29 August 2010, at about 0400 hours noises of sound of tree branches creaking and barking of dogs along the Nala were heard. At first light the team moved into the area and observed fresh trails in undergrowth. Rifleman Udhay Singh was the leading scout of the small team. While following the trail, he alongwith other scout spotted a jacket under a rock and recovered two AK-47 Rifles.

During search, scouts came under intense fire from terrorists hiding in a rocky area. Being leading scout, he came under effective fire from terrorist. Under covering fire from his fellow scout, he safely relocated himself to advantageous position and eliminated one terrorist. As fire fight launched, he successfully engaged one more terrorist who was firing from the cave.

Rifleman Udhay Singh displayed exceptional operational zeal and conspicuous gallantry under intense terrorists' fire.

21. **IC-72002 LIEUTENANT VIKRAM BAHADUR SINGH, ARMY SERVICE CORPS / 3<sup>RD</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT**

[Effective date of the award: 11 September 2010]

Based on intelligence of newly infiltrated track, surveillance-cum-ambushes were launched in the thickly forested, mountainous area astride the Ridge in Bandipore district of Jammu & Kashmir.

On 11 September 2010 at 1730 hours, Lieutenant Vikram Bahadur Singh sighted two terrorists moving along the Nala. Quickly readjusting his position, he effectively engaged the terrorists injuring one with initial volley. The terrorists took cover behind boulders and a fierce fire-fight ensued. Sensing that terrorists would escape in fading light, Lt Vikram moved with lightening speed in the face of heavy fire and in a daring act neutralised one terrorist with his fire. The second terrorist took cover under a natural hide and effectively engaged own troops, lobbing grenades to dissuade troops from closing in. Unmindful of personal safety, displaying exemplary field-craft, Lieutenant Vikram Bahadur Singh crawled to within 30 meters of the terrorist and lobbed two grenades thereby effectively silencing him.

Lieutenant Vikram Bahadur Singh displayed unparalleled act of gallantry, raw courage, initiative and determination in fighting the terrorists.

BARUN MITRA  
Joint Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 115, dated 10 February 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Cap (On Probation)

Vinay Singh Parihar (DS-12362N), 26 Aug 2009 (with seniority for pay and promotion from 26 Feb 2009 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer in Army College of Dental Sciences, Secunderabad for the period from 01 Jul 2008 to 31 Jul 2009, which will not count for gratuity.

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

## ARMY BRANCH

No. 116, dated 10th February 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

JAK LI

APPOINTMENT OF LIFE TIME HONORARY ADC TO  
PRESIDENT OF INDIA

Sub Maj & Hon Capt (Retd) Surinder Singh (JC-592113H) appointed as Life time Honorary ADC to the Hon'ble President of India (Retd) wef 08 Jul 2009.

S ASHRAF  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 117, dated 10th February 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

SS-39949W Ex Lieutenant Amit Sharma now TA-42732 Lieutenant Amit Sharma has granted commission as an Officer in the Territorial Army (Infantry) on 01 Apr 2009 in the rank of Lieutenant under provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted Five Years Service (07 Sep 2002 to 06 Sep 2007) ante date seniority with effect from 01 Apr 2004 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 01 Apr 2008 with notional seniority for pay and promotion in the rank of the Captain with effect from 01 Apr 2008 under the provisions of Para 25(a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No. 18(1)2006/D (GS-1) dated 18 Apr 2006 consequent

to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

JAI RAJ  
Dy Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 118, dated 11th February 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

M Adinarayan to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 03 Jan 2005 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/-.

VP SINGH  
Dy. Director (Pers)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION

No. 119, dated 11th February 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on Probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :-

PIN No., Name, Estt./Lab & Date of Joining

2010AB1083 Ashish Agarwal, ADE, Bangalore, 19 May 2010

2008AB1002 Ramadheen Yadav, ADE, Bangalore, 22 May 2008

2009AB1623 Ajitabh Tiwari, ADRDE, Agra, 01 Dec 2009

2009AB1182 Annapurna Kamadi, ANURAG, Hyderabad, 03 Jun 2009

2009AB1193 Prashanth Reddy G, ANURAG, Hyderabad, 04 Jun 2009

2008AB1042 Shravan Kumar Donthula, ANURAG, Hyderabad, 21 May 2008

2009AB1531 Vijay Kumar, ANURAG, Hyderabad, 01 Dec 2009

2009AB1106 Jitendra Kumar, CABS, Bangalore, 03 Jun 2009

2008AB1141 Sunil Kumar Yadav, CABS, Bangalore, 21 May 2008

2009AB1038 Parinitha BM, CAIR, Bangalore, 03 Jun 2009

2010AB1179 Sanyasi Rao Rupiti, CEMILAC, Bangalore, 27 Aug 2010

2009AB1456 Atreya Kotoky CSE, O&M(AD RADARS) Unit Bhubaneshwar, 03 Jun 2009

2010AB1111 Sarath KM, DARE Bangalore, 19 May 2010

- 2009AB1107 Deepika Porwal, DEAL, Dehradun, 03 Jun 2009
- 2008AB1251 Yatindra Singh, DEAL, Dehradun, 21 May 2008
- 2009AB1468 Sujata R Damke, DIBER, Haldwani, 06 May 2009
- 2009AB1412 Manoj Kumar Dhaka, DL, Jodhpur, 03 Jun 2009
- 2009AB1149 J Sreenivas, DLRL, Hyderabad, 03 Jun 2009
- 2009AB1500 Shashi Shekhar, DMRL, Hyderabad, 24 Aug 2009
- 2009AB1413 Amit Singh, DMSRDE, Kanpur, 03 Jun 2009
- 2009AB1233 Naveed Ali, DRDL, Hyderabad, 03 Jun 2009
- 2009AB1524 Saggam Narendar, DRDL, Hyderabad, 01 Dec 2009
- 2010AB1146 BA Virnath, DRDL, Hyderabad, 19 May 2009
- 2008AB1344 Srinivasulu Reddy D, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1035 Sachin Kumar, GTRE, Bangalore, 11 Sep 2008
- 2009AB1409 Mada SSNM Santosh, HEMRL, Pune, 03 Jun 2009
- 2008AB1050 P Santosh Kumar, HEMRL, Pune, 21 May 2009
- 2009AB1279 Lohar Sai Nag, HEMRL, Delhi, 09 Jun 2009
- 2009AB1511 VR Senthil, INMAS, Delhi, 30 Mar 2009
- 2009AB1196 Manoj Malik, INS Shivaji, Lonavala, 03 Jun 2009
- 2010AB1117 Maneesh Panwar, IRDE, Dehradun, 19 May 2009
- 2008AB1599 Pragyashree Gogoi, LRDE, Bangalore, 03 Dec 2008
- 2010AB1069 Jadhav Atul Padmakar NMRL, Ambarnath, 19 May 2010
- 2007AB1172 Senthil Rajan S, NPOL, Kochi, 14 Nov 2007
- 2010AB1145 Madhavan Nampoothiri S, NPOL, Kochi, 19 May 2010
- 2008AB1542 Manoj Kumar, NPOL, Kochi, 03 Dec 2008
- 2009AB1389 Prerana Priyadarshini, NSTL, Vishakhapatnam, 03 Jun 2009
- 2009AB1656 Sunny, NSTL, Vishakhapatnam, 01 Dec 2009
- 2009AB1187 Sumit Sarkar, PXE, Balasore, 03 Jun 2009
- 2009AB1042 Nikhil Kumar Pali, RCI, Hyderabad, 05 Jun 2009
- 2007AB1124 Vutla Pradeep Kumar, RCI, Hyderabad, 23 May 2007
- 2008AB1283 Ravi Kant, RCI, Hyderabad, 21 May 2008
- 2009AB1090 Narender Nandikuda, RCI, Hyderabad, 03 Jun 2009
- 2009AB1016 Vadloori Vidyakrishna, RCI, Hyderabad, 05 Jun 2009
- 2010AB1079 Rupak Kundu, RCI, Hyderabad, 19 May 2010
- 2010AB1175 Souvik Sonar, RCI, Hyderabad, 25 Aug 2010
- 2010AB1174 K Murli Mohan Reddy, RCI (Proj-AD), Hyderabad, 21 May 2010
- 2009AB1487 Sravana Kumar Mavuru, SASE, Chandigarh, 06 May 2009
- 2009AB1013 Sanjay Yadav, SPIC, Delhi, 10 Jun 2009
- 2009AB1666 Nitin Kumar, SFC, Jagdalpur, 28 Oct 2009
- 2009AB1393 Gaurav Sharma, SFC, Jagdalpur, 03 Jun 2009
- 2009AB1403 Pradipta Roy, SFC, Jagdalpur, 03 Jun 2009
- 2010AB1143 Sourabh Tamrakar, SFC, Jagdalpur, 19 May 2010
- 2009AB1156 Khilawan Singh, SFC, Jagdalpur, 19 May 2010
- 2008AB1367 Navneet Kaur Saini, SSPL Delhi, 21 May 2008
- 2010AB1134 Harshal Maske VRDE, Ahmednagar, 21 May 2010

VP PANDE  
Associate

ARMY BRANCH

No. 120, dated 11th February 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Brig to be Maj Genl

DR-10295P, Maj Gen Murali Mohan, 18 Mar 2010 (with notional seniority from 31 Dec 2008)

DR-10315X, Maj Gen JP Singh, 30 Mar 2010 (with notional seniority from 10 Feb 2010)



Col to be Brig

DR-10344M, Col Ramen Sinha, 23 Mar 2010

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

## ARMY BRANCH

No. 121, dated 14th February 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt MS Rathore (TA-42230), Inf, 07 Jun 2010

Capt Sidharth Sharma (TA-42534), Inf, 29 Oct 2010

Capt Chubaonen Long Kumar (TA-42545), Inf, 25 Nov 2010

Capt Dixit Sanjay Girish Chand (TA-42547), Inf, 10 Dec 2010

Capt Dharam Bahadur (TA-42548), Inf, 18 Dec 2010

To be Capt

Lt JS Bhardwaj TA (NT)-1215, (Non-Tech TA), 20 Oct 2010

Lt VD Bhardwaj TA (NT)-1216, (Non-Tech TA), 20 Oct 2010

JAI RAJ  
Dy Secy

## ARMY BRANCH

No. 122, dated 14th February 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE SIKH REGIMENT

To be Sub Major

Sub Baldev Singh (JC-498710Y), 01 Aug 2010

To be Sub

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-499799H), 15 Aug 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darshan Singh (JC-499727Y), 21 Aug 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bharpur Singh (JC-499709W), 07 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amarjit Singh (JC-499590X), 03 Aug 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-499722A), 01 Aug 2010

Nb Sub Balbir Singh (JC-499754H) 01 Aug 2010

To be Sub Maj

Sub Baldev Singh (JC-498980N), 01 Mar 2010

To be Sub

Nb Sub Amarjit Singh (JC-499836L), 20 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tara Singh (JC-499719A), 02 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sewa Singh (JC-499733M), 06 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Sukhdev Singh (JC-498721L), 01 Oct 2010

Sub Sukhwinder Singh (JC-499021K), 01 Oct 2010

To be Sub

Nb Sub Kuldip Singh (JC-499652M), 07 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 14 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gursewak Singh (JC-499802X), 14 Sep 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499695F), 06 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-499721X), 01 Oct 2010

Nb Sub Daljit Singh (JC-499764M), 01 Oct 2010

Nb Sub Didar Singh (JC-499960M), 13 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

## THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Majs Clerks

Sub/Clk Gurcharan Singh Sandhu (JC-429654A), 01 Jun 2010

Sub/Clk Shashi Kumar (JC-429771L), 01 Aug 2010

To be Sub Clerks

Nb Sub/Clk Ajaib Singh Bains (JC-430121K), 01 Sep 2010

Nb Sub/Clk Jai Singh (JC-430134F), 01 Sep 2010

To be Sub Majs

Sub Atma Singh Chahal (JC-429010A), 01 Jun 2010

Sub Gurdial Singh (JC-429157W), 01 Aug 2010  
 Sub Tarlochan Singh (JC-429485K), 01 Sep 2010  
 To be Sub  
 Nb Sub Jagdev Singh (JC-429866L), 01 May 2010  
 Nb Sub Dharm Singh (JC-429979N), 01 May 2010  
 Nb Sub Parmjit Singh (JC-430042P), 01 May 2010  
 Nb Sub Chander Bhan Singh (JC-430168P), 01 May 2010  
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-430241H), 01 May 2010  
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-430311W), 01 May 2010  
 Nb Sub Janak Raj (JC-430397A), 01 May 2010  
 Nb Sub Subash Chander (JC-430287L), 01 Apr 2010  
 Nb Sub Pawan Kumar (JC-430275F), 01 Apr 2010  
 Nb Sub Raghuvir Singh (JC-430316P), 01 Apr 2010  
 Nb Sub Bhupinder Singh (JC-430059H), 01 May 2010  
 Nb Sub Parkash Chand (JC-430207H), 01 May 2010  
 Nb Sub Vatan Singh (JC-430399L), 01 May 2010  
 Nb Sub Hemraj Singh (JC-429914A), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-430124X), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Amrik Singh (JC-429966W), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Madan Lal Jangral (JC-430424Y), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Suram Singh (JC-429943P), 27 Dec 2009  
 Nb Sub Madan Lal (JC-430301M), 25 Apr 2010  
 Nb Sub Bhagwan Singh (JC-430243N), 20 May 2010  
 Nb Sub Rawail Singh (JC-430312Y), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Amar Chand (JC-430549W), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Gurbhag Singh (JC-430329M), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Nerveel Singh (JC-430113L), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Pardeep Kumar (JC-430249P), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Harbinder Singh (JC-430302P), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Yudhbir Singh (JC-430348X), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Prem Lal (JC-430364P), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-430492M), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Balbir Singh (JC-430553Y), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Hardip Singh (JC-430035Y), 01 May 2010  
 Nb Sub Raj Singh (JC-430092A), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Ravinder Kumar (JC-430212N), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Mohan Lal (JC-430406W), 01 Jul 2010  
 Nb Sub Vinod Kumar (JC-430269H), 10 Jul 2010  
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-429952W), 01 Aug 2010

Nb Sub Baljinder Singh (JC-430144L), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Iqbal Singh (JC-430197K), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Babin Kumar (JC-430278K), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Sukhwant Singh (JC-430330F), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Satpal Singh (JC-430356W), 01 Sep 2010  
 Nb Sub Krishan Singh (JC-430447A), 01 Sep 2010

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Parmodh Kumar Chauhan (JC-519888L), 01 Mar 2010  
 Sub Rakesh Kumar (JC-519903P), 02 Jun 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)  
 Sub Raj Mal Thakur (JC-519938L), 01 Aug 2010  
 Sub Desh Raj (JC-520000K), 01 Aug 2010

To be Sub

Nb Sub Bharth Raj (JC-520764H), 02 Aug 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Subhash Chand Thakur (JC-520815L), 05 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Jowan Lal (JC-520867F), 05 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Balinder Singh (JC-520772F), 07 Jun 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-520475N), 30 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 08 May 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Jeet Singh (JC-520576F), 03 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Bhagwan Dass (JC-520688F), 01 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Sukh Dev (JC-520741F), 13 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Mahinder Singh Rana (JC-520717L), 05 Aug 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 02 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-520756K), 26 Jul 2010+  
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 02 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub/Clk Gopal Singh Thakur (JC-519919A), 01 Aug 2010

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub/Clk Prabhati Lal (JC-520385M), 01 May 2010

Nb Sub/Clk Suresh Chander (JC-520402F), 15 Jun 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub/Clk Managala Prasad Singh (JC-520386P), 21 Jun  
 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub/Clk Ram Prasad (JC-520403K), 03 Aug 2010+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from  
 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Ram Singh Gariya (JC-539437M), 01 Sep 2010

Sub Prakash Chandra Joshi (JC-539484K), 03 Sep 2010/  
 01 Sep 2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj with  
 effect from 01 Sep 2010 without effect on pay and  
 allowances)

Sub Vadari Datt (JC-539488A), 20 Sep 2010/01 Sep 2010\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Maj with  
 effect from 01 Sep 2010 without effect on pay and  
 allowances)

#### THE SIKH LI

To be Sub Maj (GD)

Sub Hira Singh (JC-509038N), 01 Dec 2009

Sub Major Singh (JC-508776L), 01 Dec 2009

Sub Nirmal Singh, SM (JC-508690M), 01 Dec 2009

Sub Jagraj Singh (JC-508694H), 01 Jan 2010

Sub Kashmir Singh (JC-508888L), 01 Apr 2010

Sub Bhagwant Singh (JC-508748Y), 01 Apr 2010

Sub Sukhdev Singh (JC-508336X), 01 Jun 2010

To be Sub (GD)

Nb Sub Pirthipal Singh (JC-509283W), 28 May 2009

Nb Sub Sohan Singh (JC-509500F), 01 Jun 2009

Nb Sub Baljit Singh (JC-509493W), 01 Jun 2009

Nb Sub Darshan Singh (JC-509496K), 01 Jun 2009

Nb Sub Balwinder Singh (JC-509497M), 01 Jul 2009

Nb Sub Tarsem Singh (JC-509552X), 01 Jul 2009

Nb Sub Jagwinder Singh (JC-509384K), 19 Aug 2009

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-509343A), 01 Oct 2009

Nb Sub Jasbir Singh (JC-509349F), 01 Oct 2009

Nb Sub Harbans Singh (JC-509448K), 01 Oct 2009

Nb Sub Tilakraj Singh (JC-509387X), 01 Nov 2009

Nb Sub Surinder Singh (JC-509589Y), 02 Dec 2009

Nb Sub Sukhraj Singh (JC-509365Y), 01 Feb 2010

Nb Sub Tarlok Singh (JC-509374A), 01 Mar 2010

Nb Sub Baldev Singh (JC-509413N), 01 Apr 2010

Nb Sub Karamjit Singh (JC-509454X), 01 Apr 2010

Nb Sub Babu Singh (JC-509456H), 25 Apr 2010

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-509488L), 28 Apr 2010

Nb Sub Jaspal Singh (JC-509516M), 04 May 2010

Nb Sub Jarnail Singh (JC-509599H), 04 May 2010

Nb Sub Shinderpal Singh (JC-509600M), 01 Jun 2010

Nb Sub Gurmit Singh (JC-509607W), 01 Jun 2010

Nb Sub Jagdish Singh (JC-509646P), 01 Aug 2010

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-509641W), 01 Aug 2010

Nb Sub Tara Singh (JC-509687Y), 01 Sep 2010

Nb Sub Ram Singh (JC-509688F), 01 Sep 2010

Nb Sub Mangal Singh (JC-509704N), 01 Sep 2010

Nb Sub Karnail Singh (JC-509588W), 01 Oct 2010

Nb Sub Pirthipal Singh (JC-509450F), 01 Feb 2009

Nb Sub Gurdip Singh (JC-509436P), 01 Mar 2009

Nb Sub Amrik Singh (JC-509291P), 26 Jun 2009

Nb Sub Krishan Singh (JC-509293A), 26 Jun 2009

Nb Sub Balwinder Singh (JC-509359L), 06 Jul 2009

Nb Sub Harmail Singh (JC-509360A), 02 Sep 2009

Nb Sub Tarlok Singh (JC-509524L), 01 Oct 2009

Nb Sub Gurmail Singh (JC-509568H), 01 Oct 2009

Nb Sub Ram Singh (JC-509437X), 19 Dec 2009

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-509439H), 01 Mar 2010

Nb Sub Sohan Singh (JC-509440X), 01 Mar 2010

Nb Sub Jagmeet Singh (JC-509458N), 01 Mar 2010

Nb Sub Sukhraj Singh (JC-509467P), 11 Mar 2010

Nb Sub Narinder Singh (JC-509569L), 19 Mar 2010

Nb Sub Angrej Singh (JC-509501K), 01 Apr 2010

Nb Sub Narinder Singh (JC-509598A), 01 Jun 2010

Nb Sub Makhan Singh (JC-509502M), 01 Aug 2010

Nb Sub Nishan Singh (JC-509590N), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-509584A), 14 Aug 2010  
 Nb Sub Sukhvinder Singh (JC-509594K), 01 Sep 2010  
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-509601P), 01 Oct 2010  
 Nb Sub Jagga Singh (JC-509606N), 01 Oct 2010  
 Nb Sub Karnail Singh (JC-509608Y), 01 Oct 2010  
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-509660F), 01 Oct 2010

To be Sub (Clk) (SD)

Nb Sub (Clk) Bahadur Singh (JC-509229H), 01 Nov 2009  
 Nb Sub (Clk) Vijay Singh Negi (JC-509220N), 01 Jan 2010  
 Nb Sub (Clk) Ramesh Chandra Yadav (JC-509266W),  
 01 Feb 2010  
 Nb Sub (Clk) Kumar Shen (JC-509244X), 01 Feb 2010  
 Nb Sub (Clk) Suresh Kumar Sharma (JC-509287M),  
 01 May 2010  
 Nb Sub (Clk) Virendra Singh Baghel (JC-508903P),  
 01 Jun 2010  
 Nb Sub (Clk) Mane Pandurang Narayan (JC-509288P),  
 01 Jun 2010  
 Nb Sub (Clk) Satbir Singh (JC-509312A), 01 Oct 2010

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub

Nb Sub P Mahesh Kumar (JC-439923P), 22 Jan 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 12 Sep 2009  
 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Subramanian A (JC-439887P), 15 Jan 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Sep 2009  
 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Sasidharan Nair Painsi (JC-439846L), 20 Mar 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 09 Oct 2009 without  
 effect on pay and allces)  
 Nb Sub Voasu Ramanaiah (JC-439785Y), 27 Feb 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 Nov 2009  
 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Joshi A (JC-439847N), 10 Feb 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 17 Nov 2009  
 without effect on pay and allces)  
 Nb Sub Padakanti Satyanarayana (JC-439784W), 21 Feb  
 2010\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 30 Dec 2009  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub K Sankaran (JC-439796L), 25 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 30 Dec 2009  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dora Babu Mutti Reddi (JC-439771Y), 05 Feb  
 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
 effect on pay and allces)

Nb Sub Santhosh KP (JC-439823K), 14 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
 effect on pay and allces)

Nb Sub J Melvin Roy (JC-439882W), 11 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
 effect on pay and allces)

Nb Sub B Murthy (JC-439925A), 30 Jan 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
 effect on pay and allces)

Nb Sub N Rangaiah Chary (JC-439570A), 16 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sadashiv Lugari (JC-439750H), 01 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sasi D (JC-439797N), 09 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub T Ganapathi (JC-439933Y), 10 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Adusumalli Rambabu (JC-439671N), 29 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 Feb 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dinesan CV (JC-439879W), 22 Mar 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Pradeepan Chamathayil (JC-439903F), 16 Mar  
 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub T Senthil Kumar (JC-439795H), 02 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 09 Mar 2010  
 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ashok Kumar P (JC-439645M), 01 Apr 2010

Nb Sub Seenivasakap Perumal V (JC-439647X), 01 Apr  
 2010

Nb Sub Ganjikutla Ch Pullaiah (JC-439648A), 01 Apr 2010

Nb Sub (Clk) Nirmal Babu P (JC-439659M), 01 Apr 2010

Nb Sub Korapatti Sivakumar (JC-439684L), 01 Apr 2010

Nb Sub Devaresh L Hottennavar (JC-439705W), 03 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Raghuthaman KM (JC-439703L), 01 Apr 2010

Nb Sub Kusangi Mogulaiah (JC-439751L), 30 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Suresh PK (JC-439716H), 30 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Raju N (JC-439817W), 03 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub N Gunasekaran (JC-439855M), 16 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub S Murugan (JC-439856P), 17 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub K Raja (JC-439826X), 12 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Shaji V (JC-439857X), 25 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rajeevan VK (JC-439895N), 01 Apr 2010

Nb Sub Sasi Kumar C (JC-439896W), 01 Apr 2010

Nb Sub Muniasamy V (JC-440002F), 25 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub P Francis Xavier (JC-440003K), 14 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sasidharan TP (JC-440004M), 21 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Gedala Krishna Rao (JC-440041A), 11 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Padmappa Hulamani (JC-440049M), 24 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Shanmugavel K (JC-440059W), 24 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Elson Thumbipuram (JC-440060L), 24 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kamalakshan (JC-440139N), 28 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub M Chenthamarai Krishnan (JC-440140H), 05 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub (Clk) James John (JC-439660F), 16 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Bijumon K (JC-439781H), 22 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub S Ravi Kumar (JC-439813A), 15 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Muralidharan K (JC-439883Y), 10 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub M Babu (JC-439870F), 02 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Udaya Kumar S (JC-439934F), 01 May 2010

Nb Sub M Jagannath (JC-440160W), 30 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Venkatesan M (JC-439989L), 07 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Baiju KR (JC-440027N), 08 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 29 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Prasad MS (JC-439828H), 01 Jun 2010

Nb Sub Santhosh John (JC-439991H), 26 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ira Gouda Patil (JC-439904K), 01 Jul 2010

Nb Sub MA Mazed (JC-439905M), 01 Jul 2010

JAK LI

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub (GD) Ichpal Singh (JC-592776N), 01 Aug 2010

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2010)

To be Subs Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) M Rajan (JC-593141F), 25 Mar 2010

(Gtd seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 20 Jan 2010)

Nb Sub(Clk) A Subramanian (JC-593142K), 16 Jul 2010

(Gtd seniority in the rank of Sub Clk (SD) wef 01 May 2010)

JAK RIF

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Bir Singh (JC-579834N), Jak Rif, 01 Oct 2010

Sub Yadu Nath (JC-579919K), Jak Rif, 01 Oct 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Suresh Kumar Thapa (JC-580028N), Jak Rif, 01 Apr 2009

Nb Sub Mulakh Raj (JC-580459A), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Surjeet Sharma, SM (JC-580475X), Jak Rif, 26 Jul 2010

Nb Sub Brahmū Ram (JC-580316A), Jak Rif, 01 Aug 2010

Nb Sub Sukhdarshan Singh Thakur (JC-580317H), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Baldev Singh Atri (JC-580528L), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Jagdish Chand (JC-580548Y), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Mohan Lal Sharma (JC-580590X), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Ravi Kumar (JC-580599M), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Raghubir Singh (JC-580691L), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Harbans Singh (JC-580716M), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Dhan Bahadur Thapa (JC-580739N), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580753A), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Yashpal Singh (JC-580809F), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Suresh Kumar (JC-580805L), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Balwant Singh (JC-580540M), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Narayan Singh (JC-580559L), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Shamsher Singh (JC-580592H), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Resham Singh (JC-580595W), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Sajjan Singh (JC-580603K), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Raghbir Singh (JC-580635M), Jak Rif, 01 Oct 2010

To be Subs Sub (Musn)

Nb Sub Paras Ram (JC-580642H), Jak Rif, 01 Jul 2010

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Jaswant Singh (JC-579497K), Jak Rif, 04 Jun 2010

Sub Hans Raj (JC-579843P), Jak Rif, 01 Aug 2010

Sub Surinder Mohan (JC-579971M), Jak Rif, 01 Aug 2010

Sub Gere Ram Thakur (JC-579877H), Jak Rif, 01 Aug 2010

Sub Ram Bahadur Khatri (JC-579418K), Jak Rif, 01 Aug 2010

Sub Krishan Singh (JC-579756F), Jak Rif, 03 Aug 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Shamsher Singh (JC-580447L), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Biswa Gurung (JC-580683M), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Manoj Kumar (JC-570693W), Jak Rif, 01 Apr 2010

Nb Sub Pardip Kumar (JC-580385W), Jak Rif, 01 May 2010

Nb Sub Prithvi Singh (JC-580566F), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Romesh Singh (JC-580646Y), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Jagdish Raj (JC-580421Y), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Kehar Singh (JC-580452W), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Mohd Rashid (JC-580738L), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Abdul Azad (JC-580695F), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-580574A), Jak Rif, 01 Jun 2010

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580712W), Jak Rif, 01 Jul 2010

Nb Sub Malkiat Singh (JC-580702M), Jak Rif, 01 Jul 2010

Nb Sub Ranbir Chand (JC-580763K), Jak Rif, 01 Jul 2010

Nb Sub Davinder Narayan (JC-580733M), Jak Rif, 01 Jul 2010

Nb Sub Inder Singh (JC-580627N), Jak Rif, 01 Aug 2010

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580765P), Jak Rif, 01 Aug 2010

Nb Sub Manohar Lal (JC-580638A), Jak Rif, 01 Aug 2010

Nb Sub Swaran Singh (JC-580746K), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Angrez Singh (JC-580783X), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Sudershan Kumar (JC-580510P), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Mohan Lal (JC-580422Y), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Battan Singh (JC-580467Y), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Waryam Singh (JC-580485F), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Sudesh Kumar (JC-580474P), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Narinder Paul (JC-580549F), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Prikshit Bhangalia (JC-580651K), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Kapoor Singh Rana (JC-580518F), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Babu Singh (JC-580774N), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Gurbachan Singh (JC-580756M), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Dinesh Bahadur Gurung (JC-580515N), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Om Prakash (JC-580764M), Jak Rif, 01 Aug 2010  
 Nb Sub Jagdish Singh (JC-580368W), Jak Rif, 01 Sep 2010  
 Nb Sub Bhag Singh (JC-580694A), Jak Rif, 01 Sep 2010  
 To be Subs Sub Maj (GD)  
 Sub Jai Singh (JC-579870Y), Jak Rif, 01 Jun 2010  
 To be Subs Sub (GD)  
 Nb Sub Daulat Ram (JC-580450L), Jak Rif, 11 Dec 2009  
 Nb Sub Sagar Singh Chib (JC-580629Y), Jak Rif, 01 Jan 2010  
 Nb Sub Dalbir Singh (JC-580557A), Jak Rif, 03 May 2010  
 Nb Sub Joginder Paul (JC-580676W), Jak Rif, 05 May 2010  
 Nb Sub Parshotam Kumar (JC-580727Y), Jak Rif, 05 May 2010  
 Nb Sub Bhoop Ram (JC-580607A), Jak Rif, 10 May 2010  
 Nb Sub Ganesh Singh Kunwar (JC-580854N), Jak Rif, 12 May 2010  
 Nb Sub Chhaju Singh (JC-580544H), Jak Rif, 15 May 2010  
 Nb Sub Kartar Singh (JC-580456M), Jak Rif, 17 May 2010  
 Nb Sub Krishan Kumar Gurung (JC-580878X), Jak Rif, 26 May 2010  
 Nb Sub Ravinderpal Singh (JC-580659W), Jak Rif, 27 May 2010

Nb Sub Tanka Rana (JC-580728F), Jak Rif, 28 May 2010  
 Nb Sub Vikas Sharma (JC-580363X), Jak Rif, 01 Jun 2010  
 Nb Sub Jaimal Singh (JC-580704X), Jak Rif, 01 Jun 2010  
 Nb Sub Bhupender Singh (JC-580717P), Jak Rif, 02 Jun 2010  
 Nb Sub Tirath Singh (JC-580723H), Jak Rif, 02 Jun 2010  
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-580472K), Jak Rif, 09 Jun 2010  
 Nb Sub Sushil Kumar Thapa (JC-580616F), Jak Rif, 12 Jun 2010  
 Nb Sub Karnail Singh (JC-580703P), Jak Rif, 21 Jun 2010  
 Nb Sub Raj Kumar Dhiman (JC-580555H), Jak Rif, 30 Jun 2010  
 Nb Sub Milap Chand (JC-580605P), Jak Rif, 30 Jun 2010  
 Nb Sub Vijay Lal (JC-580626L), Jak Rif, 01 Jul 2010

4 GR

To be Sub Maj

Sub Padam Bahadur Pun (JC-612465K), 01 Jul 2010  
 Sub Bikram Singh (JC-612487H), 01 Jul 2010

To be Sub

Nb Sub Shanker Gurung (JC-612701A), 04 Jun 2010  
 (Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 May 2010)  
 Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC-612779L), 01 Jun 2010  
 Nb Sub Lal Mane Pun (JC-612726M), 01 Jul 2010  
 Nb Sub (Clk SD) Shri Krishan Roy (JC-612735N), 06 Jul 2010  
 (Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Jul 2010)  
 Nb Sub (Clk SD) Nishi Kanta Singha (JC-612748L), 13 Jul 2010  
 (Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Jul 2010)  
 Nb Sub (Clk SD) Akhilesh Kumar Singh (JC-612751L), 01 Aug 2010  
 Nb Sub (Clk SD) Kunwar Singh Shakya (JC-612754Y), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Eak Bahadur Gaha (JC-612727P), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Dal Bahadur Thapa (JC-612724F), 02 Aug 2010  
 (Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Aug 2010)  
 Nb Sub Bhim Bahadur Thapa (JC-612732A), 01 Aug 2010  
 Nb Sub Singh Bahadur Gurung (JC-612728X), 01 Sep 2010

Nb Sub Bhim Bahadur Gurung (JC-612736W), Now Sub  
01 Sep 2010

Nb Sub Gyanendra Thapa (JC-612745X), Now Sub 01 Sep  
2010

#### INFANTRY

11 GR

To be Sub Maj

Sub Khadak Chand (JC-634333W), 07 Jan 2010

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

Sub Pravin Rai (JC-634428W), 01 Apr 2010

Sub Shuvo Kumar Rai (JC-634437X), 05 Apr 2010

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Sub Mishra Bahadur Loxom (Subba) (JC-634438A),  
01 Apr 2010

Sub Chhatra Bahadur Shrestha (JC-634440X), 01 Apr 2010

Sub Yogya Bikram Limbu (JC-634442H), 01 May 2010

To be Sub

Nb Sub Ashok Rai (JC-634758P), 01 Aug 2009

Nb Sub Mahendra Kumar Rai (JC-634794A), 01 Aug 2009

Nb Sub Tilak Bahadur Rai (JC-634657F), 15 Aug 2009

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without  
effect on pay & allces)

Nb Sub Bishnu Kumar Limbu (JC-634767W), 09 Sep 2009

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009  
without effect on pay & allces)

Nb Sub Deo Raj Rai (JC-634777A), 01 Sep 2009

Nb Sub Mani Raj Rai (JC-634747H), 01 Jan 2010

Nb Sub Tek Bahadur Tamang (JC-634748L), 11 Jan 2010

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
effect on pay & allces)

Nb Sub Dil Bikram Limbu (JC-634789P), 01 Jan 2010

Nb Sub Dambar Subba (JC-634796L), 01 Jan 2010

Nb Sub Baja Hang Limbu (JC-634707F), 01 Jan 2010

Nb Sub Suresh Kumar Pokhrel (JC-634708K), 09 Jan 2010

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without  
effect on pay & allces)

Nb Sub Dhan Bahadur Rai (JC-634773K), 01 Jan 2010

Nb Sub Chandra Prasad Thalang (JC-634757M), 20 Feb  
2010

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jan 2010 without  
effect on pay & allces)

Nb Sub Chandra Bahadur Rai (JC-634770W), 01 Feb 2010

Nb Sub Ratna Bahadur Thapa (JC-634718N), 01 Mar 2010

Nb Sub Mohan Bahadur Thapa (JC-634781H), 01 Mar  
2010

Nb Sub Ramesh Rai (JC-634795H), 01 Apr 2010

Nb Sub Kul Bahadur Tamang (JC-634719W), 01 Apr 2010

Nb Sub Bir Bahadur Tamang (JC-634784W), 01 Apr 2010

#### THE MARATHA LI

To be Sub Maj (GD)

Sub Shinde Navanath Shivaji (JC-458527N), 15 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Tukaram Siddapa Patil (JC-458588L), 22 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 23 Jan  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Mahadik Shalinder Kashiram (JC-458672L), 23 Jan  
2010

Sub Dilip Ishwar Gaikwad (JC-458784L), 25 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 10 Feb  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Gopinath RP (JC-458556H), 02 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Murlidhar Baburao Badhe (JC-458766H), 03 May  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Balaso Anandrao Jamadar (JC-458644Y), 01 May  
2010

Sub Vasantha Rai (JC-458686L), 04 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun  
2010 without effect on pay and allowances)

Sub Kamble Vishwanath Masaji (JC-458845X), 02 Jun  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun  
2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub (GD)

Nb Sub Ashoke Maluche (JC-459659N), 21 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 18 Nov 2009  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Aeer Umesh Sakharam (JC-459651F), 13 May  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)



Nb Sub Chavan Sainath Jagannath (JC-459678Y), 11 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mehar Singh (JC-459618K), 11 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 06 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Najeeb Khan MS (JC-459511P), 17 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shaik Nanne Saheb (JC-459711L), 24 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Upender Singh Thakur (JC-459585K), 15 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Thorat Chatrabhuj Achutrao (JC-459767X), 19 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhosale Ganesh Abajirao (JC-459761W), 27 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mane Kundan Narayan (JC-459634F), 26 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ghadage Balu Sitaram (JC-459724H), 18 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Phadatare Vijaykumar Tanaji (JC-459723A), 19 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kapadnis Sanjay Nimba (JC-459772H), 01 Jun 2010

Nb Sub Narayan Harale (JC-459733K), 04 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satya Vijay Padwalkar (JC-459844F), 01 Jun 2010

9 GR

To be Sub Maj

Sub Bharat Bahadur Thapa (JC-629564H), 06 Nov 2009/01 Nov 2009\*

Sub/RT Narayan Prasad Gautam (JC-143090P), 01 May 2010

Sub/Clk Rajender Singh (JC-629271X), 05 Jul 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Gam Bahadur Malla (JC-629784M), 04 Feb 2010/09 Jun 2008\*

Nb Sub Gokarna Raj Gnwali (JC-629743H), 04 Jan 2010/01 Nov 2009\*

Nb Sub/Clk Vinod Kumar Pathak (JC-629697Y), 01 Dec 2009

Nb Sub Khem Bahadur KC (JC-629761L), 22 Jan 2010/01 Dec 2009\*

Nb Sub Ram Bahadur Chhetri (JC-629774H), 25 Jan 2010/01 Dec 2009\*

Nb Sub Sanjeev Kumar Upadhayay (JC-629775L), 15 Jan 2010/01 Jan 2010\*

Nb Sub Krishna Bahadur Malla (JC-629776N), 01 Feb 2010

Nb Sub/Clk Suresh Kumar Chhetri (JC-629611P), 01 Apr 2010

Nb Sub Min Bahadur Khati (JC-629758L), 01 May 2010

Nb Sub Prem Bahadur Chhetry (JC-629759N), 05 May 2010/01 May 2010\*

Nb Sub Binod KC (JC-629812N), 01 Jun 2010

Nb Sub Dev Bahadur Malla (JC-629814Y), 01 Jun 2010

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

3 GR

To be Sub Maj

Sub Raj Kumar Gurung (JC-607458K), 06 Sep 2009/01 Mar 2009\*

Sub Khem Bahadur Bhujel (JC-607534L), 01 Nov 2009

Sub Yam Bahadur Khand (JC-607480P), 29 Dec 2009/01 Dec 2009\*

Sub Dirga Bahadur Rana (JC-607498L), 01 Apr 2010

Sub/Clk Sutesh Kumar Rawat (JC-607218M), 14 May 2010/01 May 2010\*

Sub Lekh Nath Tiwari (JC-607544N), 02 Aug 2010/01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

## To be Sub

Nb Sub Yam Prasad Gurung (JC-607712H), 15 Apr 2009/  
01 Apr 2009\*

Nb Sub Dhawaraj Ghising (JC-607713L), 07 Apr 2009/  
01 Apr 2009\*

Nb Sub Om Narayan Shrestha (JC-607645H), 22 Mar 2010/  
12 Aug 2009\*

Nb Sub Ram Kumar (JC-607671K), 22 Mar 2010/01 Sep  
2009\*

Nb Sub/Clk Vinod Kumar Pal (JC-607658A), 01 Nov 2009

Nb Sub Khum Bahadur Kuwar Magar (JC-607718K),  
01 Dec 2009

Nb Sub Khem Bahadur (JC-607677L), 23 Mar 2010/29 Dec  
2009\*

Nb Sub Hari Bahadur Thapa (JC-607716Y), 11 Jan 2010/  
01 Jan 2010\*

Nb Sub/Clk Pranobesh Roy (JC-607694L), 15 Feb 2010/  
01 Feb 2010\*

Nb Sub Kharka Bahadur Gurung (JC-607717F), 01 Feb  
2010

Nb Sub Tul Bahadur Bucha (JC-607663L), 26 Apr 2010/  
01 Apr 2010\*

Nb Sub Bhim Bahadur Gurung (JC-607669M), 16 Apr  
2010/01 Apr 2010\*

Nb Sub Tej Bahadur (JC-607687P), 01 May 2010

Nb Sub Purna Bahadur Thapa (JC-607722M), 06 May  
2010/01 May 2010\*

Nb Sub/Clk Ishwar Singh (JC-607731N), 01 May 2010

Nb Sub Kishen Kumar Thapa (JC-607691X), 02 Jun 2010/  
01 Jun 2010\*

Nb Sub Gyan Bahadur Thapa (JC-607695N), 07 Jun 2010/  
01 Jun 2010\*

Nb Sub Kesh Bahadur Thapa (JC-607724X), 02 Jun 2010/  
01 Jun 2010\*

Nb Sub Bum Bahadur Ale (JC-607727L), 12 Jul 2010/01 Jul  
2010\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

## THE GARHWAL RIFLES

## To be Sub Maj

Sub Vesakh Singh, SM (JC-529587P), 01 Aug 2010

## To be Sub Maj/Clk (SD)

Sub/Clk (SD) Krishan Kumar (JC-529666K), 21 Jul 2010/  
01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj/Clk (SD) wef  
01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

## To be Sub

Nb Sub Pratap Singh (JC-530313W), 01 Apr 2010/21 May  
2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 May 2009  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jai Singh, SM (JC-530384X), 20 Apr 2010/01 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajendra Singh (JC-530183Y), 16 Jul 2010/24 Jan  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Jan 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagadeep Singh Rawat (JC-530385A), 05 May  
2010/01 Mar 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raghubir Singh Khatri (JC-530468L), 08 May  
2010/01 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yogendra Singh Negi (JC-530417X), 01 Apr 2010

Nb Sub Jagmohan Singh (JC-530477M), 01 Apr 2010

Nb Sub Birendra Singh (JC-530422H), 11 Jun 2010/  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagmohan Singh (JC-530420X), 01 Jul 2010/  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhirander Singh Aswal (JC-530424N), 01 Jul 2010/  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Brijmohan Singh (JC-530425W), 01 May 2010

Nb Sub Kuldeep Kumar (JC-530426Y), 02 Jul 2010/  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Uday Singh (JC-530471L), 30 Jun 2010/01 May  
2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhan Singh (JC-530472N), 30 Jun 2010/01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sheeshpal Singh (JC-530423L), 05 Aug 2010/01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bishan Datt (JC-530487W), 16 Aug 2010/01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gajendra Singh Rawat (JC-530319X), 08 Jun 2010/01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narayan Singh (JC-530307H), 13 Aug 2010/01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gahna Singh (JC-530308L), 17 Aug 2010/01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Padam Raj Bhatt (JC-530503H), 17 Aug 2010/01 Jun 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagmohan Singh (JC-530605Y), 15 Jul 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Puran Singh (JC-530673M), 15 Jul 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Janardhan Prasad (JC-530684Y), 15 Jul 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mangal Singh (JC-530582H), 07 Aug 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ganesh Chandra Dhuliya (JC-530186M), 16 Aug 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Puran Singh (JC-530148W), 19 Jul 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dil Singh (JC-530350K), 18 Aug 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Virkhodar Singh Negi (JC-530439W), 20 Aug 2010/01 Jul 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shankar Singh (JC-530309H), 13 Aug 2010/01 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dayal Singh (JC-530458F), 01 Aug 2010

To be Sub/Clk (SD)

Nb Sub/Clk (SD) Lal Singh Rawat (JC-530206P), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) Shamsher Singh (JC-530196W), 04 Aug 2010/01 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub/Clk (SD) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub (RT)

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-528831X), 10 May 2010/01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

#### THE RAJPUT REGIMENT

Promotion of JCOs to the Rank of Sub Maj

Sub Maj Puran Singh (JC-479307Y), 01 Jun 2010

Sub Maj Satyawan (JC-479272M), 01 Jul 2010

Sub Maj Sabal Singh (JC-479413W), 12 Aug 2010

Sub Maj Matu Singh (JC-479226X), 01 Sep 2010

Sub Maj Ram Niwas (JC-479551X), 01 Sep 2010

Promotion of JCOs RT to the Rank of Sub RT

Sub (RT) Uma Shankar Tripathi (JC-478760H), 01 Jun 2010

Sub (RT) Sadanand Mishra (JC-478761L), 01 Aug 2010

Promotion of JCOs Clk to the Rank of Sub Clk  
Sub/Clk SU Govindaraja Sankar (JC-479716L), 08 Jul 2010/  
01 Feb 2010\*

\*(Seniority wef 01 Feb 2010 without pay and allces)

Sub/Clk Shiv Sharan Singh (JC-479894N), 01 Aug 2010

Sub/Clk Sheo Narayan Thakur (JC-479934K), 01 Sep 2010

Promotion of JCOs to the Rank of Subs

Sub Sher Singh (JC-479944M), 12 Dec 2009/01 Mar 2009\*

\*(Seniority wef 01 Mar 2009 without pay and allces)

Sub Ajeet Kumar Singh (JC-480038H), 04 May 2010/  
01 Mar 2009\*

\*(Seniority wef 01 Mar 2009 without pay and allces)

Sub Rajendra Singh (JC-480072H), 26 Mar 2010/01 Jul  
2009\*

\*(Seniority wef 01 Jul 2009 without pay and allces)

Sub Subhash Chand Nagar (JC-480138N), 12 Sep 2009

Sub Devender Singh Sikarwar (JC-479852F), 08 Dec 2009/  
25 Oct 2009\*

\*(Seniority wef 25 Oct 2009 without pay and allces)

Sub Ram Pratap Singh (JC-480054A), 20 Nov 2009/  
01 Nov 2009\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2009 without pay and allces)

Sub Dhirendra Singh (JC-479943L), 01 May 2010/01 Nov  
2009\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2009 without pay and allces)

Sub Suresh Kumar Gurjar (JC-480235L), 02 Jun 2010/  
01 Nov 2009\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2009 without pay and allces)

Sub Raj Karan (JC-479580Y), 01 Dec 2009

Sub Zamil Ahmed (JC-480034M), 07 Mar 2010/04 Dec  
2009\*

\*(Seniority wef 04 Dec 2009 without pay and allces)

Sub Sangram Singh (JC-480173W), 01 Apr 2010/15 Dec  
2009\*

\*(Seniority wef 15 Dec 2009 without pay and allces)

Sub Satya Prakash (JC-480040A), 01 Jan 2010

Sub Mahavir Singh (JC-480045N), 01 Jan 2010

Sub Daya Ram (JC-480099A), 03 May 2010/02 Jan 2010\*

\*(Seniority wef 02 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Virendra Singh (JC-480066P), 14 Feb 2010/09 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 09 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Sho Ram (JC-480165X), 25 Feb 2010/13 Jan 2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Ram Niwas Singh Tomar (JC-480166A), 17 May 2010/  
13 Jan 2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Shyam Singh Jodha (JC-480167H), 14 May 2010/13  
Jan 2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Younus Khan (JC-480192F), 01 May 2010/13 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Harkesh Singh (JC-480171L), 11 Mar 2010/13 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Shree Chand (JC-480177L), 11 Mar 2010/13 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Daya Ram Gurjar (JC-480215X), 06 Mar 2010/13 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Ghanshyam Singh (JC-480213M), 22 Feb 2010/13 Jan  
2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Mool Singh (JC-480214P), 24 Feb 2010/13 Jan 2010\*

\*(Seniority wef 13 Jan 2010 without pay and allces)

Sub Shish Ram Gurjar (JC-479816W), 22 Feb 2010/01 Feb  
2010\*

\*(Seniority wef 01 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Chatar Singh Gurjar (JC-480103X), 01 Feb 2010

Sub Puran Mal (JC-480132M), 01 Feb 2010

Sub Vijay Narayan Singh (JC-479992A), 26 Feb 2010/01  
Feb 2010\*

\*(Seniority wef 01 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Bhim Singh (JC-480047K), 12 Mar 2010/07 Feb 2010\*

\*(Seniority wef 07 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Kunwar Bahadur Singh (JC-480226K), 22 Feb 2010/  
09 Feb 2010\*

\*(Seniority wef 09 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Krishna Kumar Singh (JC-480039L), 25 Mar 2010/  
10 Feb 2010\*

\*(Seniority wef 10 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Chotu Lal Gurjar (JC-480236N), 02 Jun 2010/18 Feb  
2010\*

\*(Seniority wef 18 Feb 2010 without pay and allces)

Sub Suresh Singh (JC-480009N), 01 Mar 2010

Sub Dewi Singh Patawat (JC-479967P), 01 Apr 2010

Sub Anand Singh Bika (JC-479874A), 09 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Vijay Singh (JC-480065N), 13 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Shailendra Singh (JC-480113F), 04 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Ujjain Singh Raghav (JC-480124N), 22 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Abhinandan Singh (JC-480011L), 09 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Gyanendra Singh Tanwar (JC-480020M), 20 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Rohtash (JC-480187W), 14 May 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Ram Raj Singh Kushwah (JC-480131K), 21 May 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef 01 Apr 2010 without pay and allces)

Sub Bheru Singh, SM (JC-480004P), 01 May 2010

Sub Rameshwar Singh Gurjar (JC-479818F), 01 May 2010

Sub Vinay Kumar Chauhan (JC-479928W), 01 May 2010

Sub Manohar Lal (JC-480147P), 31 May 2010/12 May 2010\*

\*(Seniority wef 12 May 2010 without pay and allces)

Sub Ram Kishan Yadav (JC-480041H), 01 Jun 2010

Sub Shiv Kumar (JC-480144F), 08 Jun 2010/01 Jun 2010\*

\*(Seniority wef 01 Jun 2010 without pay and allces)

Sub Ramesh Singh Tomar (JC-480080F), 04 Aug 2010/01 Jun 2010\*

\*(Seniority wef 01 Jun 2010 without pay and allces)

Sub Vijay Singh (JC-480217H), 01 Jun 2010

Sub Om Prakash (JC-480044W), 30 Jul 2010/21 Jun 2010\*

\*(Seniority wef 21 Jun 2010 without pay and allces)

## THE BIHAR REGIMENT

## To be Nb Sub (GD)

Hav Keshav Kumar Mishra (No. 4268328H now JC-560439L), 27 Sep 2010/01 Apr 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Santifelix Minj (No. 4268877H now JC-560440A), 23 Sep 2010/12 Apr 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Birsa Oraon (No. 4268238F now JC-560441H), 12 Sep 2010/01 May 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Chandra Mohan Jha (No. 4267260A now JC-560442L), 27 Sep 2010/17 Jul 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Jul 2010 without effect on pay and allces)

Hav Rabindra Nath Munda (No. 4269553K now JC-560443N), 19 Sep 2010/01 Aug 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)

Hav Khela Ram Hansdah (No. 4268053A now JC-560444W), 29 Sep 2010/23 Aug 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23 Aug 2010 without effect on pay and allces)

Hav Manoj Kumar Singh (No. 4267201N now JC-560445Y), 05 Oct 2010/01 Sep 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Alfred Tirkey (No. 4266895M now JC-560446F), 29 Sep 2010/01 Sep 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Kauleshwar Yadav, SM (No. 4266904H now JC-560447K), 20 Sep 2010/01 Sep 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ajay Kumar Singh (No. 4266996A now JC-560448M), 01 Sep 2010

Hav Bishwajit Prasad Singh (No. 13619306P now JC-560449P), 01 Sep 2010

Hav Ramesh Singh (No. 4267223M now JC-560450K), 01 Sep 2010

Hav Suresh Prasad (No. 4268293X now JC-560451M),  
01 Oct 2010/14 Sep 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 14 Sep 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jyoti Kumar Panna (No. 4266470N now JC-560452P),  
28 Sep 2010/15 Sep 2010(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 15 Sep 2010 without effect on pay and allces)

S ASHRAF  
Under Secy.

INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF  
DEFENCE (ARMY)

No. 123, dated 14th February 2011—The President is  
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (SD)

Hav (GD) Pratap Singh (No. 1577486P now JC-351601M),  
27 Oct 2010

Hav (GD) Tarsem Kumar (No. 1577743F now JC-351602P),  
21 Oct 2010

Hav (GD) Nimbalkar Rajkumar Sarjerao (No. 1577827P  
now JC-351603P), 20 Nov 2010

Hav (GD) Amrik Singh (No. 1577867W now JC-351604A),  
24 Nov 2010

Hav (GD) Santokh Singh (No. 1578134K now JC-351605H),  
10 Nov 2010

Hav (GD) Parmanand Singh (No. 1578137X now JC-  
351606L), 30 Oct 2010

Hav (GD) Shivraj Singh (No. 1578255L now JC-351607N),  
23 Oct 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Oct 2010 without effect on pay and allces)

Hav (GD) Ram Bahadur Prasad (No. 1578266X now JC-  
351611W), 08 Nov 2010

Hav (GD) Harendra Mohan Rai (No. 1578374F now JC-  
351612Y) 08 Nov 2010

Hav (GD) Sher Ali (No. 1578419W now JC-351613F),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Jadhav Rohidas Vankat (No. 1578429A now  
JC-351614K), 18 Nov 2010

Hav (GD) Raj Kumar (No. 1578462X now JC-351615M),  
04 Dec 2010

Hav Samant Bhagwan Singh (GD) (No. 1578489P now JC-  
351616P), 19 Nov 2010

Hav (GD) Mohammad Khurshed (No. 1578490K now JC-  
351617X), 19 Nov 2010

Hav (GD) Sharma Chanda Prakash Bhajan Lal (No.  
1578510M now JC-351618A), 18 Nov 2010

Hav (GD) Ram Shankar (No. 1578630L now JC-351619H),  
09 Nov 2010

Hav (GD) Ajit Singh (No. 1578702K now JC-351620X),  
22 Nov 2010

Hav (GD) Kadam Hanuman Bhagwan Rao (No. 1578732F  
now JC-351621A), 25 Nov 2010

Hav (GD) Kashmira Singh (No. 1578172A now JC-  
351622H), 03 Nov 2010

Hav (GD) Hans Raj (No. 1578350X now JC-351623L),  
01 Nov 2010

Hav (GD) Jaspal Singh (No. 1578382A now JC-351624N),  
03 Nov 2010

Hav (GD) Mohd Jamir Khan (No. 1578821A now JC-  
351625W), 18 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Nov 2010 without effect on pay and allces)

Hav (GD) Subhash Chandra (No. 1578822H now JC-  
351628K), 01 Dec 2010

Hav (GD) Man Singh (No. 1578834X now JC-351629M),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Karamjit Singh (No. 1578977X now JC-351630F),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Shri Krishna (No. 1579004N now JC-351631K),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Eidu Khan Mewati (No. 1579068Y now JC-  
351632M), 02 Dec 2010

Hav (GD) Dilbagh Singh (No. 1579148W now JC-351633P),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Rajindra Singh (No. 1579199K now JC-351634X),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Salunke Satish Sudam (No. 1586777W now JC-  
351635A), 01 Dec 2010

Hav (GD) Jakir Hussain (No. 1579366P now JC-351636H),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Mukhtiar Singh (No. 1579412Y now JC-351637L),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Rawal Singh (No. 1579438N now JC-351638N),  
01 Dec 2010

Hav (GD) Nasrullah (No. 1579507Y now JC-351639W),  
06 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec  
2010 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Gurpal Singh (No. 1575236P now JC-351573L),  
05 Jun 2010

Hav (GD) Nangare Sanjay Sitaram (No. 1576444W now  
JC-351574N), 16 Jun 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 May 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Jadhav Chandrakant Hanmant (No. 1577431L  
now JC-351575W), 01 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Satish Shirsat (No. 15571286Y now JC-351576Y),  
01 Oct 2010

Hav (GD) Ashish Singh (No. 15571287F now JC-351577F),  
01 Oct 2010

Hav (GD) Sarwan Singh (No. 1575013X now JC-351578K),  
01 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Rajmal Khan (No. 1574062N now JC-351579M),  
08 Sep 2010

Hav (GD) Paramjit Singh (No. 1572496P now JC-351580F),  
03 Sep 2010

Hav (GD) Shinde Dattu Bhausahab (No. 1576944N now  
JC-351581K), 01 Sep 2010

Hav (GD) Ekbal Mohd (No. 1576976W now JC-351582M),  
01 Sep 2010

Hav (GD) Manjit Singh (No. 1577270N now JC-351583P),  
08 Oct 2010

Hav (GD) Jaswant Singh (No. 1577313X now JC-351584X),  
17 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Jasvinder Kumar (No. 1577748A now JC-  
351588N), 24 Oct 2010

Hav (GD) Nachhattar Singh (No. 1577852N now JC-  
351589W), 16 Oct 2010

Hav (GD) Ram Avtar (No. 1577953F now JC-351590L),  
23 Oct 2010

Hav (GD) Prem Das (No. 1578052F now JC-351591N),  
15 Oct 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Hasbe Prakash Sukhdev (No. 1578803X now  
JC-351596M), 02 Nov 2010

Hav (GD) Bhosale Mahendra Maruti (No. 1578814K now  
JC-351597P), 03 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Shiv Kumar Saini (No. 1582403H now JC-  
351598X), 24 Nov 2010

Hav (Clk SD) Rajendra Singh (No. 6389889M now JC-  
351599A), 25 Nov 2010

Hav (Clk SD) Pawan Singh (No. 6389917N now JC-  
351600K), 18 Oct 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Debendra Kumar Mishra (No. 1581521K  
now JC-351608W), 20 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Dokka Aadrusta Rao (No. 6931535W now  
JC-351626Y), 01 Dec 2010

Hav (Clk SD) Bishram Singh (No. 6389918W now JC-  
351627F), 01 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Kumbhar Balawant Dadu (No. 1581381H  
now JC-351572H), 15 Oct 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Karnail Singh (No. 1582374Y now JC-  
351585A), 07 Oct 2010

Hav (Clk SD) Ayodhya Prasad (No. 6389883L now JC-  
351586H), 07 Oct 2010

Hav (Clk SD) Surender Kumar (No. 6389884N now JC-  
351587L), 21 Oct 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010  
without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Dinesh Kumar (No. 6931583W now JC-  
351592W), 01 Nov 2010

Hav (Clk SD) Balcharitra Tiwari (No. 1582199P now JC-  
351593Y), 01 Nov 2010

Hav (Clk SD) Raj Bahadur Singh (No. 6389844M now JC-  
351594F), 06 Nov 2010

Hav (Clk SD) Jagdish Chand (No. 1582635F now JC-  
351595K), 01 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010  
with/without effect on pay and allowances)

## To be Nb Sub (SKT)

Hav (Skt) Patil Lavhaji Shankar (No. 1587114X now JC-351609Y), 12 Nov 2010

Hav (Skt) Saseendran K (No. 1587262H now JC-351610N), 15 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

## BENGAL ENGINEER GROUP

## To be Nb Sub (GD)

Hav Cheni Ram Bora (No. 1479616W now JC-339248Y), 13 Sep 2010+

Hav Maha Singh (No. 1480288A now JC-339249F), 05 Oct 2010++

Hav Ranjit Kumar Singh (No. 1481314H now JC-339250W), 02 Aug 2010\$

Hav Gursharanjit Singh (No. 1481402Y now JC-339251Y), 01 Sep 2010%

Hav Brigesh Narayan (No. 1481433Y now JC-339252F), 06 Sep 2010%

Hav Shaji Chacko (No. 1578699P now JC-339253K), 01 Sep 2010%

Hav Rakesh Kumar (No. 1481608W now JC-339254M), 01 Sep 2010%

Hav Valendra Kumar Singh (No. 1481622H now JC-339255P), 01 Sep 2010%

Hav Manohar Singh (No. 1481625W now JC-339256X), 01 Sep 2010%

Hav Surendra Parida (No. 1481668L now JC-339257A), 01 Sep 2010%

Hav Ranjay Kumar (No. 1481703H now JC-339258H), 01 Sep 2010%

Hav Mahinder Singh (No. 1481785W now JC-339259L), 01 Sep 2010%

Hav Ajab Singh (No. 1481792M now JC-339260A), 01 Sep 2010%

Hav Udai Bhawan (No. 1481803N now JC-339261H), 01 Sep 2010%

Hav Anjani Kumar Singh (No. 1481822Y now JC-339262L), 01 Sep 2010%

Hav Tajinder Singh (No. 1481830X now JC-339263N), 01 Sep 2010%

Hav Ram Naresh Singh Kushwah (No. 1481895L now JC-339264W), 01 Sep 2010%

Hav Jodha Ram (No. 1481898Y now JC-339265Y), 01 Sep 2010%

Hav Subhasis Bera (No. 1481920Y now JC-339266F), 01 Sep 2010%

Hav Ramesh Dutt (No. 1476829Y now JC-339267K), 01 Sep 2010%

Hav Baldev Singh Sandhu (No. 1485437M now JC-339268M), 01 Sep 2010%

Hav Balwant Singh (No. 1491579A now JC-339269P), 01 Sep 2010%

Hav Narender Singh (No. 1492998K now JC-339270K), 01 Sep 2010%

## To be Nb Sub/Clk (SD)

Hav Suraj Bhan Singh (No. 1475802P now JC-339271M), 18 Sep 2010\*

Hav Ramesh Chand (No. 1484176X now JC-339272P), 01 Jul 2010&

Hav Gurnam Singh (No. 1483566N now JC-339273X), 01 Sep 2010%

Hav Prajapati Mahendra Kumar (No. 1483832F now JC-339274A), 01 Sep 2010%

Hav Nabin Chandra Panda (No. 1483745N now JC-339275H), 01 Sep 2010%

Hav Janardan Yadav (No. 1483868A now JC-339276L), 01 Sep 2010%

Hav Apphsaheb Mangavati (No. 1483561P now JC-339277N), 01 Sep 2010%

Hav Shailendra Kumar (No. 1483965X now JC-339278W), 01 Sep 2010%

Hav Shiv Parkash Dhyani (No. 1483976K now JC-339279Y), 01 Sep 2010%

Hav Ram Niwas (No. 1484112M now JC-339280N), 01 Sep 2010%

Hav Kalyan Ram Labad (No. 1484277L now JC-339281W), 01 Sep 2010%

## To be Nb Sub/Svy Cat

Hav Sufal Tarafdar (No. 1481452K now JC-339282Y), 01 Sep 2010%

Hav Balwan Singh (No. 1479352A now JC-339283F), 01 Sep 2010%

Hav Laxman Singh (No. 1479268A now JC-339284K), 04 Sep 2010%

Hav Dipul Baruah (No. 1479348X now JC-339285M), 04 Sep 2010%

Hav Nirmal Singh (No. 1488034X now JC-339286P), 04 Sep 2010%



Hav Hari Narayan Singh (No. 1479389F now JC-339287X),  
06 Sep 2010%

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009  
without effect on pay & allces)

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010  
without effect on pay & allces)

++(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jul 2010  
without effect on pay & allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010  
without effect on pay & allces)

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010  
without effect on pay & allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav Santosh PC (No. 1491259L now JC-339196N), 07 Jul  
2010+

Hav Virendra Sawroop (No. 1479223A now JC-339197W),  
26 Aug 2010\$

Hav Nirmal Mazumder (No. 1493174N now JC-339198Y),  
01 Jul 2010%

Hav Mohan Chandra Bhatt (No. 1475833P now JC-  
339199F), 29 Jun 2010\*

Hav Gopal Chandra Das (No. 1478375P now JC-339200L),  
28 May 2010\*

Hav Shesh Nath Singh Kushawaha (No. 1479767P now  
JC-339201N), 06 Jun 2010&

Hav Kavinder Rai (No. 1480524W now JC-339202W),  
03 Jul 2010^

Hav Sukhachain Singh (No. 1577112Y now JC-339203Y),  
01 Jul 2010#

Hav Rajnee Kant Singh (No. 1480117N now JC-339204F),  
01 Jul 2010#

Hav Devendra Singh (No. 1480121W now JC-339205K),  
01 Jul 2010#

Hav Prakash Singh (No. 1480240M now JC-339206M),  
01 Jul 2010#

Hav Mahipal Singh (No. 1480306X now JC-339207P),  
01 Jul 2010#

Hav Anant Patil (No. 1480370P now JC-339208X), 01 Jul  
2010#

Hav Shiv Prasad (No. 1480546P now JC-339209A), 01 Jul  
2010#

Hav Md Mustafa Amanullya (No. 1480592K now JC-  
339210P), 06 Jul 2010#

Hav Ronak Singh Harijan (No. 1480650H now JC-  
339211X), 01 Jul 2010#

Hav Mathura Prasad Kushwaha (No. 1480689P now JC-  
339212A), 01 Jul 2010#

Hav Harvender Pal Singh (No. 1480763L now JC-339213H),  
01 Jul 2010#

Hav Mekhala Vilas Babu Rao (No. 1480968A now JC-  
339214L), 01 Jul 2010#

Hav Punjaraman Singh Amar Singh (No. 1480995K now  
JC-339215N), 01 Jul 2010#

Hav Kheem Singh (No. 1481014F now JC-339216W),  
01 Jul 2010#

Hav Kamla Prasad (No. 1481025N now JC-339217Y),  
02 Aug 2010#

Hav Pramod Kumar Sharma (No. 1481026W now JC-  
339218F), 23 Jul 2010#

Hav Amar Nath Pal (No. 1481036A now JC-339219K),  
20 Jul 2010#

Hav Nafish Ahmed (No. 1481048P now JC-339220Y),  
24 Jul 2010#

Hav Yogendra Singh Chauhan (No. 1481070A now JC-  
339221F), 01 Aug 2010#

Hav Dinesh Singh (No. 1481125Y now JC-339222K),  
02 Aug 2010@

Hav Kamaljit Singh (No. 1481135H now JC-339223M),  
02 Aug 2010@

Hav Hukam Singh Rajput (No. 1481163P now JC-339224P),  
02 Aug 2010@

Hav Shiv Prakash Singh (No. 1481201A now JC-339225X),  
02 Aug 2010@

Hav Nirmal Chandra Dakua (No. 1481247H now JC-  
339226A), 02 Aug 2010@

Hav Mangal Basumatari (No. 1481249N now JC-339227H),  
02 Aug 2010@

Hav Suresh Chandra (No. 1481307M now JC-339228L),  
02 Aug 2010@

Hav Santosh Kumar (No. 1481345H now JC-339229N),  
02 Aug 2010@

Hav Nirmal Singh (No. 1481368K now JC-339230H),  
02 Aug 2010@

Hav Ram Chandra Yadav (No. 1481388X now JC-339231L),  
02 Aug 2010@

Hav Mahiman Singh Thapa (No. 1481393H now JC-  
339232N), 12 Aug 2010@

To be Nb Sub/Clk (SD)

Hav Shaik Shamsheer Hussian (No. 1482857F now JC-  
339233W), 22 Jun 2010++

Hav Ram Bachan Singh Yadav (No. 1483865M now JC-  
339234Y), 01 Jul 2010#

Hav Sube Singh (No. 1484592F now JC-339235F), 04 Jul  
2010#

Hav Inderjit Mondal (No. 1484571L now JC-339236K),  
01 Jul 2010#

Hav Tej Pal Singh (No. 1484705Y now JC-339237M),  
01 Jul 2010#

Hav Suresh Kumar KP (No. 1484808X now JC-339238P),  
01 Jul 2010#

Hav Tej Ram (No. 1483521N now JC-339239X), 07 Jul  
2010#

Hav Makunda Nayak (No. 1484568L now JC-339240M),  
01 Jul 2010#

Hav Sudhir Kumar (No. 1484710K now JC-339241P),  
01 Jul 2010#

Hav Rajesh Kumar (No. 1483390N now JC-339242X),  
01 Jul 2010#

Hav Tilak Ram (No. 1484921M now JC-339243A), 02 Aug  
2010@

Hav Vidhata Ram Dwivedi (No. 1477000K now JC-  
339244H), 01 Aug 2010@

Hav Karnel Singh Sikh (No. 1483163N now JC-339245L),  
02 Aug 2010@

To be Nb Sub (SKT)

Hav Subhan Ali (No. 1483455W now JC-339246N),  
02 Aug 2010@

To be Nb Sub/Svy Cat

Hav Narendra Singh Bhandari (No. 1477709M now JC-  
339247W), 02 Aug 2010@

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Jan 2010  
without effect on pay & allces)

++(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010  
without effect on pay & allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010  
without effect on pay & allces)

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2010  
without effect on pay & allces)

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010  
without effect on pay & allces)

^(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Jun 2010  
without effect on pay & allces)

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010  
without effect on pay & allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010  
without effect on pay & allces)

ALKA JOSHI  
Under Secy

#### FINANCE DIVISION

No. 124, dated 15th February 2011—The President is pleased to retire Shri Deepak Bhambhani, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31.01.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

P L JALWA  
Asstt Financial Adviser (E)

#### ARMY BRANCH

No. 125, dated 15th February 2011—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps Officer to premature retire from Army Service at their own request wef the dates shown against their names :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### PERMANENT COMMISSION

#### PREMATURE RETIREMENT

DR-10355Y Col (TS) Gita Arora, 10 Apr 2010 (AN)

DR-10361M Col SK Ojha, 31 Aug 2010 (AN)

MAHESH CHANDER  
Maj Gen  
Addl DGDS

#### ARMY BRANCH

No. 126, dated 15th February 2011—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to retire from Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

SI No., IC No., Rank, Name, Arms/Ser & Date of Premature Retirement

IC-42426 Lt Col Sanjeev Kaloty, Sigs, 17 Oct 2009 (AN)

IC-48894 Lt Col Pratik Bhargava, Sigs, 21 Sep 2009 (AN)

IC-46504 Lt Col Sanjay Mehrotra, Sigs, 31 Oct 2009 (AN)

IC-53256 Lt Col Abdul Hussain Quamar, Sigs, 15 Nov 2009 (AN)

IC-46377 Lt Col Vikramjit Singh Grewal, AC, 21 Sep 2009 (AN)

IC-49101 Lt Col Gaurav Khanna, Sigs, 05 Jun 2010 (AN)

IC-49842 Lt Col Chandan Vatsa, Engrs, 02 Aug 2010 (AN)

IC-44108 Lt Col Sanjeev S Rathour, EME, 31 Aug 2010 (AN)

IC-48826 Lt Col Anuj Rawat, Inf, 26 Aug 2010 (AN)  
 IC-49290 Lt Col Raman Prasad Emani, SM Inf, 31 Jul 2010 (AN)  
 IC-49225 Lt Col Shantonu Banerjee, AC, 14 Sep 2010 (AN)  
 IC-58564 Maj MV Sooraj, VRC, EME, 03 Apr 2010 (AN)  
 IC-46027 Lt Col Charan Preet Singh Bedi, AAD, 14 Sep 2010 (AN)  
 IC-48859 Lt Col Jitendra Kumar Mishra, Arty, 08 Sep 2010 (AN)  
 IC-54832 Lt Col Daniel Varghese, Inf, 14 Sep 2010 (AN)  
 IC-43351 Lt Col Amitabha Nandi, Arty, 23 Sep 2010 (AN)  
 IC-47244 Lt Col Prakash Kumar Rukhaiyar, Arty, 14 Sep 2010 (AN)  
 IC-49150 Lt Col Disoj Kumar Farashwal, Arty, 03 Oct 2010 (AN)  
 IC-47649 Lt Col Jaspreet Singh Babbar, Arty, 22 Sep 2010 (AN)  
 IC-44715 Lt Col Narinder Bahl, Mech Inf, 18 Sep 2010 (FN)  
 IC-49866 Lt Col Gorthy NVRS Haranath, EME, 30 Sep 2010 (AN)  
 IC-50669 Lt Col Malay Sankar Pal, EME, 10 Oct 2010 (AN)  
 IC-48958 Lt Col Atul Gupta, AC, 08 Sep 2010 (AN)  
 IC-44677 Lt Col Bhupesh Mahesh Pathak, AAD, 02 Oct 2010 (AN)  
 IC-41990 Lt Col Ajay Singh Rajawat, AC, 01 Nov 2010 (AN)  
 IC-46412 Lt Col Vineet Prasad, Arty, 12 Oct 2010 (AN)

SK CHAKRABORTY  
 Jt Dir  
 MS/PR

#### ARMY BRANCH

No. 127, dated 17th February 2011—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army

Service wef the dates shown against their names under AI 15/79 :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### RELEASE

DS-12135N Maj Gaurav Garg, 08 Mar 2010 (AN)  
 DS-12014M Maj Vikas Sehgal, 19 Apr 2010 (AN)  
 DS-12151L Maj Ravi Bhatt, 17 May 2010 (AN)  
 DS-12139K Maj HN Rathod, 26 Jun 2010 (AN)  
 DS-12167W Maj Raj Kumar S, 09 Jul 2010 (AN)  
 DS-12144P Maj K Senthil Kumar, 09 Jul 2010 (AN)  
 DS-12171Y Maj Senthil Kumar R, 06 Oct 2010 (AN)

MAHESH CHANDER  
 Maj Gen  
 Addl DGDS

#### ARMY BRANCH

No. 128, dated 17th February 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officers to discharge from TA service :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

#### DISCHARGE

Maj SD Sharma, TA-42283, Inf, 23 Nov 2008  
 Capt Jayanta Lall, TA-42570, Inf, 09 Jan 2009  
 Capt Akhil Srivastava, TA-42498, Inf, 08 Jun 2010  
 Maj JPS Jadeja, SC, TA-42437, Inf, 24 Jun 2010  
 Lt Anil Kundu TA-42517, Inf, 29 Jun 2010  
 Maj Arpan Anand TA-42591, Inf, 16 Aug 2010

JAI RAJ  
 Dy Secy